

वीर सेवा मन्दिर  
दिल्ली

★

४२४३

क्रम संख्या

काल न०

खण्ड

२४०-४ धान

स्व० कवि श्री धानतरायजी कृत

# चर्चा शतक

टीकाकार—

श्री हरजीमलजी पानीपतवाले

प्रकाशक—

सरस्वती भण्डार,

मंदिरजी श्री आदिनाथ स्वामी एवं महावीर स्वामी

(निर्माण-कर्ता—श्री मेघराजजी लुहाडिया)

चोल्कों का रास्ता, जयपुर

दीपभाषिका

वीर नि. सं. २४८२

मूल्य

सवा रुपया

---

मुद्रकः—

श्री वीर प्रेस

मनिहारों का रास्ता, जयपुर ।

---

## प्रकाशकीय

जो हस्त लिखित प्रति चर्चाशतक की हमारेयहां मन्दिरजी में है उसकी टीका का ढंग बड़ा ही विशिष्ट व अनूठा है, एक एक पदके छोटे २ टुकड़े का न्यारा २ अर्थ इतनी उपयुक्तता से किया हुआ है कि साधारण से साधारण बुद्धिवाले व्यक्ति के भी ठीक २ भावार्थ समझ में आ जाता है; किन्तु अनेकानेक असुविधाओं के कारण उसको उस रूप में प्रकाशित न कराया जा सका, जिसका हमें बड़ा खेद है; क्योंकि वह अधिक उपयोगी प्रमाणित होता। इसके अतिरिक्त ब्लाक आदि न बन पाने आदि की दिक्कतों के फलस्वरूप बहुत से नकशे भी छपने से रह गये हैं फिर भी जो कुछ आपके सामने उपस्थित कर पाए हैं उसका सम्पूर्ण श्रेय श्रीमान् भंवरलालजी न्यायतीर्थ को ही है जिनकी कि देखरेख में पुस्तक के मुद्रण आदि की व्यवस्था हुई है तथा अपना अमूल्य सहयोग देकर जिन्होंने पुस्तक का सम्पादन किया है। श्री सुशील कुमारजी B. A. साहित्यरत्न, साहित्यालंकार, शास्त्री M.J.Ph. व श्री ज्ञानचन्दजी M A. को भी मैं धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता जिन्होंने क्रमशः हिन्दी अंग्रेजी में पुस्तक का आमुल्य लिखने का कष्ट किया है।

आशा है विद्वान पाठक इस प्रयत्न को अपनाकर सफल बनावेंगे जिससे भविष्य में भी इसी प्रकार सत्साहित्य के सृजन व प्रकाशन के कार्य को चालू रखने की हमारी भावना को बल मिले।

चांदलाल रावका

## विषय सूची

पद सं०	विषय	पृष्ठ सं०
१	मंगलाचरण	१
२	श्री नेमिनाथजी की स्तुति	३
३	वीतराग स्तुति	६
४	अकृत्रिम चैत्यालय प्रतिमा मंख्या	७
५	सिद्ध स्तुति	६
६	आचार्य उपाध्याय सर्वमाधु की वन्दना	११
७	अलोक और लोक का स्वरूप	१४
८	तीनलोक का स्वरूप	१६
९	लोकाकाश का विशेष वर्णन	१८
१०	लोकाकाश का पुनः वर्णन	२०
११	त्रिमनाड़ी और जीवों के अस्तित्व का वर्णन	२२
१२	तीनों लोकों का घनफल	२६
१३	अधालोक का घनफल	२८
१४	उर्ध्वलोक का घनफल	३१
१५	तीन सौ तेनालीम राजू का वर्णन	३४
१६	तीनों वातबल्लभों का परिमाण	३५
१७	तीन लोक के ११२ पटलों का वर्णन	३८
१८	छह संहनन वाले जीव सरकार कहां उत्पन्न होते हैं	४१

पद सं०	विषय	पृष्ठ सं०
१६	छहकाल और गुणस्थानों में संहतन	४५
२०	चौबीस तीर्थंकरों के अन्तराल	४८
२१	कर्म प्रकृतियों का कौन २ से गुणस्थान में लब्ध	५१
२२	मानुषोत्तर पर्वत का परिमाण	५४
२३	देवलोक प्रवोचन कथन	५६
२४	१६६ प्रधान पुरुषों की गणना	५६
२५	१४८ कर्म प्रकृतियां	६१
२६	भव-क्षेत्र-पुद्गल-जीव विपाकी प्रकृतियों का वर्णन	६३
२७	सर्वघातो, देशघातो और अघाति प्रकृतियों का वर्णन	६७
२८	पांच त्रिभंगी वर्णन	६८
२९	बन्ध-उदय-सत्ता	७०
३०	पाप प्रकृतियां	७३
३१	पुण्य प्रकृतियां	७५
३२	जिनमत की श्रद्धा	७६
३३	एक सौ साढ़े निन्याणवे लाख कुल कोड का वर्णन	७८
३४	अंक गणना के भेद	८०
३५	तेरहवें गुणस्थान में सात त्रिभंगी	८३
३६	बंध दशक कथन	८६
३७	तीन लोक के अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या	८८
३८	तीन कम नवकोटि मुनियों की उत्कृष्ट संख्या	९१
३९	अटाई द्वीप का ज्योतिष मंडल	९३

पद सं०	विषय	पृष्ठ सं०
४०	आयु कर्म के बंध के नव भेद	६६
४१	मन्तावन जीव समास	६८
४२	अट्टानवै जीव समास	१०१
२३	साढे सैंतीस हजार प्रमादों के भेद	१०३
४४	ज्योतिष मंडल की ऊँचाई	१०५
४५	गुणस्थानों का गमनागमन	१११
४६	चौबीस तीर्थंकरों के शरीर का वर्णन	११५
४७	गोममटसार का आदि नमस्कार अष्टक सूचक	११६
४८	षट् विधि मंगल	११८
४९	पांच प्ररूपणा चौदह मार्गणा में गर्भित	१२०
५०	वारह प्रसिद्ध पुरुषों के नाम	१२१
५१	सम्पूर्ण द्वीप समुद्रों के चन्द्रमाओं की गिनती	१२२
५२	अधोलोक के चैत्यालयों की संख्या	१२५
५३	मध्यलोक के चैत्यालयों की संख्या	१२६
५४	उर्ध्वलोक के अकृत्रिम चैत्यालय	१२८
५५	सौधर्म इन्द्र की सेना की गणना	१३०
५६	एकेन्द्री से सैनी पर्यंत जीवनि के इंद्रियों के विषय की सीमा	१३०
५७	केवली समुद्रात समय कौन २ से योग होते हैं	१३५
५८	मिथ्यात्वी की मुक्ति न हो, सम्यक्त्वी की हो	१३७
५९	आठ कर्मों के आठ दृष्टान्त	१३९

पद सं०	विषय	पृष्ठ सं०
६०	गुणस्थानों के ५७ आख्य	१४१
६१	गुणस्थानों में १२० प्रकृतियों का बंध	१४४
६२	गुणस्थानों में १०२ प्रकृतियों का उदय	१४७
६३	गुणस्थानों में १२२ प्रकृतियों की उदीरणा	१५०
६४	गुणस्थानों में नाना जीवों की अपेक्षा	
	१४८ प्रकृतियों की सत्ता	१५१
६५	अन्तमुहूर्त की जन्म मरणों की संख्या	१५५
६६	घातिया कर्मों की ४ प्रकृतियां	१५६
६७	मोहनीय कर्म की २८ प्रकृतियां	१६१
६८	अघाती कर्मों की प्रकृतियां एवं कर्मों की जघन्य	
	उत्कृष्ट स्थिति	१६३
६९	नाम कर्म की प्रकृतियां	१६५
७०	भाव त्रिभंगी कथन गुणस्थानों में ५३ भाव	१६७
७१	जंबूद्वीप के पूर्व पश्चिम का वर्णन	१७०
७२	जंबूद्वीप के दक्षिण उत्तर का वर्णन	१७३
७३	अधोलोक के श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या	१७४
७४	उर्ध्वलोक के श्रेणीबद्ध विमान	१७८
७५	त्रैसट इन्डक विमान का वर्णन	१८०
७६	लवणोदधि के १००८ बड़वानल कथन	१८२
७७	प्रकृतियों का बन्ध और उदय	१८४
७८	पंचपरावर्तन का स्वरूप	१६०



पृष्ठ सं०	विषय	पृष्ठ सं०
७६	पुनः पंचवरावर्तन का स्वरूप	१६५
८०	पांच लब्धि कथन	१६७
८१	नन्दीश्वर द्वीप कथन	२००
८२	मेरू पर्वत का वर्णन	२०३
८३	मेरू पर्वत का पूर्व पश्चिम विस्तार	२०५
८४	चौदह गुणस्थानों में मरकर जीव-कहां जाता है	२०८
८५	नवमें गुणस्थान में ३६ प्रकृतियों का ज्ञय	२११
८६	जिनवाणी की संख्या	२१२
८७	गुणस्थानों में कर्मों का आश्रय	२१४
८८	गुणस्थानों में आयु का बन्ध और उदय	२१६
८९	आठ स्थानों में निगोद नाही, चबारिमें सासादन न जाय तीर्थकर सत्ता आदि कथन	२१७
९०	सात नरक एवं सोलह स्वर्गों का आवागमन	२२०
९१	सोलह कषायों के दृष्टांत और उनके फल	२२२
९२	चौदह गुणस्थानों में चौतीस भावों की व्युद्धिति	२२४
९३	बारह गुणस्थानों में उन्नीस भाव	२२५
९४	चारों गतियों में आश्रयद्वार	२२७
९५	चारों गतियों में त्रेपन भाव	२२९
९६	छहों लेश्यावालों के मिथ्यात्व गुणस्थान में कर्मबंध	२३१
९७	चौरासी जाल योनियां	२३२
९८	जिन त्रेसठ कर्म प्रकृतियों के नाश होने पर केवलज्ञान होता है उनका वर्णन	२३५

पद सं०	विषय	पृष्ठ सं०
६६	चारों गतियों में बन्ध योग्य प्रकृतियों का कथन	२३६
१००	जीवों की उत्कृष्ट आयु का वर्णन	२३८
१०१	नक्षत्रों के तारे और अकृत्रिम चैत्यालय	२४१
१०२	जिनवाणी के सात भंग	२४४
१०३	सर्वज्ञ के ज्ञान की महिमा	२४६
१०४	कविका अन्तिम कथन	२४८



## Introduction

The author of the present work, Shri Dhyanat Rai a jaina poet of 18th century A D., lived at Agra. He is acknowledged as a first grade jaina poet of that period.

In the present work, the author has dealt upon the subject matter of karnanuyoga mainly. He has given the details of various topics in a very concise and lucid form, such as:— the constitution of the universe with its three regions : upper, lower and middle, the jaina chatalayas (temples) situated in different regions of the universe, general theory of karmas and the special principles of karmic bondage, stoppage and destruction; the theory of Gunasthanas (stages of spiritual evolution), the one hundred sixty nine great persons—Tirthamkaras, Narayanas etc., the causes of birth in various Gatis. It is important to note that the author has not merely explained these notions but has put the numerical calculations into verse form, which is really a very difficult job. (It may be added that this is the only work of its own kind in whole of the Hindi jaina Literature.)

It is very interesting to note, as is clear from verse No. 103 and the name of the work 'charcha shatak'

itself that in that period Gommattsara and its difficult subject matter was a thing of common discourses. It shows the keenness of common man that he was not afraid of the difficult portions of Jain Vidya, but tried to understand even them. On the other hand, it reflects upon our deplorable condition that in this age of enlightenment today we are rather afraid of the subject matter of karnanuyoga as a whole. Being dazzled with the discoveries of modern science we have lost faith into the Jaina Geography and cosmology which had their source in the omniscience of Tirthamkaras themselves. But it is a fact that the modern Science and its discoveries do not satisfy the scientists themselves and they look upon their conclusions and upon the premises on which they draw those conclusions as final. Therefore there is no reason why should we lose faith or interest in Jaina Geography, cosmology and such subjects of karnanuyoga.

In the end it may be added that this versification of many topics of Gommattsara and Triloksara in summary form makes it easy for us to memorise.

Its commentary by Shri Harjimal Panipat wala is in good prose in which he has explained well the terms used in the verses.

Biltiwala House,  
Jaipur  
18-11-55

Gyan chandra M.A.

## — आमुख —

प्रस्तुत ग्रन्थ 'चरचा शतक' के रचयिता स्वर्गीय कवि दानतराय का जन्म संवत् १७३३ में हुआ था। इनके पितामह श्री वीरदासजी थे और पिता श्यामदासजी थे। आपका निवास स्थान आगरा था किन्तु आप दिल्ली भी आया जाता करते थे। ये गोयल गौत्रीय अग्रवाल श्रावक थे। दानतरायजी के चरित्र-निर्माण और अटल श्रद्धान को जागरूक बनाने का श्रेय पं० विहारीदासजी और पं० मानसिंहजी को है जिनके धर्मोपदेश व प्रेरणा ने कवि के जीवन-क्रम को बदल दिया और यौवन की आंधी व वासना के कुचक से मुक्त होकर कवि दानतरायजी जैनत्व की ओर उन्मुख हो चले। संसर्ग का जीवन में कितना महत्व है यह कवि के जीवन से स्पष्ट है। एक ओर विषय-वासनाओं का मृदुतर आकर्षण, दूसरी ओर त्याग का कठोर तम संकल्प था। कविवर ने साधुजन संगति के प्रभाव से अपने संकल्पको पूर्ण किया, तीर्थयात्रा की, परम-पवित्र तीर्थराज सम्मैद-शिवर के दर्शन का आनन्द लाभ लिया, व अनुभव और अध्ययन के लिए अपने अमूल्य समय का सदुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। वे जैन साहित्य के मांगोपांग अध्ययन में दत्तचित हो गए। यह क्रमिक अभ्यास दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त होता गया। अन्त में कवि हृदय से जो भारती प्रश्रवित हुई वह पंडित मंडल में आदर एवं श्रद्धा की वस्तु बन गई।

महाकवि की साहित्य रचना मुख्यतः दिल्ली एवं आगरा में हुई। 'धर्म विलास' उनका अन्य संग्रह ग्रंथ है। इनका रचना काल लगभग ११७७ के आस-पास का प्रतीत होता है। 'धर्म-विलास' में अनेक पद और विविध विषयों की रचनाएँ हैं। चानतरायजी की पूजाएँ भी अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इनमें भक्ति-भावना की जो विशिष्टता मिलती है वह निस्संदेह सराहनीय है।

'चरचा शतक' भी सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। सूत्ररूपसे किसी बात को समझाना और सरलतम भाषा का उपयोग रचना के महत्त्व को द्विगुणित कर देता है। तत्कालीन जनता को इस ग्रन्थराज से अवश्य अत्यन्त लाभ हुआ होगा क्योंकि कठिन से कठिन विषय को भी उन्होंने इनकी रचनाओं में साररूप में अत्यन्त सुन्दर व सुव्यवस्थित रूप में पाया। अतः कंठाग्र करने में बड़ी सुविधा रही। आज तक भी अनेक व्यक्तियोंको इसके अंश याद हैं जो इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। धर्म साहित्य और दर्शन अगाध है। इसके बिना वास्तविकता को नहीं समझा जा सकता है। चानतरायजी का यह प्रयत्न इस दिशा में विशेष उपादेय सिद्ध हुआ है। कमसे कम शब्द, सरल भाषा, मनहर पद, छंद और अलंकारों के सौष्ठव से युक्त कवि की यह रचना जो अपना साहित्यिक महत्त्व रखती है, वह हिन्दी साहित्य के कवियों में दुर्लभ है और धार्मिक महत्त्व किन्ता है, जो ता सर्व विदिन हो है। तिस पर करणानुयोग के शुष्क एवं जटिल विषय पर लेखनी उठाकर उसे सफलता के साथ कवितावद्ध करने का कवि का साहस अत्यन्त श्लाघनीय है।

चरचा शतक में साहित्यिक सौंदर्य की अभिश्री मन्दाकिनी तरंगित-सरिता की भांति निरंतर प्रवाहित होती प्रतीत होती है, साथ ही इस अभिनव अभिव्यक्ति के पृष्ठ में सैद्धांतिक तथ्य का सुदृढ़ गढ़ भी है। धार्मिक मान्यताएँ और पूर्वाचार्यों के ज्ञानालोक में प्रतिभासित जो सामग्री इसमें है, वह आधुनिक विज्ञान के युग में चाहे हमारे मस्तिष्क में न उतरे तथापि इससे इसका महत्त्व कम नहीं हो जाता। यह युग विज्ञान का है, आत्मज्ञान का नहीं, जिसके अभाव में मानव अज्ञानान्धकार में डूब रहा है। जो कुछ इस पुस्तक में है वह विज्ञान की वस्तु नहीं, इसके परे, इसकी पहुंच के बाहर की है। हमारी समीम शक्तिवाली आंखें वहां तक नहीं पहुंच सकतीं। अतएव आजके युग में यह तर्क की अपेक्षा श्रद्धा की वस्तु अधिक है।

भारतीय परंपरा के अनुरूप मंगलाचरण से ग्रंथराज का प्रारंभ होता है। अपने इष्ट की स्तुति के द्वारा कवि उसकी विशिष्टताओं का वर्णन करता है। वह लक्षणहीन इष्ट नहीं मानता। उसके इष्ट का मापदण्ड है, एक कसोटी है जिसे वह गुराओं के रूप में व्यक्त करता है और उसकी वन्दना कर अपना कल्याण समझता है। सम्पूर्ण लोकालोक जिनके ज्ञान में भलकता है ऐसे श्री अरहंत को नमस्कार कर कवि लोक अलोक का क्रमशः वर्णन करता है, उनके घनफल, स्वरूप आदि पर, ६ काल १४ गुणस्थान, कर्मों की १४८ प्रकृतियां, मानुषोत्तर पर्वत का परिमाण, १६६ प्रधान पुरुष, पञ्च त्रिभंगी आदि विषयों पर प्रकाश डालता है।

अंक गणना के प्रकार वैशिष्ट्य को समझते हुए उन्होंने ग्यारह भेद किए हैं । तीन लोक के अकृत्रिम चैत्यालयों और अढ़ाई द्वीप के ज्योतिष मण्डल आदि का भी वर्णन किया गया है । अथु कर्म बंध के नो भेद, प्रमाद के भेद, गुणस्थानों के गमनागमन आदि विषयों को भी कवि ने स्पष्ट किया है । सातों नर्क, १६ स्वर्ग, ८४ लाख योनियां, ६३ कर्म प्रकृतियां, आश्रव, उदय, उदीरणा आदि की एक तालिका सी दी है जो कवि के अमाधारण ज्ञान एवं अध्वयन की विशालता का परिचायक है ।

जैन भूगोल का विषय अत्यंत विशाल है । आधुनिक विज्ञान के अनुसंधान से परे का सत्य जो आर्ष ग्रंथों और तपस्वी महर्षियों के आत्मज्ञान का परिणाम है, साधारण बुद्धि का व्यक्ति यदि उसे न समझ पाये तो इसमें आश्चर्य ही क्या है जब कि आज के चोटो के विद्वान भी उसकी वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं ।

प्रस्तुत ग्रन्थ में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग यथावत् किया गया है जो दुरुह नहीं है किन्तु जिन्हें जैनधर्म एवं सिद्धान्त का प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं है उनके लिए अवश्य कठिन हो सकता है । इस दुरुहता को सरल बनाने के दृष्टिकोण से पानीपत निवासी श्री हरजोमल कृत टीका सहित यह पुस्तक प्रकाशित की जा रही है । यह टीका अप्रकाशित थी । टीका की यह भाषा अवश्य ही आज पुरानो हो गई है किन्तु फिर भी इसमें आकर्षण व मधुरता है । सुन्दर संचयन, भावों की स्पष्टता, प्रश्नोत्तर का अपना प्रकार एवं भाषा की प्राजंभता से यह अब भी



उतनी ही उपयोगी है। सबसे बड़ा महत्त्व तो इसका यह है कि इससे हमें तत्कालीन हिन्दी भाषा के रूप का बोध होता है। चर्चा शतक ग्रंथ पहिले भी श्रद्धेय पं० नाथूलालजी प्रेमी के सम्पादकत्व में प्रकाशित हो चुकी है, परन्तु उसमें टीका आधुनिक खड़ी बोली में है। प्रश्नोत्तर रूप में अपने निराले ढंग के कारण इसकी शैली आज की खड़ी बोली से अधिक बोधव्य प्रतीत होती है; जैसा कि इसका अपना नाम है, इसका प्रकार भी 'चर्चा' का ही है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर इसको अपने असलीरूप में ही प्रकाशित कराया जा रहा है। आशा है यह प्रयत्न पाठकों को रुचिकर प्रतीत होगा।

इस ग्रंथ के प्रकाशन का भार सरस्वती भंडार स्थानीय मंदिरजी श्री मेघराजजी द्वारा वहन किया गया है जहां इसकी प्राचीन हस्त लिखित प्रति उपलब्ध थी। आज के युग में निःसंदेह यह एक आदर्श व अनुकरणीय कदम है। यदि मंदिरों की अतुल्य धनराशि का उपयोग इसी प्रकार के आदर्श को लेकर सत् साहित्य के प्रकाशन व प्रचार के कार्य में किया जाए तो बहुत कुछ सेवा हो सकती है।

साधना सदन  
दीपमालिका  
बीर नि० संबत् २४२२

सुशीलकुमार शाह





ॐ श्रीवीतरागाय नमः ॐ  
स्व० कवि ध्यानतरायजी कृत

## चर्चा शतक

( टीका सहित )

मंगलाचरण

—: पंच परमेष्ठी की स्तुति :—

ॐ छाप्य ॐ

जय सरवज्ञ अलोक लोक इक उडुवत देखैं,  
हस्तामल ज्यों हाथलीक ज्यों, सरव विशेखैं ।  
छहों दरव गुन परज कालत्रय वर्तमान सम,  
दर्पण जेम प्रकाश नाशि मल कर्म महात्म ।  
परमेष्ठी पांचों विघनहर, मंगलकारी लोक में,  
मनवचनकाय सिरनाय भुवि, आनंद सों द्यौं ढोक में ।१।

जै कहिए जयवंते प्रवर्तौं, सर्वज्ञ कहिए अर्हंतदेव जी,  
कैसे हैं सर्वज्ञदेव, सबनै जानै हैं । जिस मांहि और द्रव्य

नाहीं पाईए सो अलोक, जा विषै छहों द्रव्य पाईए सो लोक, सो सब लोक अलोक कूं, जैसे आकाश मंडल विषै एक तारा सर्वांग दीसै तैसें सर्व लोक अलोक कूं प्रत्यक्ष युगपत्—एक ही बार देखै और जानै, कैसे देखै और जानै, जैसे हाथ विषै आवला प्रत्यक्ष दीसै तैसें प्रत्यक्ष देखै हैं, जानै हैं। अथवा हाथ की लीक जैसे प्रत्यक्ष दीसै तैसें सब प्रत्यक्ष देखै और जानै, सर्व विशेष करि भलै प्रकार युगपत्—एक ही बार देखै और जानै। छह द्रव्य कौन कौन ? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इन द्रव्यनि के गुण पर्याय, अनंतानंत गुण अनंतानंत पर्याय तिन द्रव्यों की तीन काल संबंधी अतीत परनया, अनागत परणवैगा, वर्तमान परणवै है तिनकों वर्तमान की नाई केवलज्ञान ज्योति विषै युगपत्—एक ही बार अनंतानंत गुण अनंतानंत पर्याय सर्व प्रतिबिंबित ही है। जैसे आरसी की निर्मलता पाय सहज ही घटपट प्रतिभासै तैसें केवलज्ञान मई ज्योति विषै इच्छा विना सहज ही षट् द्रव्य गुण पर्याय सहित प्रत्यक्ष भासै, भलकै। नाश किए हैं च्यारि घातिया कर्ममल, ते कौन, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय अंतराय। इनके घात करनेतैं अर्हत कहाए। अर कर्मरूपी महान अंधकार के नाशतैं केवलान रूपी सूर्य उदय भया। परम कहिए परमात्मा के इष्टी तातैं परमेष्ठी, ते कौन कौन ?

अर्हत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु । कैसे हैं पंच परमेष्ठी, सर्वविघ्नों के हरनहारे हैं, नाश करनेवाले हैं सर्वथा, बहुरि कैसे हैं पंच परमेष्ठी, सर्व अपमंगल के हरनहारी हैं । तीनों लोक विषै मं कहिए पाप, तिसै गालै सो मंगल अथवा मंग जो सुख ताहि लाति कहिए देवे सो मंगल ताके करने वाले हैं । मन वचन काय की शुद्धता करिकै बंदौ हौं, मस्तक नमाय कै पृथिवी सौं लगाइ कै, सुस्यालगीस्यौं, प्रफुलिततासौं मगनतासौं बडा हर्ष सहित में बंदौ हौं, दंडौत करौं हौं, नमस्कार करौं हौं, अरिहंतदेवकौं वा परमेष्ठीनिकौं ।

—: श्री नेमिनाथजी की स्तुति :—

बन्दौं नेमि जिनंद चंद, सबकौं सुखदाई ।  
बल नारायण बंदि, मुकुटमणि सोभा पाई ॥  
व्यंतर इंद्र बतीस, भवन चालीसौं आवैं ।  
रवि ससि चक्री सिंह, सुरग चौबीसौं ध्यावैं ॥  
सब देवन के सिरदेव जिन,  
सुगुरुनि कै गुरुराय हौ ।

हूजे दयाल मम हाल पै,  
गुण अनंत समुदाय हौ ॥ २ ॥

वंदौहौं, नमस्कार करौहौं भाव सहित, किसकौं ?  
नेमिनाथ बावीसवां तीर्थकर कौं। कैसे हैं नेमिनाथ, शरदकाल  
के चन्द्रमा समान निर्मल है शासन कहिए आज्ञा जिनकी,  
बहुरि कैसे हैं, तीन लोक के सब प्राणिनि कौं महा सुखदाई  
हैं, सबकौं सुख के करनहारे हैं। बल कहिए पद्मनामा  
वलभद्र वान व बलदेव, नारायण कहिए कृष्ण त्रिखंडीवान  
व नारायण चरण कमलनि कौं वंदतैं नमस्कार करतैं  
नेमिनाथ के चरण कमलनि की किरणनि के स्पर्शतैं तिस  
वलभद्रनारायणों के मुकुट माहिं लगे हैं रतन, तिन रतनों  
की अधिक सोभा भई। व्यंतर जाति के देव आठ प्रकार हैं।  
तहां एक एक जाति विषै दोय दोय इन्द्र अर दोय दोय  
प्रतीन्द्र, सब मिलि बत्तीस भए, बत्तीसों इन्द्र बड़े उत्साह  
सहित आवै। भवनवासी देव दश प्रकार हैं। तहां एक एक  
जातिविषै दोय दोय इन्द्र अर दोय दोय प्रतीन्द्र सब  
मिलि चालीस भए, ते चालीसों इन्द्र उत्साह सहित पूजन  
के अर्थ आवै। ज्योतिषी देव पांच प्रकार हैं परंतु तिन  
विषै इन्द्र दोय हैं। रवि कहिए सूर्य तो प्रतीन्द्र शशि  
कहिए चन्द्रमा इन्द्र, ए दोय इन्द्र, मनुष्यनि का इन्द्र

चक्रवर्ती, छह खंड का धनी, नवनिधि—चौदह रतन का स्वामी; तिरजंचनि को इंद्र सिंह पूजन कुं आवै । स्वर्ग सोलह तिनके इंद्र चौबीसः—पहले दोय स्वर्ग विषें दोय इंद्र दोय प्रतींद्र, तीजे चौथे में दोय इंद्र दोय प्रतींद्र, पांचवां छठा में एक इंद्र एक प्रतींद्र, सातवां आठवां में एक इंद्र एक प्रतींद्र, नवमां दसमां ग्यारमां बारमां में च्यारि इंद्र प्रतींद्र, ( २ इन्द्र एवं २ प्रतींद्र ) बाकी च्यारमें च्यार इन्द्र, च्यार प्रतींद्र, सब देवनि के इंद्र भवन चालीस, व्यंतर बत्तीस, रवि शशि, चक्री, सिंह, स्वर्ग चौबीस तिन के सिरदेव सिरताज हैं ।

तीन लोक का स्वामी भगवान वीतराग देव हैं । जिन वीतराग देव अठारह दोष रहित छयालिस गुन विराजमान हैं । सुगुरु कष्टिए निग्रंथ महाव्रती मुनीश्वर तिनके परम उपकारी गुरु हौ । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रनि की एकता रूप मोक्ष मार्ग के दिखावन हारे हौ, सांचा सरधान सांचौ ज्ञान, सांचा चारित्र कौ स्वरूप जिनदेव विन कौन प्रकासे है । हे वीतराग देव दयाल हूजे कृपा कीजे, मो उपरि, संसार तें छुडाय कें मोक्षपद दीजे अैसी कृपा कीजे । कैसे हौ तुम, अनंत गुणों के समुदाय हौ, पूज्य हौ, अनंत गुन तुम ही विषें साक्षात् प्राप्त भयै हैं, दोषनि की रंच मात्र निसांणी भी नाहीं है ।

वीतराग स्तु त

इन्द्र फणींद्र नरिंद्र, पूजि नमि भगति बढ़ावैं ।  
बल नारायण मुकटबंदि, पद शोभा पावैं ॥१॥  
विन जानैं जग वन भूमैं, जानि छिन सुरग बसावैं ।  
ध्यान आनि रिधिवान, अमरपद आप कहावैं ॥२॥

सब देवनि के सिरदेव जिन,  
सुगुरुनि के गुरुराय हौ ।

हूजै दयाल मम हाल पै,

गुन अनंत समुदाय हौ ॥३॥

इन्द्र कहिए स्वर्गवासी इन्द्र, फणींद्र कहिए भवन-  
वासीनि का इन्द्र, नरेन्द्र कहिए चक्रवर्ती, भक्तिसेती भाव-  
सहित पूजा करै, भावसेती नमस्कार करै, पूजा करिकैं  
नमस्कार करिकैं, स्तोत्र पढि जिनका गुणानुवाद गाय  
अत्यंत भक्ति बढ़ावैं । बलभद्र वा नारायणों के मुकुट जिनके  
चरण कमल बंदतैं अत्यन्त शोभा पावैं, अपूर्व जिन  
चरणों की किरनि करकैं, महाशोभा पावैं । वीतराग देवके चरण  
कमलोंके विना जानैं, विना पूजैं, विना सुमरैं यह जीव  
संसार वन विषैं अनंत काल भ्रमण करै है । महान घोर  
केवलीगम्य दुख सहै है, ते दुख वचनगोचर नाहीं । जे

वीतरागदेव के चरन कमल जानें, पूजें, सुमरें, भक्ति बढावें सो भक्ति क्षण एक मांही सिताबी ही स्वर्ग मांही ले जाय सही । और जो जीव अर्हतदेव नैं भावसहित धारै, स्मरै सो जीव सांसारिक सुख ऋद्धि सिद्धि इन्द्र चक्रवर्ती के सुखनि कौं भोगिकें पीछैं अमरपद कहिए मोक्ष ताहि पावै । ता मोक्ष विषैं अतीन्द्रिय सुख भोगवै, फेरि संसार विषैं भ्रमै नाहीं, तातैं अमर कहिए । सब देवतांनि के सिर दार हैं, सिरताज हैं, सबके बड़े हैं । एक जिन वीतरागदेव अठारह दोष रहित, छियालीस गुण सहित जिनेन्द्र हैं । सब सुगुरु के वीतरागदेव गुरु हैं । हूजै दयाल हूजै, कृपा कीजै मेरै उपरि, मोक्ष पद दीजे । कैसे हो तुम अनंत गुण करि पूज्य हो, अनंत गुण तुम विषैं साक्षात् प्रकट हैं ।

अकृत्रिम चैत्यालय प्रतिमा संख्या—स्तुति

❀ छप्पय ❀

बन्दों आठ किरोर, लाख छप्पन सत्तानौ ।  
 सहस च्यारि सौ असी, एव. जिनमंदिर जानौ ॥  
 नव सै पच्चिस कोरि, लाख त्रेपन सत्ताइस ।  
 बंदों प्रतिमा सबै, सहस नौ सौ अड़तालिस ॥



व्यंतर ज्योतिक अर्गाणत सकल,  
चैत्यालय प्रतिमा नमों ।

आनन्दकार दुखहार सब,  
फेर नहीं भववन भमों ॥ ४ ॥

अकृत्रिम चैत्यालय सब ८५६६७४८१ (आठ कोड़ि छप्पन लाख सित्याणवै हजार च्यारि सै इक्यासी) हैं । तिन मांहि प्रतिमा, नवसै पचीस करोड़, त्रेपन लाख, सत्ताईस हजार, नवसै अड़तालीस (६२५५३२७६४८) बंदों हों नमस्कार करूं हूँ । ए सब तीन लोकके चैत्यालयनि की संख्या पाताल लोक, मध्यलोक, उर्द्ध्वलोक संबंधी जिनदेव कही । तिन चैत्यालयनि विषैं प्रतिमा बंदों हौ, समस्त प्रतिमांजीनिकों । व्यंतरदेव अष्टविध—१. किंनर, २. किंपुरुष, ३. महोरग, ४. गंधर्व, ५. यक्ष, ६. राक्षस, ७. भूत, ८. पिशाच, इनि विषैं, अर ज्योतिषी पांच प्रकार—१ चंद्रमा, २ सूर्य, ३ ग्रह, ४ नक्षत्र, ५ तारा, इन विषैं, असंख्याते चैत्यालय हैं, अर असंख्याती ही प्रतिमा हैं तिनकों बंदों मन वचन कायतै नमस्कार करों हों । जगतप्रतरकै तीनसै जोजन की कृति रूप प्रतरांगुलनि का अर संख्यात का भाग दीजे इतने व्यंतरदेवनि के जिन मंदिर हैं । अर

१-कृति-वर्ग अर्थात् तीन सौ योजन के वर्ग का

जगत प्रतरकै दोयसै छप्पन प्रतरांगुल का वर्ग का अर संख्यात का भाग दीजे, इतने ज्योतिषी देवनिके जिन मन्दिर हैं । कैसी हैं प्रतिमां ? आनन्द की करनहारी हैं । बहुरि कैसी हैं सब दुखनि की हरनहागी हैं, नाशकरनहारी हैं । तिनके बन्दिवे तैं बहुरि संसार वन का भ्रमण नाहीं होय है, कर्मनि का नाश करि अविनाशी सुखका लाभ होय है ।

अब सर्व जीव राशि कै अनन्तवै भाग प्रमाण अनन्ते सिद्धनि नैं नमस्कार ।

॥ सिद्ध स्तुति ॥ ( छन्द छप्पय )

लोकईस तनुवात सीस, जगदीश विराजैं ।

एकरूप वसुरूप, गुन अनतातम छाजैं ॥

अस्ति वस्तु परमेय, अगुरु लघु द्रव्य प्रदेसी ।

चेतन अमूरतीक, आठ गुन अमल सुदेसी ॥

उतकृष्ट जघन अवगाह,

पदमासन खरगासन लसैं ।

सब ज्ञायक लोक अलोक विधि,

नमों सिद्ध भवभय नसैं ॥ ५ ॥

अर्थ—तीन लोक के ईश्वर हैं सिद्ध परमेष्ठी, तनुवात-बलय के अन्तविषैं शिर परि लोक कै ऊपरि सिद्ध परमेष्ठी

विराजे हैं, तिष्ठै हैं । जगत के मांही ईश्वर अनन्ते सिद्ध परमेष्ठी तनुवातवलय कै अन्त विराजै हैं । बहुरि कैसे हैं सिद्ध परमेष्ठी, कैसे हैं सिद्ध द्रव्य की अपेक्षा एकरूप हैं । बहुरि कैसे हैं—व्यवहार करि आठ गुनमई हैं । १-सम्यक्त्व, २-ज्ञान, ३-दर्शन, ४-वीर्य, ५-सूक्ष्मत्व, ६-अवगाहना, ७-अगुरु लघु, ८-अव्यावाध । बहुरि कैसे हैं सिद्ध परमेष्ठी निश्चयनयकरि अनन्तानन्त गुणनि करि विराजमान हैं सिद्ध समूह । अर अनेक वस्तु स्वभावनै लीए होय सो अस्तित्व कहिए, अनेक वस्तु स्वभाव सहित वस्तुस्त्व कहिए, अपनी मर्यादा लीए होय सो प्रमेयत्व कहिए, न भास्वान ऐसा स्वभाव लीए होय सो अगुरुलघु कहिए, अपने गुन पर्याय नै लीए द्रव्यै सो द्रव्य कहिए, अपनी सत्ता विषै तिष्ठै सो प्रदेशी कहिए, अपना चेतन ज्ञान स्वभाव लीए होय सो चेतन कहिए, चेतन स्वभाव सहित पुद्गल के बीस गुण रहित होय सो अमूर्तिक कहिए, ज्ञानदर्शन सहित स्पर्श रस, गंध, वर्ण, रहित अमूर्तीक है । ए आठ गुन निर्मल हैं । विशुद्ध हैं । द्रव्य के स्वाभाविक आठौं गुन हैं, शुद्ध हैं । सुदेसी कहिए सब जीवनि विषै ए आठौं गुन पाईए । सिद्धालय विषै सिद्धनि की उत्कृष्ट अवगाहना सवा पांचसै धनुष की पाईए, अधिक नाहीं पाईए, अर आठ वर्षका कै केवलज्ञान उपजै तिस

की साढ़ै तीन हाथ की जघन्य अवगाहना पाईए । यातँ घाटि न पाईए यह नियम है । और सिद्धालय विषै दोय आसन पाईए:- एक पद्मासन, दूसरा कायोत्सर्ग आसन । इन दोनों ही आसनों तै मोक्ष हो है, यह नियम है । और सिद्धान्तनि विषै आसन चौरासी कहे हैं, तिन विषै मोक्ष योग्य दोय आसन १-पद्मासन, २-कायोत्सर्ग हैं, और नाही, यह नियम है । मोक्ष विषै सिद्ध जीव कैसे हैं? जिस मांहि छहाँ द्रव्य पाईए सो लोक तनुवातवलय ताईं, उसतँ उपरि अलोक, ऐसे सब लोकालोक के ज्ञायक कहिए एक समय मांहि देखन जानन हारै हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी, ऐसे अनन्त सिद्धौ कौं नमस्कार करौं हौं । भव कहिए संसारका भय वा भ्रमण तिसका नाश हो है ।

अथ आचारज, उपाध्याय और मुनीश्वर ए तीनों साधु कहे हैं तँ इन तीनों को बन्दना करौंहौ ।

॥ आचार्य उपाध्याय सर्व साधु की बन्दना ॥

॥ छन्द छप्पय ॥

आचारज उवभाय, साधु तीनों मन ध्याऊँ ।  
गुन छत्तीस पचीस बीस, अरु आठ मनाऊँ ।  
तीनों कौं पद साध, मुकतिकौ मारग साधैँ ।  
भवतन भोग विराग राग सिव ध्यान अराधैँ ॥

गुनसागर अविचल मेरुसम, धीरजसौं परिसह सहैं ।  
मैं नमों पाय जुग लाय मन, मेरौ जिय वांछित लहैं । ५।

अर्थ:—१- दर्शनाचार, २-ज्ञानाचार, ३-चारत्राचार, ४-तप आचार, ५-वीर्याचार ए पांच आचार आप आचारैं, औरनि आचरावैं सो आचारिज, ग्यारह अङ्ग चौदह पूर्व कण्ठ पाठ पढ़ै सो उपाध्याय कहिए, पांचौं इन्द्रिय छटा मननैं वसि करै सो साधु कहिए, इन तीनों को मन विषै ध्याऊँ हूँ, पूजौँ हूँ. नमस्कार करौँ हौँ । कैसे हैं ए तीनों साधु-आचारिज उपाध्याय सर्वसाधु ? तिन विषै आचारिज कै तौ गुन छत्तीस:—बारह तप छह आवश्यक क्रिया, पंचाचार, दश लक्षण धर्म, तीन गुप्ति ए छत्तीस भए । उपाध्याय के गुन पच्चीस:—ग्यारह अङ्ग, चौदह पूर्व सब पच्चीस भए । उक्तं च गोमट्टसारविषै—

“वारस तव छा वासा पंचाचारा तहेव दह धम्मो ।

गुत्ती तियसंजुत्तो छत्तीस गुरुस्सणायब्बो”

मुनीश्वरों के गुन अट्टाईस:—सो पांच महाव्रत, पांच समिति, पांच इन्द्रियनिका वसि करना, छह आवश्यक क्रिया, केशानि का लौंच, वस्त्र त्याग, स्नान का त्याग, भूमि पै सोवनां, दांत धोवा का त्याग, खडा भोजन लेनां, एक

बार लघु भोजन करना, ए अट्ठाईस मूलगुण अरु चौरासी लाख उत्तर गुणों कूंपालै ऐसे मुनिराजों कौ ध्याऊँ हूँ । आचारज उपाध्याय सर्वसाधु इनि तीनों का पद जो है ताहि साधि करिकै, कहा साधै ? मुक्ति कहिए कर्म-क्षय लक्षण निर्वाण मोक्ष जामें समस्त कर्मनि का क्षय होय ताका मार्ग कहिए, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र ए तीन रत्नत्रय के निरन्तर साधक हैं । तातैं तीनों नै साध कहिए । उक्तंच दशाध्याय विषै—“सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गाः” । बहुरि कैसे हैं आचार्य उपाध्याय साधु ? भवे कहिए संसार, तनु कहिए शरीर अर भोग कहिए पांचौं इन्द्रियनि के विषय, तिन तैं अत्यन्त विरक्त हैं । बहुरि कैसे हैं—जिनका एक मोक्ष पै राग है और क्यांही पै राग नाहीं, एक मोक्ष की ही वांछा है और नाहीं । बहुरि कैसे हैं—च्यारि भेद धर्मध्यान—आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, च्यारि प्रकार शुक्लध्यान—पृथक्त्व, वितर्क विचार, एकत्व वितर्क विचार, सूक्ष्म क्रियाप्रतिपात्ति, व्युपरत क्रियानिवृत्ति. ध्यान आराधै हैं ध्यावै हैं । बहुरि कैसे हैं ? गुणनि के समुद्र हैं, गुणनि करि गंभीर हैं, जिन समान औरनि में ए कभी गुण नाहीं । अविचल कहिए अडोल निकंप मेरु बगबर हैं । ऐसे साधु बडे धीर वीर हैं, बडे साहसी हैं, उपसर्ग परीषदादि तैं कदा

काल नैकमात्र भी नांही चिगै हैं । मैं नमस्कार करौं हौं  
जिनुं के चरणकमलनि कूं मन लायकै । मेरा जीव  
वांछित फल पावै ।

अथ लोकाकाश अलोकाकाश का वर्णन कीजै है ।

अलोक और लोक का स्वरूप ( छप्पय )

अमल अनादि अनंत, अकृत अनमित अखंड सब  
अचल अजीव अरूप पंच नहिं इक अलोक नभ॥  
निराकार अत्रिकार, अनंत प्रदेश विराजै ।  
सुद्ध सुगुन अवगाह, दशौं दिश अन्त न पाजै ॥

या मध्य लोक नभ तीन विध,  
अकृत अमित अनईसरौ ।

अविचल अनादि अनंत सब,

भाख्यो श्री आदीश्वरौ ॥ ७ ॥

अर्थ—कैसा है अलोकाकाश—अत्यन्त निर्मल है,  
अनादिकाल का है, जाकी आदि नाहीं । अनंत काल  
ताईं रहेगा, अर जाका अन्त नाहीं । काहू करि कीया  
नांहीं, जाकी मर्यादा नाहीं, अनन्ता है । एक प्रकार  
अखण्ड है, जामें दूजा खण्ड नांही । सब जायगां फैलि  
रखा है । चलाचल नांहीं, सास्वता है । चेतन स्वभाव

तैं रहित है, अरूप कहिए अमूर्तिक है, और पांच द्रव्य .  
 १-जीव, २-पुद्गल, ३-धर्म, ४-अधर्म, ५-कालरूप  
 नांही । एक अलोकाकाश द्रव्यरूप है । जा विषै धर्म,  
 अधर्म, पुद्गल, जीव, काल ए पाइए सो लोक, याँ सिवाय  
 और सब अलोक है । जिसका कोई आकार नांही, गोल  
 तिकोणां, चौकोणां इत्यादि आकार नांहीं । जिस मांहि  
 कोई विकार नांहीं, शुद्ध है । जिस आलोकाकाश के अनन्त  
 प्रदेश हैं अनन्त प्रदेशों करि विराजमान है, शोभायमान  
 है । जिसके शुद्ध गुन है अशुद्धता नांही । जिसकी अव-  
 गाहना सर्वत्र दशों दिशा मांहि फैल रही है जिसका अन्त  
 नांहीं । ऐसा अनन्ता सास्वता पाईए है ।

इस अलोकाकाश के मध्य लोकाकाश तीन प्रकार  
 है । सो १-अधोलोक, २-मध्यलोक, ३-उर्ध्वलोक, ऐसा  
 लोकाकाश तीन प्रकार है । बहुरि कैसा है लोकाकाश  
 द्रव्य-काहूनै कीया नांही, अनादि निधन है । निज स्वभाव  
 तैं चलेगा नांहीं, मिटैगा नांही, कोई ईश्वर याँका कर्त्ता  
 नांही स्वयं सिद्ध है । इससौं चलाचल नांहीं, अचल है ।  
 अनादि काल का है । अनन्तकाल ताईं सब लोकाकाश  
 रहेगा । श्री आदि जिन वृषभदेवनैं यह दिव्यध्वनि करि  
 कहा है, भाख्या है ।



आगे लोकाकाश स्वरूप का वर्णन कीजिए है—

[ तीन लोक का स्वरूप ]

सवैया इकतीसां ( मनहर )

पूरव पच्छिम सात नर्क तलें राजू सात,  
 आगैं घटा मध्यलोक राजू एक रहा है ।  
 ऊंचै बढि गया ब्रह्मलोक राजू पांच भया,  
 आगैं घटा अंत एक राजू सरदहा है ॥  
 दच्छिन उत्तर आदि मध्य अंत राजू सात,  
 ऊंचा चौदह राजू षट् द्रव्य भरा लहा है ।  
 असंख्यात परदेस मूरतीक कियौ भेस,  
 करै धरै हरै कौन स्वयं सिद्ध कहा है ॥८॥

अर्थ:—पूर्व दिशा पश्चिम दिशा विषैं सातवां नरक तलें एक राजू मांहि निगोद है, तहां चौडाई राजू सात की है । पूर्व पश्चिम दिशा तें आगैं सातमें नरक तें ले अनुक्रम तें घटा, मध्यलोक विषैं पूर्व पश्चिम राजू एक चौडा रहा मेरू की चूलिका ताईं, आगैं ऊपरि तें चौडाई मांहि बढि गया । कहां तक ताईं बढि गया—ब्रह्मलोक कहिए पांचमां स्वर्ग तहाँ पूर्व पश्चिम चौडा राजू पांच रखा । मेरू की जड तें लेय पांचमा स्वर्ग तक साढे तीन राजू ऊंचा है ।

आगौ पंचम स्वर्ग तैं ऊपरि तैं सिद्धालय ताईं चौडाई विषैं घटि गया, अन्त कहिए लोक का अन्त सिद्धालय तहाँ एक राजू चोड़ा है। हमनैं इस भांति सरधान करथा है। यह चौडाई पूर्व पश्चिम सम्बन्धी जाननी । दक्षिण उत्तर दोन्युं दिशानि विषैं आदि कहिए निगोद तलै तैं ले करि, मध्य कहिए मध्यलोक विषैं अरु अन्त कहिए सिद्धालय ताईं सब ठौर दक्षिण उत्तर सात राजू चौडा है । बहुरि सर्व लोक कैसा है—चौदह राजू ऊँचा है, चौडाई पीछै कहि आए हैं । जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ऐसे छहौं द्रव्यनि करिकें भरथा है । जहाँ ताईं ए द्रव्य पाइये तहां ताईं लोकाकाश कहिए, अरु जहाँ तैं ए आकाश विनां पांचौं न पावैं तहाँ तैं अनन्तो अलोकाकाश जानना । बहुरि कैसा है लोकाकाश—असंख्यात प्रदेशी है । एक परमाणू जितनी जायगां दावै तिसका नाम प्रदेश है । बहुरि कैसा है लोकाकाश द्रव्य—अधः, मध्य, उर्ध्व ऐसे तीन भेद वा भेष धरनैं तैं लोक कौ व्यवहार करि मूर्तिक कहिए, निश्चय करि अमूर्तिक है । कोई ब्रह्मादिक लोक का कर्ता नाहीं । कोई विष्णु आदि धारणां पालना का कर्ता नाहीं, जिस लोक का ईश्वरादिक हरता, नाश करता नाहीं है, ऐसा है । बहुरि कैसा है लोकाकाश—आप ही तैं निष्पन्न है, काहूँ नैं

किया नहीं, अनादिकाल का है। ऐसा अरहन्त भगवान ने कहा है।

पुनः कहिए फेरि लोकाकाशका विशेष वर्णन कीजै है ।  
तीनों लोक तीनों वातवलय बेढे सब ठौर,  
बृच्छछाल अण्डजाल तनचाम देखिए ।  
अधोलोक वेत्रासन मध्यलोक थाली भन,  
ऊरध मृदङ्ग गनि ऐसो हि विसेखिए ॥  
कर कटि धारि पाउं कों पसारि नराकार,  
डेढ मुरज आकार अविनासी पेखिए ।  
घरमांहि छीकौ जैसे लोक है अलोक वाचि,  
छीके कों अधार यह निराधार लेखिए ॥

अर्थ—कैसा है लोकाकाश द्रव्य—अधोलोक, मध्यलोक, उर्ध्वलोक, ऐसे तीन लोक । १—घनोदधिवातवलय २—घन वातवलय, ३—तनुवातवलय, इन तीनों वातवलयनि करि सर्वलोक सर्व ठौर वेष्टित है, बेढ़ि राख्या है, आच्छादित करि राख्या है। इहाँ दृष्टांत कहै हैं—जैसे वृत्त कै सर्व जायगां छाल कहिए बलकल लिपटी रहै तैसे वातवलय तीन लोक कै लिपटे हैं। जैसे शरीर परि सर्वांग चाम लिपटा रहै तैसे तीन लोक वातवलय

वेष्टित हैं । जैसे अंडा के ऊपरि चाम जाल सर्वत्र लिपटा रहै तैसें तीन लोक कौं तीनों वातवलय सब जायगां लिपटा है, आच्छादि रह्या है । बहुरि तीनों लोक किस आकार है— तहाँ अधोलोक तल्लें तै जड मांही वेत्रासन कहिए खारी के आकार ( बेंत के बने हुए आसन के समान ) है एतावत चौरस है । मध्य लोक थाली के आकार है एतावत गिरदाकार है, बलयाकार है, थंडिल भूमि चौकोर है । उर्ध्वलोक मृदंग के आकार है एतावत ऊँचाई रूप है ।

यह कथन भल्लै प्रकार जानि चित्त विषैं श्रद्धान करिए । बहुरि सर्वलोक किस आकार है—दोनों हाथ कमरि परि धरि कैं दोनों पांव पसारै हैं तल्लें तैं, ऐसे नर के आकार है, मनुष्य के आकार है । बहुरि सर्व लोक किस आकार है—आधा मृदंग सूधा औंधा धरिकैं ता ऊपरि सारा मृदंग धरिये, ऐसैं डेढ मृदंग के आकार है । मुरज कहिए मृदंग ताके आकार । बहुरि कौसा है लोक—अविनाशी सास्वता है । यह निश्चय जाननां । जैसे घर के कोठे के बीचि छींका एक लटकै है तैसे लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी अनंत अलोककाश के मध्य विराजै है, सोहै है, तिष्ठै है । और छींका घर मांहि कौठा तिसके लगी है कडी, तिसके लगा है कडा, तिस कडा के आधार लटकै

है। और यह लोकाकाश सो निराधार है किसी के आधार नांही। स्वयं सिद्ध है, अपने ही आधार है, इस भांति कहा है सो श्रद्धान करिए।

बहुरि लोकाकाश का वर्णन कीजिए है।  
 तीन सौ तेताल राजू घनाकार सब लोक,  
 घनोदधि घन तनुवात के आधार है।  
 तामें चौदह चौकूंटी त्रसनाली त्रस थावर,  
 परैं तीनसौ उन्तीस थावर सदा रहै।  
 दच्छिन उत्तर डोरी त्रियालीस राजू सब,  
 पूरव पश्चिम उनताल कौ विचार है।  
 राज अंस बीसासौ तेतालीस अधिक कहे,  
 लोक सीस सिद्धनि कौं मेरो नमोकार है। १०।

अर्थ—तीन सौ तीयालीस राजू का घनाकार सर्व लोक-निगोद तैं लेकरि सिद्धालय पर्यंत घन है। एक राजू चौड़ा एक राजू लंबा, एक राजू ऊंचा खंड कल्पना कीजिए तौ लोक का घन रूप तीनसे तीयालीस खंड हो है।

भावार्थ—सात राजू की जगत श्रेणी ताका वर्ग गुण-चास राजू सो जगत्प्रतर अर ताकौ ऊंचाई सात करि गुणें तीनसे तीयालीस राजू सर्व लोक का घनाकार हो

है। कैसा है सर्वलोक—घनोदधिवातवलय जल और पवनका ताकें आधार है। घनवातवलय—पवन का ताके आधार धनोदधि वातवलय है। अरु घन वातवलय तनुवातवलय के आधार है। अरु तनुवातवलय निराधार सर्व अनन्ता अलोकाकाश के बीचबीच है। सो ए आधार व्यवहार कल्पनां है निरचयनयतें सब ही आप आपके आधार हैं। किसी का किसी के आधारपना नाहीं। तिस लोकाकाश के मध्यविषैं चौदह राजू ऊंची त्रस नाडी, एक राजू लम्बी चौड़ी चौकोर फासा के आकार त्रस नाडी है। जैसे ओखली के बीच बांस की भोगली गाडिए तैसे लोक के मध्य त्रस नाडी है। एता विशेषः भोगली तो पौली अरु गोल है अरु त्रस नाडी त्रस थावर जीवनि करि भरी सघन चौकोर है। त्रस नाली बाहिर लोक केवल थावरनि करि भर्या है, त्रस जीव तहां नांही। इस त्रस नाली तैं परैं तीनसै उनतीस राजू विषैं स्थावर एकेन्द्री जीव सदा पाइए और त्रस जीव त्रस नाडी विषैं ही पाइए, बाहिर नांही पाइए। बाहिर तौ एकेन्द्रिय जीव सदा पाइए। सो सर्व लोक का दक्षिण उत्तर की डोरी बीयालीस राजू है। लोक तलैं जह विषैं लम्बाई राजू सात और ऊपरि अंत विषैं राजू सात और ऊंचा चौदह राजू। दोन्यौ तरफ कैं चौदह राजू मिले  $7+7+14+14=$

सर्व बीयालीस राजू की डोरी भई । और सर्व लोक के पूर्व पश्चिम दिशादिशानि सम्बन्धी डोरी गुणतालीस राजू की है । सो पूर्व पश्चिम की चौड़ाई विषै घटाव बढ़ाव है । तहां लोक तलें राजू सात, अरु लोक तलें तें लेइ मध्यलोक तक राजू सात, अरु क्यूंक घाटि नौ कौं चौदहवौं भाग दोऊ तरफ का मिले पंदरह राजू किंचित् उन च्यारि को चौदहवौं भाग अमध्य लोक तें ब्रह्म स्वर्ग तक, ब्रह्म स्वर्ग तें लोक अन्त तक राजू च्यारि अर एक को आठवौं भाग किंचित् उन च्यारि तरफ मिले सोलह राजू साढा किंचित् उन लोक शिखर राजू एक, सब मिलि आठ स्थान गुणतालीस राजू भए अरु अंश-अरु एक राजू का एक सौ बीस भाग करिए ता विषै तीयालीस भाग अधिक लेनें तब पूर्व पश्चिम की सर्व तरफ डौरी गुणतालीस राजू अर एकसौ बीस भागनि विषै तीयालीस भाग अधिक जानने । ऐसे लोक के सीस कहिए अग्र भाग तनुवातवलयविषै निः कल परमात्मा-अनंते सिद्ध विराजमान हैं । तिनकौं मन, वचन, काय करि भावपूर्वक मेरा नमस्कार है । ढंडौत है ।

ऊँखलमै छेक वंशनाल लोक त्रसनाली,  
ऊंची चौदै चौरी एक राजू त्रस भरी है ।

यामें त्रस बाहिर थावर आउ बांधी कहूँ,  
मर्नसों अगाऊ गयो त्रस चाल करी है ॥  
बाहिर थावर कोउ त्रस आउ बांधी होउ,  
मर्न समै कारमान त्रसरीति धरी है ।  
केवल समुद्रघात त्रस रूप तहां जात,  
तीनों भांति उहां त्रसजिनवानी खिरी है । ११।

फेरि लौक का वर्णन कीजिए है ।

जैसे एक ऊँखल मांहि एक छेद करिकैं तिस छेद  
विषै बांस की नल कहिए पोरी दीजे तैसे ऊँखल तौ  
लोक तिस मांहि पोरी त्रसनाडी है ।

भावार्थ—लोक कै बीचि त्रसनाडी है । कैसी है त्रस  
नाडी—चौदह राजू की ऊंची समानपनै और विशेषपनै  
किंचित् ऊन तेरा राजू की ऊंची है ।

भावार्थ—जिस मांहि त्रस जीव पाईए सो त्रसनाडी  
कहिए । तातैं निगोद मांहि त्रस नांही और सर्वार्थसिद्धि  
तैं ऊपरि इकईस जोजन मांहि त्रस जीव नांहि । तातैं  
किंचित् ऊन तेरा राजू ऊंची त्रस नाडी है सोही त्रिलोक  
प्रज्ञप्ति विषै कही है ।

लोय बहुमज्भदेसे चउरस्सा एक जोयण सेव ।

तेरस रज्जूसेही किंचूण होदि त्रसणाली ॥



बहुरि कैसी है त्रसनाली, चौडी एकराजू की है ।

भावार्थ—आदितै लेइ अन्त ताईं एक राजू की सम चौकोर चौरस चली गई है । बहुरि कैसी है त्रसनाली—त्रसजीव जे बेहन्द्रियादिक संज्ञी पंचेद्री तक, अरु सूक्ष्म वादर स्थावर इन करि भरी है । इस त्रस नाडी विषै त्रस जीव है सो इहां त्रस जीवनि करि भरी सो त्रसनाली ऐसा बचन नियमवाची नांही, उपलक्षणवाची है । तातैं त्रसनाडी विषै तौ त्रस थावर सब ही जीव हैं । केवल त्रस ही हैं अरु स्थावर नाहीं ऐसा नाहीं है । त्रसनि की प्रधानता तैं त्रसनाली है । अरु त्रस नाडी कै बाहिर एकेन्द्री स्थावर है । त्रिभाग करिकै आउ बांधी सो किन बांधी—काह कहिए किसी त्रस जीव नैं आयु बांधी ।

भावार्थ—भुज्यमान आयु के दौय भाग वितीत भए परभव की आयु बन्ध की योग्यता हो है । सो आठ अपकर्षणनि विषै जोग्यता हो है । आगैं जोग्यता नाहीं । अरु भुज्यमान आयु विषै अन्तमुहूर्त बाकी रहे तब परभव की आयु अवश्य बांधे ही । सो त्रस जीव आयु कब बांधी मरनतैं अगाऊ त्रस पर्याय विषै थावर सम्बन्धी आयु बांधी सो त्रस जीव मारणान्तिक समुद्धात करिकैं आत्मप्रदेशनि का फैलाव किया, सो त्रस जीव आयु पूरि करि गयो । तिन त्रस जीव नैं मरनसमुद्धात कहिए

प्रदेशों का बाहरि थावर सेती तातू पूरथा तातैं इसन्याय त्रस नाडी तैं अथवा त्रस नाडी तैं बाहरि एकेंद्री थावर जीव है तिन किसी थावर जीवमें त्रिभंगी करिकैं त्रस जीव की जिस जीवका जितनां आयुष होय तिस आयु के तीन भाग करै । जब दोय भाग संपूर्ण वितीतैं तब तीसरे भाग के अर अन्त मुहूर्त मांहि आयु बांधै इसका नाम त्रिभंगी जानना । मरन समय—अन्त समय तिस जीव का कार्माण त्रस रूप निकालै सो थावर जीव अपने प्रदेशों करिकैं त्रस सेती तातू पूरै इस न्याय तैं त्रस नाडी तैं बाहरि त्रस जीव पाइए । और कारणतैं त्रस जीव नांही पाइए । अथवा केवली केवलसमुद्घात करै तब तिसके प्रदेश सर्वलोक मांहि दंड कपाट प्रतर तीन भएँ पीछें लोक पूरविषैं सर्वलोक विषैं आत्माका प्रदेश विस्तरै । त्रस नाडी तैं बाहरि त्रस जीव पाइए । एक त्रस जीव के प्रदेश त्रस नाडी तैं बाहरि गए । इस जुगति सौं—इस न्याय सौं इन तीनों भांति उहां त्रस नाडी तैं बाहरि भी त्रस जीव पाइए । सो कौन कौन ? एक तो त्रस जीव बाहरिके जीव सेती तातू पूरै, दूसरा बाहरि के जीवने त्रससेती तातू पूरा, तीसरा केवल समुद्घात करिकैं परमौदारिक आत्मा का प्रदेश सर्वत्र फैले । जिनेश्वर की वाणी विषै इस तरह तीन भांति त्रस जीव त्रस नाडी तैं बाहरि पाइए और भांति नहीं

पाईए । यह जिनवाणी विषे सत्यार्थ व्याख्यान हुवा है सो श्रद्धान करना ।

अथ समुच्चय तीनसै तेतालीस राजू घनानार की फलावटी का कथन कीजिए है ।

॥ तीनों लोकों का धनफल ॥

॥ छप्पय ॥

पूरव पच्छिम तलें सात, मधि एक बखानी ।  
 पञ्च स्वर्गमें पांच, अन्तमें एक प्रवांनी ॥  
 चहुँ मिलाय चहुँ अंस, तीनि साढे परमानों ।  
 दार्च्छन उत्तर सात, साढ चौबीस बखानों ॥  
 ऊंचा चौदै राजू गुणौ, आधिक तितालिस तीनसै ।  
 यह घनाकार तिहुँलोककौ, केवलज्ञानविषैलसै । १२

अर्थ—अब सर्व तीन लोक का समुच्चय तीन सै तेतालीस राजू के घनाकार की फलावटी का कथन कीजिए है । तहां सर्वलोक विषे चौदह राजू ऊंचा एक राजू चौकोर पूरब पश्चिम समान है । यामें तो हानि नाही अर दक्षिण उत्तर सात राजू सर्वत्र मोटा है ही, अवशेष अधोलोक विषम चतुरस्र तीन राजू चौडा, सात राजू लम्बा, सात राजू मोटा, अर उर्ध्वलोक विषम चतुरस्र दोय दोय

राजू चौडा, सात राजू लम्बा, सात राजू ऊंचा इस विषै अधोलोक मिलाइए अरु चौदह राजू का मध्यतै तिरछा दोय खंड करि एक खंड तौ उर्ध्वलोक समस्त मिलाइए । अरु एक खंडकूँ ऊपरितै नीचै तक छेदे आधा आधा सर्वत्र मिलाइए । ऐसे साढा तीन राजू चौडा, चौदह राजू ऊंचा, सात राजू मोटा भया । लोक कै तलै निगोदमाहि पूर्व पश्चिम चौडा लोक राजू सात है । और मध्यलोक विषै क्रमहानि के सद्भावतै पूर्व पश्चिम चौडा राजू एक का है । सो सात राजू लम्बी जगत श्रेणी है । ताका सातवां भाग प्रमाण क्षेत्र के प्रदेशनी राजू ऐसी संज्ञा है । बहुरि क्रमवृद्धि के सद्भावतै पांचमा ब्रह्मस्वर्ग विषै चौडा राजू पांच है । सो जगत श्रेणी का सात भाग में पाँच भाग प्रमाण है । लोक के अग्रभाग विषै अनुक्रमतै हानि का सद्भावतै पूर्व पश्चिम चौडा राजू एक है । च्यारूँ ठौर के मिलाइए तब ७+१+५+१ चौदह भए, तिन चौदह के च्यारि अंश किए, तिन विषै चौथा अंश कीजिए तब चौदह की चौथाई करि लीजिए तब साढे तीन रहे । सात का आधा कौं साढा तीन कहिए । इन साढा तीन प्रमान कूँ वक्ष्यमाण गुणाकार करि गुणिए तब सर्व लोक आदितै लेकरि अन्त पर्यन्त ताई दक्षिण उत्तर चौडा राजू सात का है तब, साढे तीन सात सेती गुणिये तब कितने भए । तब साढे चौबीस

राजू कहिए गुणचास का आधा साढा चौबीस राजू  
 प्रतर भया । सर्व लोक आदितैं लेइ अन्त ताईं ऊंचा  
 राजू चौदह का है । १४ वे साढे चौबीस राजूंकू गुणिए  
 तव कितने भए । सो कहै हैं—तीनसैं तेतालीस भए । सर्व  
 लोक का समुच्चयरूप घनाकार तीन सैं तेतालीस राजू  
 घनाकार इस भांति कहा है । एक राजू लम्बे, एक राजू  
 चौड़े, एक राजू मोटे खंड करिए वा कल्पिए तव तीन सैं  
 तेतालीस खण्ड हो है । या भांति तीन लोक का घनाकार  
 केवल ज्ञान विषैं लसै है, भलकै है । केवल ज्ञान विषैं  
 हस्त की रेखा कै समान प्रत्यक्ष भासै है ।

॥ अधोलोक का १६६ राजू का घनफल ॥

पूरव पच्छिम तलैं सात, मधि एकैं गाई ।  
 उभय मिलेसैं आठ, अर्धकार चारि बताई ॥  
 दच्छिन उत्तर सात, गुणौ अट्टाइस राजू ।  
 ऊंचा राजू सात, सतक छ चानवै भया जू ।  
 यह अधोलोकका सब कहा, घनाकार जिन धरममें ।  
 मति परौ नरक में पाप करि, रहौ सुमारग परममें १३

अब तीनसैं तेतालीस राजू मांहि अलोलोक का एक  
 सौ छिनवैं राजू का घनफल है । तिसकी गिनती पाषाण


की गिणती की नाईं है सो उक्तं च सूत्र करि ल्याईए ।


सुह भूमीणविसेसे उदयहिदे भूमिहम्मि हाणि च ।

यं जोगदले पदगुणिदे फलं घणं वेध गुणिदफलं ॥

अर्थ—मुख अरु भूमिकूँजोडि आधा करनो अर पद जोग छ ताकरि गुणना सो प्रतर फल है । ताकूँ वेध जो मोटाई ताकरि गुणें घनफल होहै । लोक कै तलैतैं जड मांहि पूर्व पश्चिम चौडा राजू सात का है, अधिक नाहीं । और मध्यलोक विषैं पूर्व पश्चिम चौडा राजू एक का है । उभय कहिए दोऊ सात और एक ए दोन्यौं इन दोन्यौं को मिलायें आठ भए । इन आठ कूँ आधे च्यारि करिए । और लोक दक्षिण उत्तर चौडा सात राजू है तिन च्यारों कौं इन सात सैं गुणै अठाईस राजू भए । सो अठाईस राजू का प्रतर क्षेत्र भया ता प्रतरक्षेत्रकूँ अधोलोक निगोद तैं लेकरि मेरू की जडताईं ऊँचा राज सातका है तिन अठाईस राजूनि कौं सात करि गुणे कितने भए । सोकहै हैं—एक सौ छिनवै भए अठाईस साता छिनवैसौ, ऐसे गणित पाटी विषै कहा है । या भांति अधोलोक का घनफल एक सौ छिनवै राजू भया है । यह कहिए इस भांति इस प्रकार अधोलोक का सब घनाकार एक सौ छिनवै राजू का कहा । जिनेश्वर देवकी वानी विषैं सो अधोलोक मांहि चित्राभूमि

तैं जलबहल, थलबहल, पंकबहल सांतौ निगोद नरक ताईं अधोलोक कहिए। अधो नाम तलै का है। सो अधो लोक तक गति पाप के उदय करि पाइए है। सो भव्य जीव ऐसी जानिकै पाप करिकै नरक विषै मतिनै परी, परिणामनि की उज्ज्वलता करिकै सुमार्ग कहिए भला मार्ग वीतराग देवका तिस मार्ग विषै रहौ, प्रवर्तौ। भो भव्य जीव हो ! सो कैसा है मार्ग-परम कहिए सब तैं उत्कृष्ट है, तिनकू अंगीकार करौ। ताके अंगीकार करिवे तैं परम सुख पावौ। [ १६६ राजू घनाकर सूचक यंत्र ]





या भांति अधोलोक एकसौ छिनवें राजू कौ, तांहि कहि अब ऊर्ध्वलोक का एकसौ सैंतालीस राजू का घनाकार है, मेरु की जड तै लेइ सिद्धालय ताईं, तिनकी फलावटिका वर्खन करिए है ।

॥ उर्ध्वलोक का घनफल ॥

मध्यलोक इक ब्रह्म, पांच दुहुं मिले भए षट् ।  
पूरब पच्छिम दिसा, अर्द्धकरि तीन राजु रट ॥





दक्षिण उत्तर सात, गुणी इकईस बखानी ।  
 ऊँचे साढे तीन, साड तेहत्तरि जानी ॥  
 साढ तिहत्तरि विधि यही, लोक अंतसौं ब्रह्मलग ।  
 राजू इकसौ सैंताल सब, धरम करै पावैं सुमगा १४


मध्यलोक विषे पूर्व पश्चिम चौडा राजू एक का है । पांचमां ब्रह्मस्वर्ग विषे चौडा राजू पांच का है । दौन्यौं मिलायें चौडा पांच में स्वर्ग तक छह होहै—छह राजू होय । सो यह चौडाई पूर्व पश्चिम दिशा सम्बन्धी है । इन छहौं कूं आधे कीजे तब तीन राजू रहै । तिन तीन राजूनि कौं उस मेरू की जडतैं लेइ पंचम स्वर्ग ताई दक्षिण उत्तर चौडा राजू सात का है । वै तीन राजू सात राजू खूं गुणिए तब इक्कीस राजू भया । इस भांति तिन इक्कीस राजूनि कौं, मेरू की चूलिका तैं ले करि पंचम स्वर्ग ताई ऊंचा राजू साढा तीन का है । वे इक्कीस राजू इन साढे तीन राजूनि करि गुणिये । तब साढे तिहत्तरि भये । पञ्चम स्वर्ग ताई घनाकार साढे तिहत्तरि राजू का है । यह जानि श्रद्धान करिए । साढे तिहत्तरि एक सौ सैंतालीस के आधे हैं । इस विधि साढा तिहत्तरि घनाकार ऊपरि ब्रह्म स्वर्ग तैं लेइ सिद्धालय तक है । सो किस विधि है :— लोक कहिए उर्ध्वलोक, कहां ताई—पंचम स्वर्ग तैं लेइ सिद्धा-

लय ताई, घनाकार राजू साढे तिहत्तर का है सौ दौन्यों मिलें एक सौ सैंतालीस राजू भए ।

भावार्थ :—मेरू तैं लेइ सिद्धालय ताईं सर्व उर्ध्व-लोक का घनाकार राजू एक सौ सैंतालीस का है । जे जीव धर्म करै पूजा करै दान देवै जिनवांनी सुनें ते जीव भला मारग पावै । ते जीव शुभोपयोग तैं स्वर्ग जाय, शुद्धोपयोग तैं निर्वाण जाय ।

इनके यंत्र इस प्रकार हैं:—





अथ कहिए अब सर्वलोक घनाकार तीनसै तेतालीस  
राजू का है ताका जुदा जुदा व्यौरा कहिए हैं—सो किस  
भांति है :—

॥ तीनसौ तैतालीस राजू का जुदा जुदा व्यौरा ॥  
छियालीस चालीस, और चौतीस अठाई ।  
बाइस सौलै दस, उनीस साढे बतलाई ॥  
साढे सैंतिस साढ, सोल साढे सोला भनि ।  
आगें दौ दो हीन, अंत ग्यारा राजू गनि ॥  
इम सात नरक आठौं जुगल, ऊपर सोला थानमें ।  
राजू तेतालिस तीनसै, घनाकार कहि ग्यानमें ॥ १५

निगोद मांहि पूर्व परिचम चौडा राजू सात है और तिसतैं ऊपरि सातवां नरक तक पूरव परिचम चौडा राजू छह का है । दोन्यौं मिलाएँ तेरा भए, तिनके आधे साढे छह राजू भए, तिन साढे छह तैं दक्षिण उत्तर सात राजू से गुणिये । तब साढे पैतालीस होय, अर आधा राजू दोनौं का बधाया तब छीयालीस भए । इस भांति सब का जुदा जुदा लेखा फलाइ लेनां, जैसा पहला छीयालीस सोलवें स्वर्ग तैं लेइ सिद्धालय ताईं पटल ग्यारा, तिनकौ घनफल ग्यारा राजू है । या भांति सातौं नरकनि विषैं और आठौं जुगलनि कै विषैं और ऊपरि सिद्धालय ताईं सोलह ठिकाने भए । आगैं अच्युत स्वर्ग ताईं दोय दोय घटे तिनके सब इन सोलह स्थानक के मिलायकै, घनाकार तीनसैं तेतालीस राजू का सर्व लोक भया । ऐसा केवल ज्ञान विषैं कहा है ।

अब तीन लोक कौं जैसे गींदडी परि जाल तैसे तीन वातवलय सर्वाङ्ग लिपटि रहे है तिनका जुदा जुदा ब्यौरा ।

॥ तीनों वातवलयों का जुदा जुदा परिमाण ॥

सबैया इकतीसा ( मनहर )

तल्लें बातबल्लें मोटे जोजन सहस साठ,  
ऊँचे एक राजूजों साठ सहस धारने ।

आगें सात पांच चारि तीनों सोलै जोजन के,  
 मध्य पांच चारि तीन बाराकै चितारने ॥  
 ब्रह्मलोक तीनों सोलैं अंतमांहि तीनों बारै,  
 सीस दोय कोस एक कोस के बिचारने ।  
 तनुवात धनुष पौने सोलैसै ताके भाग,  
 पंद्रहसै सिद्ध एक भागमें निहारने ॥ १६ ॥

तलैं जडमांहि तीनों वातवलौंकी मोटाई बीस हजार योजन की है । तहां योजनौं करि तीनों के साठि हजार योजन भए । पहला घनोदधि वातवला जल और पौन का है । दूसरा घनवातवला बहुत पौन का है । तीसरा तनवातवला थोरा पवन का है । इसि भांति अनादि तै पडे हैं । सास्वते हैं । जड तैं ऊंचे ऊपरतैं एक राजू ताई तीनों वातवलौं की मोटाई बीस २ हजार योजन की रही । सो मध्यमांहि ऐसी मोटाई और पसवाडौं बगलौं कमि है । सो आगें कहिए हैं । आगै बगलौं की इस भांति मोटाई:—पहला घनोदधि वातवलय सात योजन का है । दूजा घनवात पांच योजन का है । तीजा तनुवात च्यारि योजन का है । ए तीनों वातवले तलैं तैं बगल औंनै पौनै सोला योजन के मोटे चले आए । एक सात का, एक पांच का,

एक चारि का । ए सब तीनों मिले सोला योजनके भए । और मध्यलोक के मांहि बगलौ पहला वातवला मोटा योजन पांच का है । दूसरा वातवला च्यार योजन का मोटा है । तीसरा वातवला मोटा योजन तीनका है । तीनों मिले बारा भए । एक पांच, एक च्यारि, एक तीन का तीनों मिलि बारा भए और मध्य लोकतैं ऊपरिनैं पंचम स्वर्ग मांहि पहला सातका, दूजा पांच का, तीजा च्यारि का इस भांति तीनों की मोटाई ब्रह्मलोक मांहि रही । तीनी मिलि सोला योजन के मोटे भए । और अन्तमांहि सिद्धालय के पसचाडै तीनों वातवले की मोटाई योजन वारै की रही—पहला पांच का, दूसरा च्यारि का, तीसरा तीन का, सब मिलि बारह भए । अर सीस कहिये सिद्धालय के अन्त घनोदधि वातवला मोटा चाक के आकार द्योकोश का है । कोश बडे प्रमाण कोश जानने और दूसरा घनवातवला मोटा वात के आकार कोश एक का है । तीसरा तनुवातवला वात के आकार धनुष पौने सोलहसै का है, सो धनुष प्रमाण धनुष बडे है । तिस पौणां सोलासै धनुष के पंद्रहसै भाग करिए । साठे के आकार ऊपरि ऊपरिनैं करिए, तिस पन्द्रहसै भाग मांहि अन्त का जु भाग है तिस भाग मांहि अनन्ते सिद्ध उत्कृष्ट अवगाहनां तैं विराजै हैं और तिसके नवलाख भाग करिए तिस अन्त के एक भाग विषैं जघन्य

अवगाहनां तै अनन्ते सिद्ध विराजै हैं । मध्य अवगाहनां  
के नाना भेद हैं । और एक सिद्ध की अवगाहनां विषैं  
अनन्ते सिद्ध पाईए है । इस भांति जानने ।

अब तीन लोक विषैं एक सौ बारा पटल हैं । पटल  
नाम छातिका है । जैसे ऊपरि ऊपरि छाती होय तैसे ऊपरि  
ऊपरि पटल परै हैं । अनादिकाल के सब एकसौ बारह हैं ।  
तिनका जुदा-जुदा व्यौरा कहै है ।

॥ तीन लोक के ११२ पटलों का वर्णन ॥

॥ छप्पय ॥

एक तीन पन सात, और नव ग्यार तेर जिय ।  
इकतिस सात सुचारि, दोय इक एक तीनि तिय ॥  
तीनि तीनि अरु तीनि एक, इक पटल बताए ।  
एकसौ बारै सरब, बीस थानक के गाए ॥  
सब सान नरक आठौंजु गल, त्रय घीवकद्वय उत्तरै ।  
उनचासनरक त्रेसठसुरग, धन दोनों समाकित भरै ॥

सातमें नरक में एक छाती है एक पटल  
है । छठै नरक विषैं तीन पटल हैं । पांचमें नरक में पांच  
पटल हैं । चौथे में सात पटल हैं । अर तीसरै में नव पटल हैं ।  
चैथेमें ग्यारा हैं । पहलै नरकमें तेरा पटल हैं । सब मिलि  
गुणचास पटल भए । मेरु की चूलिका तैं लेह दोय

स्वर्ग मांदि इकतीस पटल हैं । सनत्कुमार माहेन्द्र विषैं सात पटल हैं । ब्रह्मब्रह्मोत्तर विषैं च्यारि पटल हैं । लांतव-कापिष्ट विषैं दोय पटल हैं । शुक्र महाशुक्र विषैं एक पटल है । सतार सहस्रार विषैं एक पटल है । आनत प्राणत विषैं तीन पटल हैं । आरण अच्युत स्वर्ग विषैं तीन पटल हैं । अधो ग्रैवेयक विषैं तीन पटल हैं । मध्यमग्रैवेयक विषैं तीन पटल हैं । उपरि ग्रैवेयकविषैं तीन पटल हैं । नव अनुदिश विषैं एक पटल है । पंचानुत्तर—पंच विमान विषैं एक पटल है । ए सोलह स्वर्ग के आठ युगल, नव ग्रैवैयक, नव अनुदिश, पंचानुत्तर के त्रेसठि भए । सारे पटल मिलिके एक सौ बारह भए । तीन लोक के सब पटल—सारे पटल कितने स्थानक के भए ? बीस ठिकाने के भए । जिन बीस ठिकानों के भए ते बीस ठिकाने कौन कौन से हैं ? सब सारे सातों नरक के स्थान सात पटल ४६ । आठों जुगल के स्थान ८ पटल ५२ । तीन ग्रैवेयक के स्थान ३ पटल ६ । दोन्यों उत्तर के स्थान २ पटल २ । सातों नरक के पटल उनचास, सात नरक की छाती उनचास है । सोला सुरग, नव ग्रैवैयक, नव अनुदिश पंचानुत्तर इन विषैं त्रेसठि पटल हैं । इन दोन्यों ठिकानों के एक सौ बारह पटलादिविषैं जे जीव सम्यक्की होय हैं ते धन्य हैं तेइ उत्तम है । सम्यक् सहित ते जीव धन्य हैं ।



### समस्त पटल संख्या यंत्र

नाम स्थान	पटल संख्या	स्थान	संख्या
प्रथम नरक रत्न प्रभा	१३	द्वितीय नरक शर्करा	११
तृतीय नरक वालुका	६	चतुर्थ पंक प्रभा	७
पंचम धूम प्रभा	५	षष्ठम तम प्रभा	३
सप्तम महातम प्रभा	१		

सातों नरकों का जोड़ ४६

सौधर्म ईशान प्रथमयुगल	३१	सनत्कुमार माहेन्द्र	७
ब्रह्म ब्रह्मोत्तर	४	लांतव कापिष्ट	२
शुक्र महा शुक्र	१	सतार सहस्रार	१
आनत प्राणत	३	आरण अच्युत	३
		आठों युगलों का जोड़	५२

अधो ग्रैवेयक त्रिक	३	मध्य ग्रैवेयक त्रिक	३
उपरि ग्रैवेयक त्रिक	३	नव अनुदिश	१
पंचानुत्तर	१		

स्वर्गों का जोड़ ६३

समस्त पटल संख्या ११२

॥ छहों संहनन वाले जीव मरकर कहां २ उत्पन्न होते हैं ॥  
 छहों तीसरे जाहिं, पांच चौथे पचम लग ।  
 चार संहनन छठै, एक सातवां नरक मग ॥  
 छहों आठमें सुरग, पांच बारम सुर जावैं ।  
 चार सालमें लोक तीन नौ ग्रीवक पावैं ॥  
 दोनों संहनन न उत्तरै एक पंच पंचोत्तरे ।  
 इक चरमशरीरी शिव लहै बंदों जैनवचन खरै ॥१८

वज्र नाम हाड का है, वृषभ नाम ऊपर के बेटने का है और नाराच नाम कीली का है । ऐसे जिस जीव के वज्र के हाड होइ और तिन विषैं वज्र की कीला लगी होय और जिस ऊपरि वज्र का बेटना होइ सो वज्र वृषभ नाराच संहनन कहिए । और जिस जीव के ऊपरि का बेटना समान होय सो दूसरा वज्र नाराच है । और जिसके हाड भी समान होइ सो तीसरा नाराच कहिए । और जिसके हाडों विषैं कीली पार न होइ गई आधी पैठी सो चौथा नाराच कहिए । और जिसके हाडों विषैं जकरबन्ध तो है और कीली है नांही, परन्तु कीली सा जकड बन्ध लगा है, तातैं सो पांचमा कीलक संहनन कहिए । और जिसके हाड जुदा जुदा हैं परन्तु नस और

चाम करि जकड करि राखे हैं सो तातैं छटा स्फाटिक कहिए । इनको अर्थ इस भांति जानना और अब इन संहननों करि नरक स्वर्गनि विषै उत्पत्ति का कथन आगम में जे जिनेन्द्रदेवनै भाषै सिद्धान्त तिनतें अविरोद्धपनेथकी यथा संभव कहै है ।

च्यारि संहनन वाले जीव छठे नरक ताईं जाइ और कीलक संहनन वाला जीव छठै नरक जाइ नांही, तातैं आदि के च्यारौं छठे ताईं कहे । कीलक अर स्फाटिक दोऊ संहनन की छटा में गति नांही । एक पहला वज्रवृषभ नाराच संहनन वाला जीव सातवैं नरक जाइ यह नियम है । और पांचौं संहनन वाले जीव कोई जाय नांहीं । या भांति कहा है । पहला संहनन ही जाइ । छहो संहनन वाले जीव तीसरे नरक ताईं जाइ—पहला तैं लेकैं घम्मा वंसा मेघा ताईं जाइ । पांच संहनन वाले जीव पहले तैं लेकैं चौथे पांचवें नरक तक जाइ और स्फाटिक संहनन वाला जीव तीसरे तैं आगै जाइ नांही, यह नियम है । स्फाटिक संहनन वाला जीव तीसरे तक ही जाय है, तातैं चौथे पांचवें में पांच संहनन सहित जीवनि की गति कही ।

छहौं संहनन वाले जीव पहले स्वर्ग तैं लेइ आठमें स्वर्गताईं जाइ । पांच संहनन वाले जीव पहले तैं लेकैं बारमे

तक जाय और स्फाटिक संहनन आठमें तें ऊपरि न जाइ यह नियम है । तातैं आदि के पांच बारमें ताई जाय । च्यारि संहनन वाले जीव पहले तें लेइ सोलमें स्वर्ग ताई जाइ । कालक बारमें तें ऊपरि जाय नाहीं, तातैं आदि के च्यारि कहे कीलक स्फाटिक बिना । वज्र वृषभनाराच, वज्रनाराच, तीसरा नाराच ए आदि के तीन संहनन वाले जीव नौ प्रेवैयक ताई जाय । ए कहे आदि के तीन संहनन ते नव प्रेवैयक ताई जाय । अन्त के तीनों अर्द्धनाराच कीलक, स्फाटिक न जाय—यह नियम है । वज्रवृषभ नाराच और वज्र नाराच, ए आदि के दोय संहनन वाले जीव नव अनुदिश विमान ताई जाय । और अन्त के नाराच, अर्द्धनाराच, कीलक, स्फाटिक, च्यारों नाहीं जाय यह नियम है । एक आदिका वज्रवृषभनाराच संहनन वाला जीव पांच अनुत्तर विमाननि विषैं जाइ और पांचों संहनन नाहीं जाय यह नियम है । एक आदि का बिना और संहनन वाले नाहीं जाय । जो जीव चरमशरीरी होइ तिसकैं एक पहला वज्रवृषभ नाराच होइ, और संहनन होय नाहीं यह नियम है । और चरम शरीरी कहिए संसार के अन्त का शरीर है, फेरि संसार विषैं शरीर धारैगा नाहीं, मोक्ष ही जायगा, यह नियम है । सो चरम शरीरी ही जीव अष्टकर्मनि का नाश करि मोक्ष पावै है । भाव सहित

इहीं संहनन सहित जिन स्थानति में जाय ताका अंत्र ।

नरक		स्वर्ग			सोम	अशु	पांच अशु	सिद्ध		
३	४ ५	६	७	८	९	१०	११	१२	स्थान	
६	५	४	३	२	१	१	१	१	संहनन	
वज्रवृषभ भादि सर्व	स्फाटिक बिना	स्फाटिक कीलक बिना	वज्र वृषभ नाराच	स्फाटिक बिना	स्फाटिक कीलक बिना	आदि का	आदि का	वज्र वृषभ नाराच	आदि को	संहनन

बंदौ हौं नमस्कार करौंहौं, वीतराग देवकों, बानी कौं  
दिव्यध्वनिकूं । बहुरि कैसी है बानी—खरी है ।  
निर्मल है, प्रमाण है जा विषैं, यह कथन किया है तिस  
कौ बारम्बार बन्दौहौं । जैन धैन बिनां ऐसा मारग कौन  
दिखावै तीन लोक विषैं सूर्यवत् है ।

छह कालों और चौदह गुणस्थानों में कौन २ संहनन होतेहैं?

प्रथम दुतिय अरु तृतिय कालमें पहिन्ना जानौ ।  
चौथे षट्संहनन, पंचमें तीन बखानौ ॥  
कर्मभूमि तिय तीन, एक छट्टे के मांहीं ।  
विकल चतुष्कै एक, एक इन्द्री कै नांहीं ॥  
षट् कहे सात गुणस्थानलग, तीन इग्यारे लौं लहे  
इक खिपक श्रेणिगुण तेरहैं, धन जिनवारणामेंकहे ।

पहला काल च्यारि कोडा कोडी सागर का, अर  
दूसरा काल तीन कोडा कोडी सागर का, तीसरा काल  
दोय कोडा कोडी सागर का, चौथा काल एक कोडा कोडी  
सागर का—बीयालीस हजार बरस घाटि, पांचमां काल  
इकईस हजार बरस का, छठा काल इकईस हजार बरसका ।  
६ काल और चौदह गुणस्थान, में छहौं संहनन कहां कहां  
पाईए । तिनका व्यौरा कथन लिखिए है ।

पहला काल सुखमा सुखमा निरंतर सुख ही है, कल्पवृक्ष के भोग करि । दूजा का नाम सुखमा है तामें सुख ही है । और तीमरा काल का नाम सुखमा दुखमा है—आदि में सुख अन्त विषै दुख हैं । इन तीनों कालनि विषै बज्रवृषभ नाराच संहनन है । इन तीनों काल विषै भोग भूमि है । इन तीनों काल के जीवों कै एक उदै मरन है । सो मरि कै देवगति जाइ, और गति न जाय, यह नियम है । जे सम्यग्दृष्टि हैं ते सौधर्म और ईशान स्वर्गविषै जाइ, बाकी भवनत्रिकमें जाइ । और चौथा काल का नाम दुखमा सुखमा है । जैसे किसान पहलें खेती करै तब पीछे खाइ तैसे पहलें दुखकरि उपारजै तब पीछें सुख करि भोगवै, तातें दुखमा सुखमा कहिए और तिस चौथे काल विषै शलाका पुरुष उपजै हैं । या विषै संहनन छहों ही हैं । पाँचवां काल का नाम दुखमा है । तिसके आदि तैं ले अन्त ताई दुख ही है । तिस पंचम काल विषै अर्द्धनाराच कीलक, और स्फाटिक, ए अन्त के तीन संहनन पाईए और आदि के तीन संहनन पाईए नहीं । और कर्मभूमि की स्त्रीनिकै तीन संहनन हैं—अर्द्धनाराच, कीलक, स्फाटिक, ए तीन संहनन अन्त के सदा काल पाईए और आदि के तीनों पाईए नहीं, यह नियम है ।

छठा काल का नाम दुखमा दुखमा है । तिसके

आदि तैं लेकै अन्त ताईं अत्यन्त दुःख ही है तिस छठे काल विषैं एक अन्त का स्फाटिक संहनन है और कोऊ नाहीं, यह नियम है । बेइन्द्री, तेइन्द्री, चौइन्द्री, असंझी पंचेन्द्री इन विकल चतुष्कविषैं एक अन्त का स्फाटिक संहनन है और कोऊ संहनन नाहीं, यह नियम है । एकेन्द्री कहिए पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति, ए पंच थावर एकेन्द्री हैं । इनकै कोई भी संहनन नाही । संहनन नाम हाड का है इनकै हाड है नाही । तातैं इनकै संहनन नाही । छहौं संहनन वाले जीव मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, असंजम, देश संयम प्रमत्त, अप्रमत्त तक सप्त गुणस्थान ताईं पाईए । गुणस्थान नाम परिणामनि की परिणति का है ।

वज्रवृषभनाराच, वज्रनाराच, नाराच, ए तीन आदि के संहनन वाले जीव ग्यारमे गुणस्थान ताँई पाईए अरु अन्त कै तीनौ सैं श्रेणी मांडै नाही तातैं सातमैं ही रहै । और जो जीव चपक श्रेणी मांडै तौ एक पहला वज्रवृषभ नाराच संहनन होइ तौ मांडै, सो संहनन तेरमैं गुणस्थान ताईं कहिए, ऊपरि अजोग गुणस्थान है ता विषैं संहनन नाही, ऐसा जिनवाणी विषैं कह्या है, सो ही श्रद्धान करना । धन्य पुरुष जे कृतार्थ पुरुष वृषभादि चौबीस तीर्थङ्कर, वृषभसेनादि गणधरदेव वा सामान्य केवली भगवान तिननै जिनवाणी द्वादशांग श्रुतविषैं यह सत्यार्थ उपदेश किया है सो आगम कै अनुकूल व्याख्यान किया है ।



॥ चौबीसों तीर्थङ्करों के अन्तराल ॥

॥ सबैया इकतीसा ॥

पचास तीस दस नौ किरोर लाख नब्बे नौ,  
सहसकोर नौसै कोर नब्बे नौकोर है ।  
सौ सागर वर्ष लाख छयासठ सहस छवीस,  
घाट कोर सागर चौवन तीस और है ॥  
नव चारि तीनि घाट पौन पल्य अर्ध पाव,  
घाट लाखों लाख वर्ष लाखों लाख जोर है ।  
चौवनछः पांच लाख सहस पौने चौरासी,  
पाव, अन्तरा जिनेस गावै निसि भोर है ॥२०॥

जब तीर्थङ्कर निर्वाण जाय तिसतैं जितने काल पीछैं  
और तीर्थङ्कर उपजैं तिसका नाम अन्तर है । जैसे तीसरे  
काल के तीन वर्ष साढे आठ महीने बाकी रहे तब आदि  
जिन निर्वाण गये । उनका बारा पचास लाख कोटि सागर  
ताई बरत्या, तब अजितनाथजी उपजैं, यह अन्तर है । तीस  
लाख कोडिसागर पीछे संभवनाथ जी उपजैं । दस लाख  
कोडि सागर पीछे अभिनन्दनजी उपजे ।

तिसतैं नवलाख कोडि सागर पीछैं सुमतिनाथजी  
उपजैं । तिसतैं निवै हजार कोडिसागर व्यतीत भए पीछैं

पद्मप्रभुजी उपजै । तिसतैं नवहजार कोडि सागर व्यतीत भए  
 पीछैं सुपारिसनाथजी उपजै । तिसतैं नवसै कोडि सागर पीछैं  
 चन्द्रप्रभजी उपजे । तिसतैं निव्वै कोडिसागर सीछैं पुष्पदंतजी  
 उपजै । तिसतैं नव कोडि सागर पीछैं शीतलनाथजी उपजै ।  
 तिसतैं पीछैं छ्याछ्ठ लाख छवीस हजार एक सौ सागर  
 वर्ष घाटि एक करोड सागर वर्ष पीछैं अर्थात् ३३७३६००  
 सागर पीछैं श्रेयांसनाथजी उपजे । तिसतैं चौवन सागर  
 पीछैं वासुपूज्य जी उपजे । तिसतैं तीस सागर पीछैं  
 विमलनाथजी उपजै । तिसतैं नव सागर पीछैं अनन्तनाथजी  
 उपजे । तिसतैं च्यारि सागर पीछैं धर्मनाथजी उपजै ।  
 तिसतैं पौण पल्य घाटि तीन सागर व्यतीत भए  
 पीछैं शान्तिनाथजी उपजे । तिसतैं आध पल्य पीछैं कुन्थ-  
 नाथजी उपजै । तिसतैं हजार कोडि वरष घाटि पाव पल्य  
 व्यतीत भए पीछैं अरनाथजी उपजै । तिसतैं हजार कोडि  
 बरस (१००००००००००) व्यतीत भए पीछैं उगणीसवाँ  
 मल्लिनाथजी उपजे । तिसतैं चौवन लाख वर्ष पीछैं मुनि  
 सुव्रत जी उपजे । तिसतैं छह लाख बरस पीछैं नमिनाथ  
 जी उपजे । तिसतैं पांच लाख वर्ष व्यतीत भए पीछैं  
 नेमिनाथ जी उपजे । तिसतैं पौणा चौरासी हजार वर्ष  
 व्यतीत भए पीछैं पार्श्वनाथजी उपजे । तिसतैं अढाईसै  
 वर्ष व्यतीत भए पीछैं वर्द्धमान तीर्थंकर देव उपजे । सो

## चौथीस तीर्थंकर अंतराल यंत्र

१. श्री ऋषभनाथजी	५० लाख कोटि सागर	१३. श्री विमलनाथजी	६ सागर
२. श्री अजितनाथजी	३० लाख कोटि सागर	१४. श्री अनन्तनाथजी	४ सागर
३. श्री संभवनाथजी	१० लाख कोटि सागर	१५. श्री धर्मनाथजी	३ पौण्ड्र पत्त्य घाटि सागर
४. श्री अभिनन्दननाथजी	६ लाख कोटि सागर	१६. श्री शांतिनाथजी	आध पत्त्य वर्ष
५. श्री सुसतिनाथजी	६० सहस्र कोटि सागर	१७. श्री कुंथुनाथजी	हजार कोटि वर्ष घाटि
६. श्री पद्मप्रभुजी	६ सहस्र कोटि सागर		पाव पत्त्य
७. श्री सुपार्श्वनाथजी	६०० कोटि सागर	१८. श्री अरनाथजी	वर्ष १००००००००००
८. श्री चन्द्रप्रभुजी	६० कोटि सागर	१९. श्री मल्लिनाथजी	वर्ष ५४०००००
९. श्री पुरुषदन्तजी	६ कोटि सागर	२०. श्री सुनिस्तुव्रतनाथजी	वर्ष ६०००००
१०. श्री शीतलनाथजी	६६२६००० घाटि	२१. श्री नमिनाथजी	वर्ष ५०००००
	६६६६६०० सागर	२२. श्री नेमिनाथजी	वर्ष ८३७५०
११. श्री श्रेयांसनाथजी	५४ सागर	२३. पार्श्वनाथजी	वर्ष २५०
१२. श्री वासुपूज्यजी	३० सागर	२४. महावीर स्वामीजी	०

वर्द्धमानजी जब चौथे काल के तीन वर्ष साढ़े आठ महीने रहे तब निर्वाण गए । दिनका चारा अब वर्तै है, अर आगै अंत ताई बर्तेगा । यह ४३००० वर्ष घट्यां कोडा कोडी सागर अंतराल कहा है ।

अब एकसौ अडतालीस प्रकृतिसत्ताँ किसे किसे गुणस्थान क्षपिये है ताका व्यौरा कथन ।

॥ कर्मों की १४८ प्रकृतियां कौन २ गुणस्थानों में क्षय होती हैं ?

क्षपय

सात प्रकृति कौ घात, ठीक सातम गुणथानै ।  
तीनि आव नहिं होय, नवम छत्तीसों भानै ॥  
दसमें लोभ विदार, बारहैं सौल मिटावै ।  
चौदहमेंके अंत, बहत्तर तेर खिपावै ॥

इमि तोर करम अडताल सौ,

मुकतिमांहि सुखकरत हैं ।

प्रभु हमहिं बुलावौ आप ढिग,

हमइ पाँयनि परत हैं ॥ २१ ॥

अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, इन सात प्रकृतिनि को घात सत्ताँ मोक्षगामी जीव कै ठीक चौथे अव्रतगुणस्थान खं लेह

करि सातमें अप्रमत्त गुणस्थान ताई क्षय होय सो अप्रमत्त दोय प्रकार है । एक स्वस्थान अप्रमत्त, एक सातिशय अप्रमत्त । जो श्रेणी के सन्मुख हुवा होय सो सातिशय अप्रमत्ती कहिए, सो तिसका कथन सात प्रकृति सातमें घटी और मोक्षगामी जीव के नरक आयु, तिर्यगायु, देवायु इन तीन आयु की सत्ता होय नांही, एक भुज्यमान मनुष्यायु है और नांही । इहाँ आयु तीन घटी । नवम अनिवृत्तिकरण गुणस्थान विषै छत्तीस प्रकृतिनि का सत्तातैं नाश करै है । ते कौन, नरक तिर्यग्गति, इनकी आनुपूर्वी २, विकलत्रय ३, स्थानगृद्धि ३, उद्योत १, आताप १ एकेंद्री साधारण १ सूक्ष्म, थावर १, कषाय ११, हास्यादिक ६ वेद ३ ए छत्तीस नवमें घटी । अर दशमें गुणस्थान विषै सूक्ष्म लोभ का सत्तातैं नाश किया । बारमें क्षीणकषाय गुणस्थान विषै निद्रा प्रचला २, ज्ञानावरण ५, दर्शनावरण ४, अंतराय ५, इन सोला प्रकृतिनि का नाश कीया, ए सब मिलि त्रेसठि प्रकृति क्षयी और बाकी रही प्रकृति ८५, ते चौदह में अजोग गुणस्थान के अंतमें दोय समय बाकी रहे तिन दोय समयनि विषै पहलै समय बहत्तरि प्रकृति खिपावै । दूसरै अंत समय विषै तेरा प्रकृतिनि का नाश करै । या भांति एक सौ अड़तालीस प्रकृतिनि का सत्तातैं नाश करिकै, मोक्ष विषै अनंते सिद्ध आत्मीक स्वाभाविक स्वाधीन अनंता सुख का



अनुभव करै है । तिनका एक समय का सुखका उपमा लाय  
तीन लोक विषै कोऊ भी सुख नांही जाकी उपमां दीजिए ।  
भो सिद्ध परमेष्ठी प्रभु हो ! कृपा करिकै अनुग्रह करिकै  
हमारे ताई भी अपनै ढिग पास बुलावौ । ऐसी कृपा करौ  
जो तुम्हारे चरण कमलनिकै निकटि हम सासते हाजर  
रहैं । चरण कमलनि ही की सेवा करवौ करै । भो सिद्ध  
परमेष्ठी हो । हम तुम्हारे ताई इस वासतै पूजै हैं, सुमरै हैं,  
ध्यावै हैं । हम परि कृपा करौ तुम, आप ढिग बुलावौ ।

— मानुषोत्तर पर्वत का परिमाण —

( कवित्त ३१ मात्रा )

मानुषोत्तर पर्वत चौराई,

भूपरि एक सहस बाईस ।

मध्य सात सौ तेइस जोजन,

ऊपर चार सतक चौईस ॥

सतरहसौ इकईस ऊँचाई,

जड़ां चारसौ पाव अरु तीस ॥

रिजु विमान किहि भांति मिल्यौ है,

जोजन लाख कह्यो जगदीश ॥२२॥

मानुष हैं तिसतैं उत्तर, तातैं मानुषोत्तर कहिए । सो  
मानुषोत्तर पर्वत कैमा है वलयाकार है और पैंतालीस

लाख योजन का है। अढ़ाई द्वीप मनुष्य क्षेत्र तिसकूँ बेदि कें चूड़ी कें आकार परचा है। तिसकी चौड़ाई बाहरि के क्षेत्र विषें गिननी तातें मानुषोत्तर परें मनुष्य न जाइ सकै इह नियम है। मानुषोत्तर पर्वतकी शिखा परि सास्वते च्यारों दिशानि विषें एक एक जिनालय हैं तिनकी बंदना देव करै हैं। और दूरितें विद्याधर बंदै है, ऊपरि न जाय सकै हैं। सो कैसा है मानुषोत्तर पर्वत, चित्रा पृथ्वी परि चोडा एक हजार बाईस योजन का परचा है, अढ़ाई द्वीप कें धौरे और मध्य विषें सात सै तेईस योजन का चौडा है। अर ऊपरि शिखर परि च्यारि सै चौबीस योजन का चौडा है। और मानुषोत्तर पर्वत सतरासै इकवीस योजन का ऊँचा है। बहुरि मानुषोत्तर पर्वत की जड़ चित्रा पृथ्वी विषें ऊँचाई कें चौथे हिस्सै च्यारि सै सवातीस योजन की है। ऋजु विमाण तें मध्य तें लाख योजन ऊँचा है। सो मानुषोत्तर पर्वत सेती कैमें मिलै न मिलै। और कोई जीव ऐसी शंका करै है कि ऋजुविमान मानुषोत्तर सेती आर लाग्या है इस वामतें अढ़ाई द्वीप तें बाहरि मनुष्य जाता नाही, सो यह बात भूँठ गलत है और ऋजु विमान सीधे वलय कें आकार पडा है। वा आधे लडवे के आकार पडा है। सो इहां तें लाख योजन ऊँचा है सो मानुषोत्तर सेती कैमें मिलै? ऋजुविमान इहाँ तें लाख



### मानुषोत्तर प्रमाण यंत्र

चौराई			उँचाई	जड	सूची
भू	म	ऊ			
१०२२	७२३	४०४	१७२१	४३०/१	ला ४४०००००
यो	यो	यो	यो	यो	यो

योजन ऊँचा वीतराग देवनै कहा है । सो ऋजु विमान भी पैतालीस लाख योजन का चौडा है ।

देवलोक प्रवीचार कथन करिए है:—

— देव देवी संभोग —

दोय सुरगमें कायभोग है,

दोय सुरग में फरस निहार,

चार सुरगमें रूप निहारै,

चार सुरगमें सबद विचार ॥

चार सुरगमें मनकौ विकल्प,

आगें सहज सील निरधार ।

अहमिंदर सब महासुखी हैं,

बंदों सिद्ध सुखी अविकार ॥२३॥

देवलोक विषैं देवांगनानि के उपजने की उत्पाद सज्या पहले दूसरे स्वर्ग विषैं है, ऊपरि नाहीं है, और ऊपरिले देवता सोलमें स्वर्ग ताईं अपनी २ नियोगिनी देवांगनानिनै ले जाइ हैं । तिन देवांगनानि सेती जो संयोग भोग तिनका कथन इस छप्पयविषैं कीजिए है । भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी ए भवनत्रिक अरु सौधर्म ईशान ए दोय स्वर्ग तिन विषैं भोग की वांछा उपजै तब स्त्री पुरुषनि की नाईं भोग काय सौ भोगवै है । याही तैं याका नाम काय प्रवीचार कहा है । तिसतैं ऊपरि दोय स्वर्गनि विषैं सनत्कुमार माहेन्द्र तीजे चौथे विषैं जब भोगनि की वांछा होय तब शरीर के स्पर्श तैं भोगनि की वांछा तृप्ति होय जाय है । शरीर का स्पर्श होतैं ही भोग वांछा मिटै है । तिसतैं ऊपरि ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट इन च्यारि स्वर्गनिविषैं भोगनि की वांछा होय तब कामदृष्टि करि रूप के देखिवे तैं ही भोगनि की वांछा मिटि जाय है । केवल रूप देखवा मात्र का ही भोग है । तिसतैं ऊपरि शुक्र महा-शुक्र सतार सहस्रार इन च्यारि स्वर्गनि विषैं जब भोगनि की वांछा होय तब कामरूप शब्द बोलिवे तैं तिसकरि भोग वांछा मिटै है ।

तिसतैं ऊपरि आनत प्राणत आरण अच्युत च्यारि स्वर्गनि विषैं जब भोगनि की वांछा होय तब कामरूप मन

विषैँ विकल्प करैँ तिन करि भोगनि की बाँछा पूरी होइ जाय । या भाँति सोला स्वर्गनि विषैँ निरन्तर भोग हैँ सो जानना । इन सोला स्वर्गनि कैँ ऊपरि जे नव ग्रैँवेयक, नव अनुदिश, पाँच अनुत्तर तिन विषैँ देवाङ्गना हैँ ही नाहीं, तहाँ सब देवताही हैँ । ताँतैँ ते देवता सहज शीलवन्त होइ । या जानि सहज ब्रह्मचारी हैँ ऐसेँ लौकांतिक पाडे केँ भी देवता ब्रह्मचारी हैँ । पाँचमे केँ अन्त लौकांतिक देव बसैँ हैँ । और नव ग्रैँवेयक, नव अनुदिश, पाँच अनुत्तर इन विषैँ जे देवता हैँ ते सब अहमिन्द्र कहिएँ, काहैँ तैँ ? इनकी दश प्रकारकी पारिषदादिक नहीं, सब बराबरि हैँ, कोई घाटि बाँधि नाहीं, ताँतैँ अहमिन्द्र कहिएँ बहुरि । कैसेँ हैँ—वे

**देव लोक प्रवीचार यंत्र**

स्थान	भ०त्रि	सौ	स २	ब्र ४	श्रु ४	आ ४	अह	मिद्ध
संख्या	५	५	४	३	२	१	०	०
भेद	काय स्पर्श रूप शब्द मन	काः स्प० रूप श० मन	स्पर्श रूप शब्द मन	रूप शब्द मन	शब्द मन	मन	अविचार	अविचार

अहमिन्द्र? महासुखी हैं, जिनका धर्मध्यान विषै काल व्यतीत होइ है। एक जीव द्रव्य की चर्चा ही में काल पूरा होहै। मैं बन्दौ हौं नमस्कार करौंहौं, सिद्ध परमेष्ठीनिकौं। ते सिद्ध परमेष्ठी महासुखी हैं अर विकार रहित हैं, निज स्वभाव विषै अविचल तिष्ठै हैं।

— १६६ प्रधानपुरुषों की गणना —

छप्पय

चौबीसों जिनराय—पाय बंदों सुखदायक।

कामदेव चौबीस, ईस सुमरों सिवनायक ॥

भरत आदि चक्रीस, दुदस बहु सुरनरस्वामी।

नारद पदम मुरारि, और प्रतिहरि जगनामी ॥

जिनमात तान कुलकर पुरुष, संकर उत्तम जियधरों।

कछु तदभव कछु भव धरजगत, मुकतिरूपबंदन करों

चौबीसों तीर्थङ्करनि के चरणकमलनिकौं बन्दौ हौं। ते कैसे हैं, महान सुख के दायक कहिए दातार हैं। कामदेव चौबीस भए ते मोक्ष गए, तिनकौं बन्दों हौं, स्मरौ हौं, पूजौ हौं। जो पुरुष कामदेव पदवी का धारक होइ ते मोक्ष ही जाइ यह नियम है। भरत आदि बारह चक्रवर्ति भए ते कैसे भए, छह खण्ड की धरा नवनिधि चौदह रतन तिनके स्वामी भए, तिन विषै आठ मोक्ष गए, दोय स्वर्ग गए,

दोय नरक गये ते भी केईक भवनि विषैँ मोक्ष जासी ।  
नारद नव भए, ते अधोगामी, यह नियम है ।

नव बलभद्र भए तिनमें आठ मोक्ष गए एक स्वर्ग  
गया । नव नारायण भये ते भी अधोगामी ही भए ।  
और नव प्रतिनारायण भए ते भी अधोगामी ही भए ।  
चौबीस जिनेश्वर देव की मरुदेवी आदिमाता २४ भई और  
चौबीस ही नाभिराजानें आदि देइ पिता भए । अरु चौदह  
कुलकर भए, और ग्यारा रुद्र भए । ए सब एकसौ गुणत्तरि  
जीव उत्तम पुरुष भए । तिन विषैँ त्रेसठि शलाका पुरुष तौ  
क्रिसी की सेवा करै नाहीं, उनही की सब सेवा करै । इन  
एक सौ गुणत्तरि जीवनि विषैँ केई जीव तदभव मोक्ष गए  
केई जीव संसार विषैँ भव धरिकैँ मोक्ष जाईं गें तिन सबकूँ  
मोक्षरूप बंदना करौं, हौं नमस्कार करौं हौं ।

### उत्तम पुरुष संख्या

तीर्थकर २४	माता २४
चक्रवर्त्ति १२	पिता २४
बलभद्र ६	नारद ६
नारायण ६	रुद्र ११
प्रतिनारायण ६	कुलकर १४
कामदेव २४	

—: एकसौ अडतालीस कर्म प्रकृतियां :—

ज्ञानावरणी पांच, दर्शनावरणी नौ विध ।

दोय वेदनी जान, मोहनी आठ वीस निध ॥

आव चार परकार, नाम की प्रकृति तिरानौ ।

तथा एकसौ तीन, गोत दो भेद प्रमानौ ॥

कहि अंतराय की पांच सब, सौ अडतालिस जानिए ।

इमि आठ करम अडतालिसौं, भिन्नरूप निजमानिए ॥

ज्ञानावरणी पांच प्रकार:-मतिज्ञानावरणी, श्रुतज्ञानावरणी अधिज्ञानावरणी, मनःपर्ययज्ञानावरणी, केवल ज्ञानावरणी ए पांच भेद ज्ञानावरण के कहे । दर्शनावरणी नव प्रकार है:- चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण, केवलदर्शनावरण, निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला, स्थानगृह्णनिद्रा, ए नव भेद कहे । वेदनीय दोय प्रकार है:-एक साता वेदनीय, एक असाता वेदनीय, ए दोय भेद वेदनी के हैं । अरु मोहनीय अठाईस प्रकार है-दर्शनमोह ३:- मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति । चारित्रमोह २५:-कषाय १६-अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया लोभ ४ प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ ४, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ ४, संज्वलन, क्रोध, मान, माया लोभ, ४ ए १६ । नौ कषाय ९:-हास्य, रति,

अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ए २५ चारित्र मोह के। आयुर्कर्म च्यारि प्रकारः-नरकायु, तिर्यग्गायु, मनुष्यायु देव आयु ए च्यारि भेद। नामकर्म की तिराणवै प्रकृतिः-सविपिंड प्रकृति, गति ४, जाति ५, शरीर ५, अंगोपांग ३, बन्धन ५, संघात ५, संस्थान ६, संहनन ६, स्पर्श ८, रस ५, गंध २, वर्ण ५, आनुपूर्वी ४, विहायोगति २, ए ६५। अपिंडप्रकृति २८-अगुरुलघु १ उपघात १, परघात १ उस्वास १, आताप १ उद्योत १ निर्माण १, तीर्थङ्कर १ त्रस १ वादर १ पर्याप्त १, प्रत्येक १ थिर १ शुभ १ सुभग १ सुस्वर १ आदेय १ जसकीर्ति १ थावर १ सूक्ष्म १ अपर्याप्त १ साधारण १ अधिर १ अशुभ १ दुर्भग १ अनादेय १ अजसकीर्ति १ ए अठाईस अपिंड प्रकृति। सब मिलि तिराणवै भई। तथा नामकर्म की एक सौ तीन प्रकृति कही हैं। शरीरके पांच और पंद्रा, दो प्रकार भेद कीए हैं, सो तिराणवै मांहि दस और मिलाए एक सौ तीन प्रकृति भी कहिए। अर दश बधी तिनका भेद कर्मकांड तै जानना। अन्तराय कर्म पांच प्रकार है-दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, वीर्यान्तराय, ए पांच अन्तराय कर्म की प्रकृति जाननी।

ए सर्व एक सौ अडतालीस कर्मनि की प्रकृति हैं। तहां मूलप्रकृति आठ, ज्ञानावरण १, दर्शनावरण १, वेदनीय १

मोहनीय १ आयु १ नाम १ गोत्र १ अन्तराय १ ।  
 उत्तरप्रकृति एकसौ अडतालीसः-ज्ञानावरण ५, दर्शनावरण ६  
 वेदनीय २ मोहनीय २८, आयु ४, नाम ६३, गोत्र २,  
 अन्तराय ५, ए सब आठ कर्मकी एकसौ अडतालीस  
 प्रकृति भई । उत्तरोत्तर भेद असंख्यांते हैं, तथा अनन्ते  
 हैं । आगम कैं अनुसार सब ही जानिवे योग्य हैं ।

इस भांति आठ कर्मनि की एकसौ अडतालीस  
 प्रकृति भई सो तिन आठ कर्मनि सेती अर एकसौ  
 अडतालीस प्रकृतिनि सेती अपना आत्मा भिन्न जानना,  
 जुदा जानना । ए कर्म जड हैं अर आत्मा चैतन्य है ।

### एक सौ अडतालीस कर्म प्रकृति यंत्र

मू० प्र०	ज्ञा	द	वे	मो	आ	ना	गो	अं
ब० प्र०	५	६	२	२८	४	६३	२	५
उत्तरोत्तर	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ

अब भवविपाकी, क्षेत्रविपाकी, पुद्गलविपाकी और जीव  
 विपाकी प्रकृतियाँ १४८ तिनका व्यौरा कहिए है—



सवैया इकतीसा

वरनादिक बीस संस्थान संहनन बारै,  
 बंधन संघात देह अङ्गोपांग ठारै हैं ।  
 अगुरुलघु आतप उपघात परघात,  
 निरमान परतेक साधारन सारै हैं ॥  
 अथिर उदोत थिर सुभ असुभ वासठ,  
 पुग्गलविपाकी भौविपाकी आव चारै हैं ॥  
 क्षेत्र की विपाकी चार आनुपूर्वी अउत्तर,  
 बाकी जीवकी विपाकी धरै अघ टारै हैं ॥२६॥

जिस प्रकृति का पुद्गलविषै उदय होय सो पुद्गल-  
 विपाकी कहिए है । और जो प्रकृति भवविषै उदय आवै  
 सो भव विपाकी कहिए है । अरु जो प्रकृति पर क्षेत्रविषै  
 ले जाइ सो क्षेत्रविपाकी कहिए । अरु जिस प्रकृति के उदय  
 विषै जीवनाम आवै सो जीवविपाकी कहिए ।

सो पुद्गलविपाकी ६२, भव विपाकी ४, क्षेत्र विपाकी ४,  
 जीव विपाकी ७८, प्रकृतिनी का व्यौरा कहिए है । वर्णा-  
 दिक २०-वर्ण ५, कालो, पीलो, हरित, लाल, श्वेत.  
 गंध-सुगंध, दुर्गंध । स्पर्श-तातो, सीलो, हलको, भारघो,  
 लूखो, चिकणो, नरम, कठोर । रस ५-खाटो, मीठो, कड़ो,

कसायलो, चिरपरो ए वीस भेद भए । संस्थान छह, शरीर के आकारकौ संस्थान कहिए—समचतुरस्र, निग्रोध-परिमण्डल, स्वातिक, कुबजक, वामन, हुंडक, ए छह संस्थान हैं । संहनन छह—वज्रवृषभनाराच, वज्रनाराच, नाराच, अर्द्ध-नाराच, कीलित, स्फाटिक ए छह संहनन । ए बारह भए ।

बंधन पांचः—औदारिक बंधन, वैक्रियक बंधन, आहारकबंधन, तैजसबंधन, कार्माण बंधन । संघात ५—औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस, कार्माण ए पांच हैं ।

देह ५—औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस, कार्माण ए पांच देह हैं । अंगोपांग ३—औदारिक अंगोपांग, वैक्रियक अंगोपांग, आहारक अंगोपांग । ए सब मिलि अठारह भई । न हलको न भारघो, उष्णकिरन, आपतैं घात सो उपघात, परतैं घात सो परघात, अपनी मर्यादरूप होय सो निर्माण, स्थान निर्माण प्रमाण निर्माण । एकजीव कै होय सो प्रत्येक कहिए । जिस विषै अनंत जीव पाइए सो साधारण कहिए । धातु की चलाचल होय सो अधिर कहिए । दिपै सो उद्योत । धातु स्थिर रहै । भला होना । बुरा होना । ए वासठि प्रकृति पुद्गलविपाकी हैं । इनका उदय पुद्गलविषै है ।

नरक आयु, तिर्यच आयु, मानुष आयु, देव आयु, ए च्यारि आयु भवविपाकी हैं । इनका उदय भवधारण कीये

तैं हो है । अर क्षेत्रविपाकी च्यारिः—नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, ये ४ क्षेत्रविपाकी हैं । इन प्रकृतितैं बाकी रही प्रकृति अठहत्तरि, ते जीव विपाकी कहिए । जिस प्रकृति का उदय विषै जीव का नाम आवै सो जीव विपाकी कहिए । विपाक नाम उदय का है । जैसा कथन जो धारन करै श्रद्धांन करै सो पाप तैं छूटै है, परम पवित्र होय अनंत सुख पावै है ।

एक सौ अठतालीस पुद्गल विपाकी आदि का यंत्र

पुद्गल विपाकी	भौ वि	त्रे वि	जीव विपाकी
६२	४	४	७८
वरण ५, गंध २, स्पर्श ८, रस ५, संस्थान ६, संहनन ६, बंधन ५, संघात ५, देह ५, अंगोपांग ३, अगु १, आ १, अ १, प १, नि १, प्र १, सा १, अ १, उ १, थि १, शु १, अ १ ।	नरक आगु १, तिर्यग आगु १, नरागु १, देवागु १ ।	नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यगत्यानुपूर्वी, नरागुपूर्वी, देवानुपूर्वी	ज्ञानावरण ५, दर्शना- वरण ६, वेदनी २, मोहनी २८, गोत्र २, अंतराय ५, नाम २७:- ग ४, इ ५, उच्छ १, चाल २, शुगा १, दुर्म १, जस १, अ १, आदेय १, अनादेय १, सुस्व १, दुः १, त्र १, था १, सू १, वा १, ती १ प २

— सर्वघाती, देशघाती और अघाति प्रकृतियों का कथन —  
 केवलदरस ज्ञान आवरण ताकी दोय,  
 मिथ्यात समें मिथ्यात निद्रा पांच भानिये ।  
 तीनों चौकरी की बारै सर्वघाती इकईस,  
 संजुलन चार नव नोकषाय मानिये ॥  
 भयानावरणी की चार दर्शनावरणी तीन,  
 अंतराय पांच सम्यक मिथ्यात ठानिये ॥  
 देसघाती की छत्रीस बाकी एकसौ अघाती,  
 तीनों घातीकर्म घात आप शुद्ध जानिये॥२७॥

जो प्रकृति आत्मा के गुणनि को सर्वांग घात करै  
 सो सर्वघाती कहिए । ते सर्वघाती प्रकृति इकईस हैं । और  
 जो प्रकृति आत्मा के एकदेशकूँ घातै सो देशघाती कहिए,  
 ते देशघाती छत्रीस प्रकृति हैं । अर जे प्रकृति आत्मगुण का  
 घात करै नांही, अपनां उदय की साथि खिरि जाय ते  
 अघाती हैं । ते प्रकृति एक सौ एक हैं । इन सबका जुदा जुदा  
 व्यौरा कथन इस प्रकार है—

केवलज्ञानावरणीय, केवलदर्शनावरणीय दोय ए  
 मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व—मिश्रमोहनी प्रकृति, और पांच  
 निद्रातें-निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला, स्थानगृद्धि-

निद्रा, इन पांचनि का नाश करिए । तीनों अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, ए बारह । ए इकईस प्रकृति सर्वघाती हैं । इनका उदय आत्मा का सर्वगुण घातै है । तातैं सर्वघाती प्रकृति इकईस हैं ।

संज्वलन ४, क्रोध, मान, माया, लोभ, ए च्यारि हैं । नो कषाय नवः—तहाँ हास्यादिक छह—हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ए ६ और वेद तीन—स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ए ३, ए नव नौकषाय कहिए । मतिज्ञानावरणी, श्रुतज्ञानावरणी, अवधिज्ञानावरणी, मनः-पर्ययज्ञानावरणी, ए ज्ञानावरणी की च्यारि । दर्शनावरणी तीनः—चक्षुदर्शनावरणी, अचक्षुदर्शनावरणी, अवधि दर्शनावरणी । अंतराय कर्म की प्रकृति पांचः—दानांतराय लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, ए अंतराय की पांच । दर्शनमोह की प्रकृति तोसरी सम्यक्त्व मोहनी । ए छब्बीस प्रकृति देश घातियां की हैं । इनके उदयमांहि गुन सर्वांग घात्या जाय नाही तातैं ए देशघाति कहिए । च्यारौं घातिया कर्मनि की प्रकृतिनि विषैं सर्वघाति २१, देशघाति २६, इनतैं बाकी रही एकसौ एक प्रकृति, ते अघातिया कहिए हैं । ए प्रकृति किसी ही गुननैं घातती नांही, तातैं अघातिया कही हैं । ए घातिया, देशघातिया

अर अघातिया इन तीनों ने घातै, नाश करै, क्षय करै  
तब आत्मा शुद्ध होय यह जानना ।

### घातिया अघातिया यन्त्र

घातिया		अघाति
घात	देषघा	
१	२६	१=१

पाच त्रिभंगी (बंध, उदय, उदीरणा, सत्ता, विशेष सत्ता)

सवैया इकतीसा

वर्णादिक च्यार सौलै नांही देह आदि पंच,  
दस नांही मिथ्या एक दोय बंध नाहीं है ।  
सौलै दस दोय विना बंध एक सतवीस,  
मिथ्या उदै तीन दोय बढे उदे पाहीं हैं ॥  
उदय औ उदीरणा एक सत बाइस की,  
सत्ता सौ अड़ताल विसेस सत्ता ठाहीं है ।  
मिथ्या गुण सौ छियाल काहु सत सत्ताईस,  
पांचों तिरभंगी सौ असंगी आपमांही है ॥२८॥

बंध, उदय, उदीरणा, सत्ता, विशेष सत्ता, इन पांचों  
त्रिभंगी का कथन है । पांचों वर्णमांही एक कोई

वर्ण, पांचौं रस मांहि एक कोई रस, दोन्यौं गंध विषै एक कोई गंध, आठौं स्पर्श मांहि एक कोई स्पर्श । इन बीसौं मांहि बंध योग्य च्यारि प्रकृति है । और बाकी सोला इन च्यारिनि ही विषै गभित हैं । शरीर ५, बंधन ५, संघात ५, इन पंद्रा जोग विषै पांच शरीर ही बध योग्य हैं । बंधन और संघात ते इन विषै गभित भए । तातैं दश प्रकृति और घटी, पांच बन्धन घटे, पांच संघात घटे । दर्शन मोहकी प्रकृति तीन । तिन विषै एक मिथ्यात्वका बंध है । सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, ए दोय बंध जोग्य नाहीं तातैं मिथ्यात्व विषै गभित भए, ए दोन्यौं प्रकृति और घटी । वर्णादिक की सोलह और बंधन संघात दश और दर्शन मोह की दोय ए अठईस प्रकृति बंध योग्य नाहीं । इन अठईस प्रकृति विना, बाकी एक सौ बीस प्रकृति बंध योग्य हैं । और उदय विषै एक सौ बाईस प्रकृति हैं । उदयविषै मिथ्यात्व तीनौ आवै, बंध तैं उदय विषै दोय मिथ्यात्व वधै है । जैसे उदय एक सौ वाईस का तैरे उदीरणां एक सौ बाईस की । उदीरणां एक सौ बाईस की, जोरावरी तप के बलि करिकै क्षपावै सो उदीरना कहिए । और नाना जीव अपेक्षा सत्ता एक सौ अडतालीस प्रकृति की पाईए । एक जीव की अपेक्षा कथन करिये सो विशेष सत्ता कहिए । सो कैसे कहिए, कही प्रकृति सोला

इन विषैँ गभित भई तातैँ सोला घटी । और जैसे कोई एक जीव मिथ्यात्व गुणस्थान विषैँ है तिसकैँ बहुत पाईए तौ एक सौ छीयालीस की सत्ता पाईए, आयु दोय कोई सी न पाईए यह नियम है । और किसी जीव कैँ एक सौ

मूल उत्तर प्रकृति १४८ की पंच त्रिभंगी यंत्र

नाम	ज्ञा	द	वे	मो	आ	ना	गो	अं	यो०
बंध	५	६	२	२६	४	६७	२	५	१२०
उदय	५	६	२	२८	४	६७	२	५	१२२
उदीर	५	६	२	२८	४	६७	२	५	१२२
सत्ता नाना	५	६	२	२८	४	६३	२	५	१४८
जीव विशेषिय सत्ता	५	६	२	२८	२	६३	२	५	१४६
एक अपे क्षा	५	६	२						१२७



सत्ताईस प्रकृति की सत्ता पाईए इनका । विशेष त्रिभंगीसार  
तैं देख लेना ।

बंध, उदय, उदीरणा, सत्ता, विशेष सत्ता, इन पांचौं  
त्रिभंगीनि सौ निश्चय करिकै आत्मा असंगी है । इन  
पांचौं त्रिभंगी तैं जुदा है, भिन्न है । बहुरि कैसा है आत्मा  
अपनी निज सत्ता विषैं विराजै है ।

अब सबका समुच्चय कथन

—: बंध, उदय, और सत्ता :—

छप्पय

(२६)

बंध एकसौ बीस, उदय सौ बाइस आवै ।  
सत्ता सौ अड़ताल, पाप की सौ कहलावै ॥  
पुन्यप्रकृति अठसाठि, अठत्तर जीवविपाकी ।  
बासठ देह विपाकि, खेत भव चव चव बाकी ॥  
इकईस सरवघाती प्रकृति, देशघाति छब्बीस हैं ।  
बाक अघाति इक अधिकशत, भिन्न सिद्ध सिवईस हैं

बंध योग्य एक सौ बीस प्रकृति हैं, अठाईस प्रकृति इन  
विषैं गर्भित भई । उदय विषैं एक सौ बाईस प्रकृति आवै  
छब्बीस इन विषैं गर्भित होइ खिरी । और सत्ता विषैं एक  
सौ अडतालीस प्रकृति पाईए । और तिन एक सौ अडता-

लीस प्रकृतिनि विषै पाप प्रकृति सौ है । अशुभ परिणामसँ  
बंधै सो पाप प्रकृति है ।

और पुण्यप्रकृति अड़सठि हैं । जो शुभ परिणामों सँ  
बंधै सो पुण्य-प्रकृति कहिए । और वर्णादिक वीस प्रकृति  
पाप विषै भी गिनी अरु पुण्य विषै भी गिनी तातँ अड़सठि  
भई । अर अठहत्तरि प्रकृति जीव विपाकी है । वासठि प्रकृति  
पुद्गलविपाकी है ।

क्षेत्रविपाकी च्यारि प्रकृति हैं और भवविपाकी भी  
च्यारि प्रकृति हैं । और इकईस प्रकृति सर्वघातियां की हैं ।  
और छब्बीस प्रकृति देश घातियां की है । इनतँ बाकी रही  
एक सौ एक प्रकृति ते अघातियां की है । जिनके उदय  
विषै गुण घात्या न जाय ते अघाती प्रकृति एक सौ एक  
हैं । इन भेदनि तँ सिद्ध निःकलंक परमात्मा भिन्न हैं  
जुदा हैं और शिव कहिए मोक्ष तिसके ईश्वर हैं ऐसे  
अनन्ते सिद्धौ नँ हमार नमस्कार होऊ ।

—: एकसौ पाप प्रकृतियों के नाम :—

सवैया इकतीसा

घाति सँतालीस दुक्ख नीच नरकायु पंच,  
संस्थान संहनन वर्ण रस मानिए ।

नर्क पशुगति आनुपूर्वी फरस आठ,  
 गंध दोग इंद्री चार, बुरी चाल ठानिए ॥  
 अस्थिर अपर्याप्त सूक्ष्म औ साधारण,  
 उपघात थावर अशुभ परमानिए ।  
 दुर्भग दुस्वर औ अनादेय अजसरूप,  
 पापप्रकृति सौ भेद त्यागि धर्म जानिए ॥३०॥

मन वचन काय की वक्रता मांहि अशुभ परिणामों करिकैं जिन प्रकृतिनि का बंध पडै ते पाप प्रकृति कहिए । ते पाप प्रकृति एक सौ हैं तिनका नाममात्र संक्षेपता करिकैं कथन करिए है:—च्यारों घातिया कर्मनि की प्रकृति सैतालीस, असाता वेदनीय, नीचचोत्र, नरक श्रायु, समचतुरस्र संस्थान विना पांच संस्थान, वज्रवृषभनाराच संहनन विना पांच संहनन, पाँच वर्णा, पाँच रस प्रमाण करिये । नरक-गत्यानुपूर्वी, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, नरकगति, तिर्यचगति, आठ स्पर्श, गंध दोग, पंचेन्द्री त्रिनां इंद्रिय ४, अप्रशस्त चाल, अस्थिर, अपर्याप्त, सूक्ष्म और साधारण, उपघात, स्थावर, अशुभ प्रमाण करिए । दुर्भाग्य, दुस्वर, अनादेय, अजसकीर्ति, ए सौ प्रकृति पापकी हैं । इनकै ताई जो मन, वचन, काय करिकैं त्यागै सो ही जीव धर्मात्मा जानिए ।

अत्र शुभ परिणामसौं बंधे पुण्य प्रवृत्ति तिनका कथनः—

—: पुण्य प्रकृतियों के ६८ नाम :—

सवैया

सुर नर पशु आव साता ऊंच भली चाल,  
सुर नर आनुपूर्व निरमान स्वास है ।

बंधन संघात देह वर्ण रस पंच त्रस,  
तीन अंग सुभ द्योय गंध आठ फास है ।

अगुरुलघु पंचेन्द्री संस्थान संहनन,  
वाटर प्रतेक थिर पर्याप्त जस है ।

आतप उद्योत परघात सुस्वर सुभग,  
आदेय तीर्थकर कौं बंदौं अघ नास है ॥३१॥

देव आयु, मनुष्य आयु, तिर्यच आयु, साता वेदनीय  
ऊंचगोत्र, प्रशस्त चाल, देवगति, मनुष्यगति, देवगत्यानु-  
पूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, निर्माण, श्वासोच्छ्वास, बंधन ५,  
संघात ५, देह ५. वर्ण ५. रस ५ ए पांच, तीन अंगो-  
पांग, शुभ, द्योय गंध, आठ स्पर्श ८, अगुरुलघु, पंचेन्द्री,  
समचतुरस्रसंस्थान, वज्रवृषभनाराच संहनन, वाटर, प्रत्येक  
स्थिर, पर्याप्त, जसकीर्ति, आताप, उद्योत, परघात, सुस्वर,

सौभाग्य, आदेय, तीर्थकर ये पुण्य प्रकृति हैं। तिन तीर्थकरों के बंदिवे तैं पाप का नाश हो है।

—:जिनमत की श्रद्धा:—

छप्पय

तिहूँ काल षट दरब, पदारथ नव तुम भाखे ।  
सप्त तत्त्व पंचास्तिकाय, षटकायिक राखे ॥  
आठ कर्म गुण आठ, भेद लेस्या षट जानै ।  
पंच पंच वृत समिति, चरित गति ग्यान बखानै ॥

सरधै प्रतीत रुचि मन धरै,

मुकतिमूल समकित यही ।

पदनमौँ जोरि कर सोस धर,

धनि सर्वग इह विध कही ॥३२॥

जिनेश्वर देव की वांनी विषै जे कहे तिनकी जो श्रद्धा कीजे सो ही सम्यग्दर्शन तिसक्य वर्णनः—अतीत, अनागत, वर्तमान, ए ३ काल। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म आकाश, काल, ए छह द्रव्य। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुन्य, पाप, ए नौ पदार्थ। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ए सात तत्त्व हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ए पंचास्ति-

काय । पांच स्थावर—पृथ्वी काय, जलकाय, तेजकाय, वनस्पति काय ए पांच, अर छठौं व्रस काय इन जीवनि की रक्षा करनी । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय ए आठ कर्म ! निःशंकितादि आठ गुण वा सिद्धनि के आठगुण तिनका कथन की तथा लेश्या के छह भेद १ कृष्ण लेश्या, २ नील लेश्या, ३ कापोतलेश्या, ४ शुक्ललेश्या ५ पीतलेश्या, पद्मलेश्या ए छह लेश्या है । आगौं पांच पांच भेद कहै हैं । १ अहिंसा, २ सत्य, ३ अचौर्य, ब्रह्मचर्य ५ परिग्रह को त्याग, । १ ईर्या २ भाषा ३ एषणा ४ आदान निक्षेप ५ प्रतिष्ठापना । १ सामायिक २ छेदोपस्थापना, ३ परिहारविशुद्धि, ४ सूक्ष्मसांपराय ५ यथाख्यातचारित्र । नरक, तिर्यंच, मनुष, देव, अरु पंचमगति मोक्ष । १ मतिज्ञान २ श्रुतज्ञान, ३ अवधिज्ञान ४ मनःपर्ययज्ञान ५ केवलज्ञान ए पांच ज्ञान । इतने कथन की जो जीव मन, वचन, काय करि श्रद्धा करै प्रतीति करै, रुचिसेती मन विषै धारण करे । यही मोक्ष का मूल एक सम्यग्दर्शन है । केवली भगवान के वचनों को श्रद्धा करनी ताका नाम सम्यग्दर्शन है ।

तिस भगवान सर्वज्ञदेव के चरणकमलनिनै मस्तक परि हाथ धरिकै नमस्कार करौं हौं । ते सर्वज्ञदेव धन्य हैं जिननै दिव्यध्वनि करि यह विधि साक्षात् प्रकट दिखाई ते धन्य है ।

१६६ ॥ लाख कुलकोड का व्योरा

सवैया इकतीसा

पृथ्वीकाय बीस दोग जल सात तेज तीनि,  
 वायु सात तरु बीस आठ परमानिए ।  
 वे ते चउ इंद्रो सात आठ नव खग बारै,  
 जलचर साढ़ै बारै चौपे दस जानिये ॥  
 सरीसृप नव नारकी पचीम नर चौदैं,  
 देवता छबीस लाख कुल कोरि मानिए ।  
 दोग कोराकोरीमांहि आधलाख कोरि नांहि,  
 सबकों निहारिकै दयालभाव आनिए ॥३३॥

कुल नाम पिता पत्न का है सो कुल कोडि की गिणती एक सौ साढा निन्याणवै लाख कोटि है । तिनका जुदा जुदा व्योरा का कथन इस छंद विपै है । पृथ्वीकाय की बाईस लाख कुलकोडि है । जल काय का सात लाख कुल कोडि है । अग्निकाय का तीन लाख कुल कोडि है । वायुकाय सातलाख कुल कोडि है । वनस्पतिकाय की अठाईस लाख कुल कोडि प्रमाण जाननी । वेइन्द्री, ते इंद्रो, चौइंद्रो जीवनि की कुल कोडि अनुक्रम ते सात आठ नव लाख कुल कोडि है । नभचारीनि की बारा





लाख कुल कोडि है । जलचर जीवनि की साढा बारा लाख कुल कोडि है । चौपद जीवनि की दशलाख कुल कोडि है । गोह आदि सरीसर्प जीवनि का कुल कोडि नव लाख कुल कोडि है । नारकी जीवनि की पचीस लाख कुल कोडि है । मनुष्यनि की कुल कोडि चौदह लाख कुल कोडि है । देवतांनि की छत्रीस लाख कुल कोडि है । दोय कोराकोरी विषै आधा लाख कोडि घटाई दीजे । इन सब जीवांनि की एक सौ साढा निन्याणबै लाख कुल कोडि देखिकै निहारिकै, निरखिकै, अपने मन विषै दयालभाव राखना, कृपाभाव राखना, इनकी रक्षा करनी ।

—: अंकगणना के ग्यारह भेद :—

छप्पय

ग्यार अंक पद एक, अंक दस सब पद जानी ।  
 पूरव चौदे अंक, बीस अच्छर जिनवानी ॥  
 उनतिस अंक मनुष्य, पत्य पैंतालिस अच्छर ।  
 सरसों कुंड छियाल, डेढ़सौ तिथि अच्छर वर ॥  
 इकतीस अंक पल कल्प के, जबु फलावटि दस वरन ।  
 सब वातबलय ग्यारै वरन धन्य जैन संसै हरन ॥३४॥

अब ग्यारै भेद अंक गिनती अंक कहिए कितने भए  
 किस स्थान के यह कथन कीजिए है—

एक पद के सर्व ग्यारह अंक हैं अर्थात् १६३४८३०-  
 ७८८८, हैं। सब द्वादशांग वानी के पदों के दश अंक भए  
 अर्थात् ११२८३५८००५ भये। एक पूर्व के चौदह अंक हैं  
 अर्थात् ७०५६००००००००००० हैं। और द्वादशांगवानी  
 के वीस अक्षर हैं ते फलाय लेने, धर्म विलास विषे यह कथन  
 देखि लेना। अर्थात् १८४४६७४४०७३७०६५५१६१५  
 हैं। अरु गुणतीस अंक प्रमाण मनुष्य राशि पर्याप्त मनु-  
 प्यनि की है। एक योजन का कुंड ऊंचा, चौड़ा, गोल  
 सो रोम करि भरिए। तब सौ सौ बरस पीछे एक एक रोम  
 खाली होय तिसका नाम एक पल्य कहिए। सो ताके अंक  
 पैंतालीस हैं। एक लाख योजन का कुंड चौड़ा लंबा  
 हजार योजन ऊंचा ताकें सरिसौनि सौ सिगाऊ भरै ते  
 सरिसौ छियालीस अंक प्रमाण माई। और डेढ़सौ अक्षर-  
 ताई संख्यात की गिणती है। जैसे च्यारि कुंड स्थापै जब  
 तीन कुंड संपूर्ण भरि ले तब अंत जहाँ पर्यंत पहुंचे द्वीप  
 वा समुद्र विषे उतना ही चौड़ा गूढ़ै। तिस कुंड मांहि  
 डेढ़सै १५० अंक प्रमाण सरिसौ माई। दश कोडा कोडि  
 पल्य का एक सागर कहिए। अरबीस कोडा कोडी सागर  
 का एक कल्प काल कहिए। तिस एक कल्प काल के  
 इकतीस अंकनि प्रमाण पल्य जानने। और जंबूद्वीप को  
 चौरस करि तिसका घनाकार करि फलाईए तौ तिसका

## ग्यारह भेद अंक गणना का यंत्र

१ जिनवाणी के एक पद अंक	१६३४८३०७८८८	
२ द्वादशांग के अंक दस पद	११२८३४८००४	
३ १४ पूर्व अंक	७०४६०००००००००	
४ जिनवाणी अंक २०	१८४४६७४४०७३७०६४४१६१४	
५ पर्याप्तमनुष्य अंक २८	७६२२८१६२४१४२२६४३४७४३४४३४४०३६	
६ पत्य फ लावा ४५	४१३४४६३०३०८२०३१७७४६४१२१६२०००००००००००००	
७ सरसौ ४६	१६६७११२६३८४४१३१६३६३६३६३६३६३६३६३६३६३६३६३६	
८ संख्यात ग० १५०	त्रिलोक सार सिद्धान्त तैं अक्षर अंक जानने १५०	
९ कल्प काल पद ३१	२०००००००००००००००००००००००००००००००००००	
१० जम्बूद्वीप धनफल १०	७६०४६६४१५०	
११ वातिबलय	१०२४१६८३४८७	

घनाकार के प्रमाण योजन दश अक्षर भए ७६०५६६-  
४१५० । स्थूल योजन ७५०००००००० इतने हो हैं  
और वातावलानि की फलावटि ग्यारा अंक प्रमाण है सो  
विशेष आगम तैं जानना, १०२४१६८३४८७ अंक ए है ।  
जगत प्रतर के गुणकार अंक ११ । जिनेन्द्र देव के दिव्य  
वचन धन्य हैं जिनके विषैं संशय का नाश करनहारा यह  
सत्यार्थ व्याख्यान भया—जिनके सुनतैं ही अनादि का  
संशय दूरि हो जाय ते जिन वचन धन्य हैं, सर्वोष्कृष्ट  
परम पूज्य हैं ।

तेरहवें गुणस्थान में सात त्रिभंगी कथ

छापय

सात जु आश्रव द्वार, बंध इक साता कहिए ।  
चौदैं भाव प्रमाण, पचासी सत्ता लहिए ॥  
अस्सी चउरासीय, इक्यासी और पिच्यासी ।  
यह सत्ता चौ भेद, विसेस जिनेसुर भासी ॥  
इक कम चालीस उदीरना, उदय वियालिस मानिए।  
यह तेरम गुणस्थानमें सात त्रिभंगी जानिए ॥४५॥

अब तेरमां गुणस्थान सयोगकेवली ताविषैं त्रिभंगी  
पाइए तिनका कथन कहे है:—

कर्मनि के आगमन का नाम आश्रव है । ताके सात द्वार हैं १ सत्यमन, २ अनुभय मन, ३ सत्य वचन ४ अनुभय वचन, ५ औदारिक, ६ औदारिक मिश्र ७ कार्माण, ए सात योग आश्रव के द्वार हैं । इन मार्ग होय केवलीनि कै कर्म आवै है । और तेरमें गुणस्थान में बंध एक साता वेदनीय का ही है, औरनि का बंध नांही । और तेरमें गुणस्थान विषै चौदह भाव पाईए है । सो भाव त्रिभंगी तै देखि लेना और तेरम गुणस्थान विषै पिच्यासी प्रकृतिनि की सत्ता पाइए है । किसी जीव के आहारक चतुष्क और तीर्थकर विना सत्ता अस्सी प्रकृतिनि की पाईए है । किसी जीव के आहारक चतुष्क सहित तीर्थकर विना चौरासी प्रकृतिनि की सत्ता पाईए है । किसी जीव के आहारक विना तीर्थकर सहित इक्यासी प्रकृतिनि की सत्ता पाईए है । और किसी जीव के आहारक चतुष्क और तीर्थकर इन पंच प्रकृतिनि सहित पिच्यासी प्रकृतिनि की सत्ता पाईए है । या भांति नाना जीवनि की अपेक्षा विशेष सत्ता अस्सी की, चौरासी की, इक्यासी की, और पिच्यासी की, इन च्यारि भेदनि करि तेरम गुणस्थान विषै वीतराग देव नै दिव्यध्वनि करि द्वादशांग सूत्र विषै कही है । और तेरम सजोग गुणस्थान विषै उनतालीस प्रकृतिनि की उदरीणा है, जोरावरी उदै आनि खियै सो उदरीणां ३६ की है । और तेरम गुण-

तेरसां गुणस्थान विषे सात त्रिभंगी रचना यंत्र

आस्रव	बंध	भाव	मत्ता ८५/८० ८४/८१	उकीरणा	उदय रचना	विशेष सत्ता
आ ७	बंध १	भाव १४	मत्ता ८५	उकी २६	उदय ४२	सत्ता ८५/८४/८१/८०
आ ५०	आ ११६	आ ३६	आस ६३	आतु ८३	आनु. ८०	आस ६३/६३/६३/६३
व्यु० ७	व्यु० १	व्यु १	व्यु० ०	व्यु ०६	व्यु० ६०	व्यु ० ० ० ०
जोड़ ५७	जोड़ १२०	जोड़ ५३	जोड़ १४८	जोड़ १०२	जोड़ १२२	जोड़ १४८/१४४/१४३

स्थान विषै वीयालीस प्रकृतिनि का उदय पाईए है ।  
 आश्रव १ बंध १ एक सत्ता का भाव चौदह, सत्ता  
 पिच्यासी की, विशेष सत्ता नाना जीव अपेक्षा अस्सी,  
 चौरासी, इक्यासी पिच्यासी की, उदीरनां उनतालीस की  
 उदय वीयालीस का, इन भंगिनि तैं तेरम गुणस्थान  
 सयोग विषै सात त्रिभगी जाननी ।

:—बंधदशक कथन:—

छापय

जीव करम मिलि बंध, देय रस तास उदै भनि ।  
 उद्दीरणा उपाय, रहैं जबलौं सत्ता गनि ॥  
 उतकर्षण थिति बढ़ैं, घटैं अपकर्षण कहियत ।  
 संक्रमण पररूप, उदीरन विन उपशम मत ॥  
 संक्रमण उदीरन विन निधत,  
 घट बढ़ उदीरन संक्रमन ।  
 चहुँ विना निकांचित बंध दस,  
 भिन्न आप पद जानि मन ॥३६ ॥

परिणति का भेद करि कर्मनि का बंध दश प्रकार  
 है । जीवमै परकौं आपा मान्यां तत्र कर्म का बंध हुवा । जे  
 प्रकृति उदय आए विनां न खिरै सो उदय बंध कहिए ।

आयु कर्म बिना और सात कर्मनि की प्रकृति जोरावरी उदीरणां करि खिपावै सो उदीरणां बंध कहिए । अरु कर्म प्रकृतिबंध होइ कै जब ताई उदय आवै नांही, सत्ताविषैं पडी रहै सो सत्ता बंध कहिए । उत्कर्षन परिणामौं करिकैं जो प्रकृति बांधी थी फेरि परिणामनि का निमित्त पाइ उस प्रकृति की थिति बढ़ावै तिसका नाम उत्कर्षण कहिए । भुज्यमान आयु बिना और जिस प्रकृति का बंध कीया था फेरि परिणामनि का निमित्त पाइ उस प्रकृति की स्थिति घटावै तिसका नाम अपकर्षण कहिए । जो प्रकृति बांधी थी फेरि परिणामनि के बल करि कै उस प्रकृति कौं और प्रकृति मांहि मिलाइ दै, तिसका नाम संक्रमण बंध कहिए । जो कर्म प्रकृति बांधी थी फेरि उस प्रकृति की उदीरणां न होय सो उपशम बंध कहिए । जो कर्म प्रकृति बांधी थी फेरि वह प्रकृति और प्रकृतिविषैं न मिलै और उस प्रकृति की उदीरणां भी न होय तिसका नाम निधत्त बंध कहिए । और जो कर्मप्रकृति बांधी थी तिस प्रकृति की थिति न तो घटै, अरु न बढ़ै, अरु न उदीरणां होइ, न संक्रमण होइ । संक्रमण नाम परविषैं मिलने का है । जैसे च्यारि प्रकार के भेदनि करिकैं रहित सो निःकांचित बंध कहिए । निकांचित बंध न घटै, न बढ़ै, न उदीरना होइ, न संक्रमण होइ ताका नाम निकांचित बंध है । या भांति



दश प्रकार बंध आगम विषै कहा है । इस दश प्रकार के बंध सेती अपनी आत्मा भिन्न जानना । आत्मा चैतन्य मई है, बन्ध जड है, पुद्गलीक है, तातैं जड पुद्गलानि तै आत्मा भिन्न जानना ।

— तीन लोक के अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या —  
सवैया तेईसा ( मत्तगयन्द )

सान किरोर बहत्तर लाख,  
पताल विषै जिनमन्दिर जानैं ।  
मध्य लोक में चारसौ ठावन,  
व्यन्तर ज्योतिष के अधिकानै ॥  
लाख चौरासि हजार सतानव,  
तेइस ऊरध लोक बखानैं ।  
एकेक में प्रतिमा सत आठ,  
नमें तिहुजोग त्रिकाल सयानैं ॥३७॥

अब तीन लौकविषै जे अकृत्रिम चैत्यालय हैं तिनकी संख्या का कथन करिए है ।

चित्रा पृथ्वी कै तलैं दश प्रकार के भवनवासी देव हैं । तिनके भवन हैं, तिन भवननि विषै सात कोडि बहत्तरि लाख जिनेश्वरदेव के अकृत्रिम चैत्यालय हैं ।

तहां असुरकुमारनि के ६४०००००, नागकुमारनि के ८४००००० सुपर्णकुमारनि के ७२०००००, पवनकुमारनि के ६६००००० और बाकी छह प्रकार के देवनि के छिहंतरिलाख २ चैत्यालय हैं ते मब ४५६००००० । या भांति भवनवासीनि विषैं जिनमंदिर जानने । और मध्यलोक विषैं च्यारिसैं अठावन अकृत्रिम जिनमंदिर हैं । तहां पांच मेरू के ८०, अरु बन्नारपर्वतोपरि ८०, गजदंतनि पै बीस २०, कुलाचलनि परि ३०, एक सौ सत्तरि विजयाद्धर्नि पै, भोगभूमि के दश, इष्वाकार के च्यारि, मानुषोत्तर के च्यारि, नंदीश्वर द्वीपक के बावन, रुचक द्वीप के ४, कुंडलद्वीप के चार, ऐसे ४५८ जिनमंदिर हैं । अरु व्यंतरदेव तथा ज्योतिषी देवनि के चैत्यालय असंख्याते हैं । तथापि व्यंतर देवनि के चैत्यालयनि तैं ज्योतिषीदेवनि के चैत्यालय असंख्यात गुणे हैं ।

सौधर्म स्वर्ग तैं लेइ सर्वार्थसिद्धि पर्यंत चौरासीलाख सित्यानवैं हजार तेईस अकृत्रिम जिनमंदिर हैं । तहां सौधर्म विषैं ३२ लाख, सनत्कुमाराविषैं २८ लाख, तीजे में १२ लाख, चौथेमें ८ लाख, पांचमे छठे स्वर्गविषैं ४ लाख, सातमें आठवेंमें ५० हजार, नोमें दशवेंमें ४० हजार, ग्यारहवें बारहवें में ६ हजार, तेरहवें चौदहवें पन्द्रहवें सोलहवेंमें

७००, अधोग्रैवैयकमें १११, मध्यग्रैवैयकमें १०७, ऊर्ध्व-  
ग्रैवैयकमें ६१, नवअनुदिशमें ६, पंचानुत्तरमें पांच, ए  
उर्ध्वलोकविषै चौरासी लाख सित्याणवै हजार तेईस हैं।  
तिन एक एक चैत्यालयनि विषै एक सौ आठ जिन

तीन लोक विषै अकृत्रिम चैत्यालय तिन प्रतिमा संख्या

अधोलोक	लाख	मध्यलोक	लाख	उर्ध्वलोक	लाख
असुरकुमार	६४	पंचमेरु	८०	सौधर्म	३२
नागकुमार	८४	वक्त्रार	८०	ईशान	८
विद्युत्कुमार	७६	गजदंत	२०	सनत्कुमार	१२
सूपर्ण ,,	७२	कुलगिरि	३०	माहेन्द्र	८
अगनि ,,	७६	विजयार्ध	१७०	पांचमा छठा	४
पवनकुमार	६६	भोगभूमि	१०	लांतव कापिष्ट	५० ह
मेघकुमार	७६	इष्वाकार	४	शुक महाशुक	४० ह
उदधिकुमार	७६	मानुषोत्तर	४	सतार सहस्रार	६ ह
द्वीप कुमार	७६	नंदीश्वर	५२	ते. चौ पं. सो.	७००
दिवकुमार	७६	रुचक	४	अधो ग्रैवे.	१११
		कुंडल	४	मध्य ग्रैवे.	१०७
				उर्ध्व ग्रैवे.	६१
				नव अनुदिश	६
				पंचानुत्तर	५

प्रतिमा हैं । पंचवर्ण रत्नमई हैं । पद्मासन पांचसै धनुषी  
की सास्वती विराजमान हैं । ऐसी जिन प्रतिमांजी नै  
त्रिकाल सम्पगज्ञान पूर्वक नमस्कार करूँ । अरु नौ सै  
पिच्यासी कोडि, तरेपन लाख, सत्ताईस हजार, नौ सै  
अडतालीस सब चैत्यालयनि की प्रतिमा का जोड है ।

— तीन कम नव कोटि मुनियों की उत्कृष्ट संख्या —

॥ सर्वैया ॥

पांच किरौर तिराणवै लाख,  
हजार अठानवै दोसै छ जानै ।  
जीव छठे गुणमें अध सातमें  
ग्यारसै छथानवै चार ठिकानै ॥  
आठ नवै दस बारह चौदह,  
सौ उनतीस निवै परमानै ।  
तेरह आठ हि लाख हजार,  
अठानवै पांचसै दोय बखानै ॥३८॥

छठा गुणस्थान तै लेइकै अजोगि गुणस्थान  
पर्यन्त नवगुणस्थाननि विषै एकैकाल मुनि उत्कृष्ट पावै तौ  
तीन घाटि नव कोडि कहिए । अर्थात् आठ कोडि निन्याणवै  
लाख, निन्याणवै हजार, नौ सै सित्याणवै मुनिराज पावै,

इनते बधते नाहीं पावै । तिनका जुदा २ गुणस्थाननि विषै कथन करै है ।

पांच कोडि तिराणवै लाख अठ्याणवै हजार दोय सै छह मुनिराज उत्कृष्टपनै तैं छटे गुणस्थानवती एकैकाल अढाईद्वीप विषै पावै तौ ५६३६८२०६ इतने पावै । इतने सिवाय बधते नाहीं पावै । और छठा गुणस्थानविषै जितने मुनिराज कहे हैं तिनतें आधे दोय कोड छिनवै लाख निन्याणवै हजार एक सौ तीन अप्रमत्त नाम सातमां गुणस्थानविषै उत्कृष्ट एकै काल इतने पावै, बधते नाहीं पावै । और उपशम श्रेणी के गुणस्थान च्यारि—आठमां अपूर्वकरण, नवमां अनिवृत्तिकरण, दशमां सूक्ष्मसांपराय, ग्यारमां उपशान्तमोह इन च्यारि गुणस्थाननि विषै दोयसै निन्याणवै दोयसै निन्याणवै पावै । तत्र च्यारौ के ११६६ पावै । क्षपकश्रेणीके गुणस्थान पांच—आठमां अपूर्वकरणमें ५६८, नवमै अनिवृत्तिकरणमें ५६८, दशमां सूक्ष्मसांपराय में ५६८, बारहवां क्षीणमोहमें ५६८, चौदहमां अजोगीजिन में ५६८, इन क्षपकके पांच गुणस्थाननि विषै पांचसै-अठ्याणवै २ जीव पावै, और पांचौं इकट्टे करिये तत्र दोय हजार नो सै निवै भए । इतने क्षपक श्रेणी के मुनिराज उत्कृष्ट पावै । और तेरमां सयोग केवली गुणस्थान तहां उत्कृष्ट आठ लाख अठ्यानवै हजार पांच सै दोय

(८६८५०२) केवली भगवान उत्कृष्ट अढाई द्वीप विषै एकै काल इतने पावै ।

### सर्वभाव लिंगी मुनि उत्कृष्ट संख्या

		प्रमत्त.	५६३६८२०६
		अप्रमत्त	२६६६६१०३
उपशम	८६६	अपूर्वकरण	५६८ क्षपक
”	२६६	अनिवृत्ति०	५६८ क्षपक
”	२६६	सूक्ष्मसां०	५६८ क्षपक
		उपशांतमोह	२६६ उपशम
		क्षीणमोह	२६८ क्षपक
		सयोग केवली	८६८५०२
		अयोग केवली	५६८ क्षपक
		जोड	८६६६६६६७

अढाई द्वीप का ज्योतिष मंडल

( कवित्त ३१ मात्रा )

एक चन्द इक सूर्य अठासी,

ग्रह अट्ठाइस, नखत बखान ।

छयासठ सहस्र पचत्तर नवसै,  
 कोड़ाकोड़ी तारे जान ॥  
 एकसौ बत्तिस चंद्र इही विध,  
 ढाई द्वीप मध्य परवान ।  
 सब चैत्यालय प्रतिमा मंडित,  
 बंदन करों जोरि जुगपान ॥ ३६ ॥

अढाई द्वीप मध्य ज्योतिषी देवनि की संख्या—चंद्रमा १  
 सूर्य १ ग्रह अठ्यासी कहे, नक्षत्र अठईस कहे, अर एक  
 चन्द्रमा संबन्धी तारे छयासठि हजार नवसै पिचेत्तरि कोडा-  
 कोडी तारेनि के अकृत्रिम विमान हैं। ए सब एक चन्द्रमा  
 का परिवार है। और अढाई द्वीप मध्य एकसौ बत्तीस  
 चन्द्रमा हैं, और एकसौ बत्तीस ही सूर्य हैं। सो एक चंद्रमा  
 का परिवार कहा। इस ही भांति सब एकसौ बत्तीसनिका  
 जानना।

ए सारे विमान अकृत्रिम चैत्यालय करि विराजमान  
 हैं तिन अकृत्रिम चैत्यालयनि नैं दोनों हाथ जोरि  
 कैं में नमस्कार करौं हौं, पूजौं हौं, ध्यावौं हौं।

## अटार्ई द्वीप संबन्धी चन्द्रमादि ज्योतिषिनि की संख्या

[ ६५ ]

ज्यो० ५	चं०	सूर्य	ग्रह	नक्षत्र	प्रकीर्णक तारा
जम्बूद्वीप	२	२	१७६	५६	६६६७५,०००००००,००००००० ६६६७५,०००००००,०००००००
सवण	४	४	३५२	११२	२६७६००,०००००००,०००००००
धातुकीबंड	१२	१२	१०५६	३३६	८०३७००,००००००००,०००००००
कालोदधि	४२	४२	३६६६	११७६	२८१२६५०,०००००००,०००००००
पुष्कराङ्क	७२	७५	६३३६	२०१६	४८२२२००,०००००००,०००००००
जोड	१३२	१३२	११६२६	३६६६	८८४०७००,०००००००,०००००००



— आयु कर्म के बंध के नव भेद —

आउ अंत पैसठि सै इकसठि,  
 इकइस सै सित्यासी जानि ।  
 सात सतक उननीस दोय सै,  
 तेतालिस इकयासी मानि ॥  
 सत्ताईस और नौ तीनों,  
 एक आठवां भेद बखानि ॥  
 नौमीं अंतकाल में बांधै,  
 अगलि गति की आउ निदान ॥४०॥

अर्थ—अब आयु कर्म का बंध त्रिभाग विषै परै है अर देव और नारकीनि कै जब आयु विषै छह महीने बाकी रहै तब त्रिभाग परै है । और भोगभूमियां मनुष्य तिर्यच जीवनि कै आयु विषै नव महीने बाकी रहै तब त्रिभाग करै है । और कर्मभूमि के जीव एकेंद्री आदि पंचेंद्री पर्यंत सारी आयु का त्रिभाग करै ।

त्रिभंगी क्या कहिए, आयु के तीन भाग करै जब दोय भाग व्यतीत होय तीसरे भाग के आदि अंतमुहूर्त माहि बंध पडै, अरु नहीं परै तौ फेरि परै इस भाति नौ बार त्रिभंगी आयु बांधै सो त्रिभंगी कहिए ताका वर्णन करिए है—

जैसे प्रथम आयु कै पैसठि सै इकसठि भाग करै । तिसके तिहाई इकईस सै भित्यासी रहे, बंध का अवसर होय तहाँ नाहीं बंधै तोतिनकै त्रिभाग करै । तिनके तिहाई सातसै उनतीस रहे । फेरि तीन भाग करै । तिनके तिहाई दोयसै तेतालीस रहे । तिनके तिहाई इक्यासी रहे । फेरि तिनके तिहाई सत्ताइस रहे । फेरि तिनके तिहाई नव रहै । फेरि तिनके तिहाई तीन रहे । फेरि आठमी बेर तीन का तिहाई एक रह्या । इस भांति आठ बार त्रिभाग करै । नवमी बार अंत समें अवश्य निकांचित अगली गति की आयुष्य बांधै । त्रिभाग करिकै बांधै यह नियम है । और इस कर्म का त्रिभाग बिना बंध नाहीं ।

पर भव का आयु बंध अवसर त्रिभाग = अंतका १

आ०	बाकी	व्यतीत
प्र०	२१८७	४३७४
द्वि०	७२६	१४२८
तृ०	२४३	४८६
च०	८१	१६२
पा०	२७	४४
ष०	९	१८
स०	३	६
अ०	१	२
न०	अंतमुहूर्त्त	अवश्य बंधै
जोड		सर्व ६५६१

सत्तावन जीव समासः—

छापय

भू जल पावक वायु,  
नित्य इतर साधारन ।

सूक्ष्म वादर करत,  
होत द्वादश उच्चारन ॥

सप्रतिष्ठ अप्रतिष्ठ,  
मिलित चौदह परवानों ।

परज अपर्ज अलब्ध,  
गुनत व्यालीस बखानों ॥

गुनि वे ते चौइंद्री त्रिविध,  
सर्व एक पंचास भन ।

मनरहित सहित तिहुँ भेदसूं,  
सत्तावन धरि दया मन ॥ ४१ ॥

जहां जीव पाईए सो जीव समास कहिए । सो प्रथम सत्तावन जीव समास समुच्चय कथन करिए है—पृथिविकाय, जलकाय, अग्निकाय, पवनकाय । नित्यनिगोद, इतरनिगोद ए दोय साधारन वनस्पति हैं । इन छह के सूक्ष्म लीए

और इनहीं छहों के बादर लीजे, ए सब मिलिकें बारह भए । सो छह सूक्ष्म छह बादर लीजे इस भांति बारहों का उच्चार करिए, गिनती करिए । जो जीव त्रस पर्याय पाय बहुरि निगोद विषै जाइ सो इतरनिगोद कहिए । जो जीव त्रसपनां कदे धरया नांही सो नित्य निगोदिया कहिए ।

जिस जीवनें आपकै जोग्य पर्याप्ती पूरी कीनी सो पर्याप्तो कहिए । और जिस जीवनें स्व-योग्य पर्याप्त करनी भांटी, जब ताई पूरी न होइ तब ताई अपर्याप्तो कहिए । इसही का नाम निर्धृत्यपर्याप्ता भी कहिए है । और जिस जीवनें पर्याप्ता का प्रारंभ तौ कीया परन्तु पूरा एक भी न करै सौ अलब्ध पर्याप्ता कहिए । इन पर्याप्ता, अपर्याप्ता, अलब्ध पर्याप्ता, तीनों का अर्थ विशेष करिकें गोम्मटसारजी तैं देखि लेना ।

जिस जीव कै आश्रय बहुत जीव होय सो सप्रतिष्ठ । जिस जीव के आश्रय और जीव न होय आप अकेला ही होय सो अप्रतिष्ठ । सो सप्रतिष्ठ अर अप्रतिष्ठ ए दोऊ मिलि करिकें चौदह भेद एकेंद्री के जीव समास भए । ए चौदह पर्याप्ता, ए चौदह अपर्याप्ता, अर एही चौदह अलब्ध पर्याप्ता । इन तीनोंनै मिलाइ कै बीयालीस भेद भए । ए सब बीयालीस जीव समास एकेंद्री



के भए । इनहीं तैं गुनैं वेंड्री तीन प्रकार, तेइंद्री तीन प्रकार चौइंद्री तीन प्रकार, पर्याप्त, अपर्याप्त, अलब्ध पर्याप्त ए तीन प्रकार जानने । सर्व वीयालीस एकेंद्री के भेद और विकलत्रय के नव भेद सब मिलिकै इक्यावन जीव समास भए । अरु पंचेंद्री के दोय भेद—एक संज्ञी दूसरा असंज्ञी, सो संज्ञी पर्याप्तो, अपर्याप्तो, अलब्ध पर्याप्तो और असंज्ञी भी पर्याप्तो, अपर्याप्तो, अलब्धपर्याप्तो ए छह भेद पंचेंद्री के भए ।

ए सब मिलि करिकै सत्तावन जीव समास भए । इन परि दया भाव करनां ।

—:अठानवैं जीव समास:—

६

सवैया इकतीसा

इक्यावन थान जान थावर विकलत्रय के,  
गर्भज दोय तीन सन्मूर्छन गाए हैं ।  
पांच सैनी ओ असैनी जल थल नभचारी,  
भोगभूमि भूचर खेचर दो दो पाए हैं ॥  
दो दो नारकी सुदेव नौ विध मनुष्य वेव  
भोगभू कुभोगभू मलेच्छभू वताए हैं ॥  
दोय दोय दोय तीनि आरजमें राजत हैं ।  
अठानवैं दया करैं साधु ते कहाए हैं ॥४२॥

अब इसतैं आगैं अट्याणवैं जीव समास का कथन है । वीयालीस पांचौं थावर के और नौ विकलत्रय के इक्यावन जीव समास थावर विकलत्रय के जानने । ऊपरले कवित विषैं कहे हैं सो देखि लेना और इक्यावन विषैं बाकी और मिलाइ अट्याणवैं जीव समास कहै हैं ।

दोय भेद एक पर्याप्ता दूसरा अपर्याप्ता । गर्भज विषैं अलब्ध पर्याप्ता होता नांही तातैं दोय भेद रहे ।

और सम्मूर्छननि विषैं तीनों भेद हैं पर्याप्त, अपर्याप्त अलब्धपर्याप्त ए तीनों भेद हैं । दोय गर्भज, तीन सन्मूर्छन ए पांचौं सैनी भी होय हैं । और ए ही पांचौं असैनी भी होय हैं । ए दौन्यौं ठौर के दश भेद भए । मच्छ आदि जलचारी दश, गो आदि थलचारी दश भेद. आकाशविषैं गमन करै, उडै सो नभचर तिनके भी भेद दश । अर भोगभूमिविषैं जलचारी जीव नाहीं होइ और जीव होइ सो भी गर्भज होइ तातैं दोय भेद । भूचर पर्याप्ता अपर्याप्ता ए दोय भेद । आकाशगामी पर्याप्ता अपर्याप्ता ए दोय भेद । ए सब चौंतीस जीवसमास पंचेंद्री तिर्यचके भए । कर्मभूमिके तीस, भोगभूमिके च्यारि, दोय भेद नारकीनिके, एक अपर्याप्त, एक पर्याप्त, और दोय भेद देवके एक पर्याप्त अपर्याप्त । देव नारकीनिभोगभूमियांनि विषैं अलब्ध पर्याप्ता होता नांही । और मनुष्य नव प्रकार है । तिसका विशेष आगैं

कहिए हैं । भोगभूमि का मनुष्य पर्याप्त अपर्याप्त, कुभोगभूमिया मनुष्य पर्याप्त अपर्याप्त, म्लेच्छखंडनि के मनुष्य पर्याप्त अपर्याप्त इस भांति छह भेद कहे । अर्थात् भोगभूमि के भेद दोय, कुभोगभूमि के भेद दोय, म्लेच्छभूमि के भेद दोय । और आर्यखंड विषै मनुष्यनि के तीन भेद हैं पर्याप्त, अपर्याप्त, अलब्ध पर्याप्त ए मनुष्यनि के नौ भेद जानने । बीयालीस भेद थावर के, नौ विकलत्रय के, चौतीस पंचेंद्री तिर्यच के, दोय भेद नारकीनि के, दोय भेद देवनिके, नौभेद मनुष्यनिके । ए सब अख्याणवै जीव समास भए । इन परि दयाभाव करै सो ही साधक कहिए दयावान कहावै है ।

— साढे सैंतीस हजार प्रमादों के भेद —

छप्पय

विकथारूप पचीस और पनवीस कषायनि ।  
 गुनतैं छस्सै सवा, पांच इंद्री मनसों गुनि ॥  
 पौने च्यारि हजार, पांच निद्रा सों गुनिए ।  
 सहस पौन उनईस, नेह अरु मोह सूं सुनिए ॥  
 साढे सैंतीस हजार सब, भेद प्रमाद प्रमानिए ।  
 छट्टे गुनथानक लों कहे, त्याग आप थिर ठानिए । ४३



पहले गुणस्थान तैं लेकै छठे प्रमत्त गुणस्थान ताई प्रमाद के साढे सैंतीस हजार भेद हैं । सो तिन प्रमादोंका कथन विशेषरूप नष्टोदिष्ट करि जंत्र बांधि गोम्मटसारजी आदि विषैं जहां छठा गुणस्थान का कथन कीया है तहा प्रमादों का कथन कहा है सो देखि लेना । इहाँ तौ तिनका नाममात्र कथन गिनती करै है । ते प्रमाद के भेद सारे साढा सैंतीस हजार हैं । विकथा पचीस हैं सो इन पचीस विकथानिकूँ पचीस कषायनितैं गुणों सवा छहसैं भेद भए । ए सवा छहसैं पाचों इंद्री अरु छठे मनसों गुनिये तब पौणा च्यारि हजार भेद भए । ए पौना च्यारि हजार पाँच निद्रानि सों गुनिए तब पौणा उगणीस हजार भेद भए । ते पौणा उगणीस हजार भेद स्नेह मोह इन दोऊनि सों गुणिए, तब साढा सैंतीस हजार प्रमाद के भेद भए । साढे सैंतीस हजार है सो इस भांति इनका विशेष देखि लेना । सो ए प्रमाद छठे गुणस्थान ताई पाईए हैं । सो छठा गुणस्थानका नाम प्रमत्त है । तातैं तहाँ ताई प्रमाद पाईए है, आगै अंशमात्र भी प्रमाद न पाईए है । अैसे प्रमादनिनैं त्यागि कै अपनी आत्मा विषैं स्थिरीभूत होय तातैं संसार का भ्रमण मिटै, अरु मोक्ष का सुख पाईए ।

महामेरुगिरि कूँ ग्यारासैं इकईस जोजन छोडिकै

अटार्ईद्वीप मध्य जितना ज्योतिष मंडल है सो धूके तारौं  
विना अनादि कालते मेरूके चौगिरद भ्रमे हैं । तिनके उदय  
भूपरि तलै ते व्यौरा कथन । अंतर सबका ज्योतिष मंडल  
एक सौ दश योजन की मोटाई मांहि है ताका व्यौरा ॥

— ज्योतिष मंडल की ऊँचाई —

छप्पय

सात सतक अरु नवै,  
तासुपर तारे राजें ।  
ता ऊपर दस भान,  
असी पर चन्द्र विराजें ॥  
च्यारि नखत बुध च्यारि,  
तीनि पर सुक्र बनायौ ।  
तीनि गुरु कुज तीनि,  
तीनि पर सनि ठहरायौ ॥  
इमि नवसै जोजन भूमि तें,  
जोतिष चक्र बखानिए ।  
इकसौ दस जोजन गगन में,  
फैलि रह्यौ परमानिए ॥४४॥

## साढा सैंतीस हजार प्रमाद के भेदनि का

० स्नेह	० निद्रा	० स्वर्गन	० कौ क्रोध	१ स्त्री कथा
१८७५० मोह	३७५० निद्रानि	६२५ रसन	२५ अ० मान	२ भोजन "
	७५०० प्रबला	१२५० द्राण	५० अ० माया	३ राज "
	११२५० प्रबलाप्र	१८७५ चञ्जु	७५ अ० लोभ	४ देश "
	१५००० स्थानगृहि	२५०० श्रोत्र	१०० अ० माया	५ चोर "
		३१२५ मन	१२५ अ० मान	६ वरकथा
			१५० अ० माया	७ परपालंड
			१७५ अ० लोभ	८ देश
			२०० प्र० क्रोध	९ भाषा
			२२५ प्र० मान	१० गुणबंध
			२५० प्र० माया ।	११ देवी
			२७५ प्र० लोभ	१२ निष्ठुर
			३०० सं० क्रोध	१३ परपैशून्य
			३२५ सं० मान	१४ कन्-र्ष

बुदा बुदा क्यावने का विधान का-यंत्र गूढ

१५	वेशकालानु०
१६	भंड
१७	मूर्त्ति
१८	आत्म प्रशंसा
१९	परपरिवाद्
२०	परजुगुप्सा
२१	परपीढा
२२	कलह
२३	परिग्रह
२४	कृष्याद्यंभ
२५	संगीत बंध

३५०	सं० माया
३७५	लोभ
४००	हास्य
४२५	रति
४५०	अरति
४७५	शोक
५००	भय
५२५	जुगुप्सा
५५०	तनु सक
५७५	स्त्री वेद
६००	पु० वेद

## द्वितीय अपेक्षा प्रमाद के भेद सादा सैतिस

१ स्नेह	२ मोह
० निद्रा	० निद्रा
२ निद्रानिद्रा	२ निद्रानिद्रा
४ प्रचला	४ प्रचला
६ प्र० प्र०	६ प्र० प्र०
८ स्यात्तु०	८ स्यात्तु०
० स्वर्शन	० स्वर्शन
१० रसन	१० रसन
२० झाण	२० झाण
३० चञ्चु	३० चञ्चु
४० ओत्र	४० ओत्र
५० मन	५० मन
० अ क्रोध	० अ क्रोध
६० अ मान	६० अ मान
१२० अ माया	१२० अ माया
१८० अ लोभ	१८० अ लोभ
२४० अ प्र. क्रोध	२४० अ प्र. क्रोध
३०० अ प्र मान	३०० अ प्र मान
३६० अ प्र. माया	३६० अ प्र. माया
४२० अ प्र. लोभ	४२० अ प्र. लोभ
४८० प्र क्रोध	४८० प्र क्रोध
५४० प्र मान	५४० प्र मान
६०० प्र माया	६०० प्र माया
६६० प्र लोभ	६६० प्र लोभ
७२० सं क्रोध	७२० सं क्रोध
७८० सं मान	७८० सं मान
० लो	० लो
१५०० अर्थ	१५०० अर्थ
३००० भोजन	३००० भोजन
४५०० राज	४५०० राज
६००० चोर	६००० चोर
७५०० वैर	७५०० वैर
९००० परपाखंड	९००० परपाखंड
१०५०० देश	१०५०० देश
१२००० भाषा	१२००० भाषा
१३५०० गुण बंध	१३५०० गुण बंध
१५००० देवी	१५००० देवी
१६५०० निन्दुर	१६५०० निन्दुर
१८००० परपैशून्व	१८००० परपैशून्व
१९५०० कर्षण	१९५०० कर्षण

हजार तिनके न्यावने का गूढ यंत्र

२१०००	देशकाला- नुचित	८४०	सं मायङ्
२२५००	भंड	६००	संलोभ
२४०००	मूर्ख	६६०	हास्य
२५५००	आत्म-	१०२०	रति
२७०००	अशांसा	१०८०	अरति
२८५००	परपरि-		
	वाद्		
३००००	परबु-	११४०	शोक
	गुप्सा		
३१५००	परपीडा	१२००	भय
३३०००	कलह	१२६०	जुगुप्सा
३४५००	परिमह	१३३०	न. वेद
	कृष्या-	१३८०	खी वेद
	द्यारंभ		
३६०००	संगीत-	१४४०	पुरुष वेद
	बंध		

भद्रसाल वनतैं सात सैं निवै योजन ऊपरि जाइ कैं तारैनि का पटल है । ते तारैं मेरू तैं ग्यारासैं इकईस योजन छोडिकैं धौरै धौरै फिरैं हैं, भ्रमै हैं । तिन तारानि तैं दश योजन ऊपरि सूर्य हैं । तिस सूर्य तैं अस्सी योजन ऊपरि चंद्रमानि का पटल है । तिस चंद्रमा तैं च्यारि योजन ऊपरि नक्षत्रों के विमान विराजै हैं । नक्षत्रनि तैं च्यारि योजन ऊपरि बुद्ध का विमान है । तिस बुद्ध के विमाननि तैं तीन योजन ऊपरि शुक्र का विमान विराजै है । तिस शुक्र के विमान तैं तीन योजन ऊपरि गुरु कहिए बृहस्पति का विमान विराजै है ।

तिस बृहस्पति का विमान तैं तीन योजन ऊपरि कुज कहिएमंगल का विमान विराजै है । तिस मंगल के विमान तैं ऊपरि तीन योजन जाइ शनैश्चर के विमान विराजै हैं । या भांति जोड़ी हुई सब नौसे योजन की ऊंचाई मांहि भया । यह कथन त्रिलोकसार वा लोक प्रज्ञप्ति विषैं देखि लेनां, उहाँ विशेष कहा है । सो जमीं तैं सात सैं निवै योजन तांड्रै एक शून्य आकास ही है । ता ऊपरि एक सौ दश योजन की मोटाई विषैं ज्योतिष मंडल फ़ैलि रहा है । सो अनादि का सास्वता है, अपने ही आधार है, यह जानना ।

ज्योतिष चक्र ऊँचाई  
योजन प्रमाण ११०

१	तारा	७६०
२	सूर्य	८००
३	चन्द्रमा	८८०
४	नक्षत्र	८८४
५	बुध	८८८
६	शुक्र	८९१
७	बृहस्पति	८९४
८	मंगल	८९७
९	शनिश्चर	९००

— गुणस्थानों का गमनागमन —

छप्पय

मिथ्या मारग च्यारि, तीनि चउ पांच सात भनि ।

दुतिय एक मिथ्यात, तृतिय चौथा पहला गनि ॥

अब्रतमारग पांच, तीनि दो एक सात पन ।

पंचम पंच सुसात, चार तिय दोय एक भन ॥

छट्टे षट इक पंचम अधिक,

सात आठ नव दस सुनौ ।

तिय अध ऊरध चौथे मरन,

ग्यार बार बिन दो मुनौ ॥ ५५ ॥



अब मिथ्यात्वगुण स्थान तैं लेइ उपशम मोह ग्यारमां गुणस्थान ताई ग्यारै गुणस्थान उपशमी के हैं सो किहि मारग आवै जावै तिसका समुच्चय कथन है । मिथ्यात्व गुणस्थान के मार्ग च्यारि हैं ते कौन कौन ? कोई जीव मिथ्यात्व तैं निकसि तीसरे मिश्र गुणस्थान जाइ । कोई जीव मिथ्यात्व तैं निकसि चौथे अव्रत गुणस्थान जाइ । कोई जीव मिथ्यात्व तैं निकसि पांचवें देशव्रत गुणस्थान जाइ । कई जीव मिथ्यात्व तैं निकसि सातवें अप्रमत्त गुणस्थान जाइ । ए मिथ्यात्व मार्ग जानिये ।

दूसरा सासादन गुणस्थान का एक मार्ग है । सासादन तैं पडे तब एक मिथ्यात्व गुणस्थान विषै जाइ, और ठौर नांही जाय, यह नियम है । तीसरा मिश्र गुणस्थान का दोय मार्ग है । मिश्र तैं ऊपरि चढै तो चौथे गुणस्थान जाइ, और मिश्र तैं तलै पडे तो मिथ्यात्व गुणस्थान विषै आवै, ए दोय मार्ग मिश्र गुणस्थान के हैं । चौथा अव्रत गुणस्थान का पांच मार्ग हैं । चौथे गुणस्थान तैं तलै पडै तो तीसरे गुणस्थान आवै अथवा दूसरे गुणस्थान आवै वा पहले मिथ्यात्व गुणस्थान विषै आवै, ए तीन तो पडिवे के हैं, अर चौथे तैं ऊपरि चढैं तो सातमें गुणस्थान जाइ, वा पांचमें देशव्रत गुणस्थान जाइ, ए दोय चढिवे के हैं । अैसे अव्रत के ५ मार्ग जानने ।

पांचमा देशत्रत गुणस्थान के पांच मार्ग हैं। पांचमें गुण-स्थान तै ऊपरि चढै तौ सातमें गुणस्थान अप्रमत्तविषै जाइ। और पांचमें तै तलै पडै तो चौथे गुणस्थान आवै वा तीसरे गुणस्थान आवै वा दूसरे गुणस्थान आवै वा पहिले गुणस्थान आवै। ए च्यारि पडिवे के हैं। अैसे पांचमां देशत्रत गुणस्थान के पांच मार्ग जानने। छठा प्रमत्त गुणस्थान का छह मार्ग हैं। छठे तै ऊपरि चढै तो सातमें गुणस्थान जाइ और पडै तौ छठे तै पांचमें गुणस्थान जाइ, वा चौथे गुणस्थान जाइ वा तीसरै गुण-स्थान जाइ वा दूसरै गुणस्थान जाइ वा मिथ्यात्व पहिले गुणस्थान विषै जाइ, ए पडिवे के पांच। अैसे छठे के छह मार्ग जानने। सातमां अप्रमत्त गुणस्थान, आठमा अपूर्व-करणगुणस्थान, नवमां अनिवृत्तिकरण गुणस्थान, दशमां सूक्ष्मसांपराय गुणस्थान ए च्यारि गुणस्थान उपशम श्रेणी के हैं। तिनका विशेष कथन है सो अब सुनौं। सांतमां आठमा नवमां दशमां इन च्यारौं गुणस्थान की तीन तीन चाल है। तलै पडै तो एक एक गुणस्थान अनुक्रम तै उतरै, और ऊपरि चढै तो एक एक गुण-स्थान अनुक्रम तै चढै और जो मरण करै तो चौथे गुणस्थान के परिणाम हो जाइ, तब अत्रत रूप कार्माण निकसि देवसति विषै ले जाइ यह नियम है। ए तीन



तीन मार्ग जानने । और ग्यारमां उपशांत कषाय गुण-  
स्थान तिसके मार्ग दीय, पडै तौ दशमें सूक्ष्मसांपराय  
गुणस्थान विषैं आत्रै और मरै तौ चौथे गुणस्थान दे व  
अत्रती होइ । यह उपशम की दीय चाल कही, इहाँ बाहिर  
नहीं जाय । यह नियम है ।

चौबीस तीर्थकरों के शरीर का वर्ण

छापय

पहुपदंत प्रभुचंद्र, चंद्र सम सेत विराजै ।  
पारसनाथ सुपास, हरित पन्नामय छाजै ॥  
वासुपूज्य अरु पदम, रक्त माणिक दुति सोहै ।  
मुनिसुव्रत अरु नेमि, स्याम सुन्दर मन मोहै ॥  
बाकी सोलै कंचन वरन, यह विवहार शरीर थुत ।  
निहचै अरूप चेतन विमल, दरस ज्ञान चरित्त जुत ४ ६

अब चौबीस तीर्थकरों के व्यवहार के शरीरों का  
वर्ण विशेष कहिए है । पुष्पदंत तीर्थकर नवमां, चंद्रप्रभु  
तीर्थकर आठमां, इन दोनों के शरीर का वर्ण चंद्रमा  
समान श्वेत उज्ज्वल वर्ण है । पारसनाथ तेवीसमां तीर्थ-  
कर, सुपारसनाथ सातमां तीर्थकर इन दोन्यों के शरीर  
का वर्ण हरित पन्ना के रंग समान सोहे है । वासुपूज्य  
बारमां तीर्थकर अरु पद्मप्रभु छठा तीर्थकर इन दोन्यों के

शरीर का वर्ण पद्मरागमणि समान लाल वर्ण सोहै है ।  
मुनिसुव्रतनाथ बीसमां तीर्थकर अरु नेमिनाथ बाईसमां  
तीर्थकर इन दोन्यों के शरीर का इन्द्रनीलमणि समान  
स्याम वर्ण है । अतिशोभायमान है ।

बाकी सोलह तीर्थकर वृषभदेव, अजितनाथ, संभव-  
नाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ,  
विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शान्तिनाथ, कुंथनाथ,  
अरनाथ, मल्लिनाथ, नमिनाथ, वीरनाथ इन सोलहों  
के शरीर का वर्ण सोला वानी के सुवर्ण समान है ।  
यह व्यवहारिक शरीर का वर्णन कीया स्तुति, करी ।  
निश्चय नयकरिके आत्म स्वरूपी है, चैतन्यमयी है, पंच  
वर्णानिते रहित अरूपी अतिनिर्मल है । कर्ममल ते रहित  
सुद्ध है । बहुरि कैसा है आत्मा, क्षायिकदर्शन, क्षायिकज्ञान,  
स्वरूपाचरण, क्षायिकचारित्र इन करि संजुक्त है, निश्चय  
रत्नत्रय करि विराजमान है ।

—:गोमटसार का आदि नमस्कार अष्टक सूचकः—

छापय

वंदों नेमिजिनंद, नमों चौबीस जिनेसुर ।  
महावीर वंदामि, वंदि सब सिद्ध महेसुर ॥  
सुद्ध जीव प्रणमामि, पंचपद प्रणमों सुख अति ।  
गोमटसार नमामि, नेमिचंद आचारज निति ॥

जिन सिद्ध सुद्ध अकलंक वर,  
 गुण मणिभूषण उदयधर ।  
 कहुँ बीस परूपन भावसों,  
 यह मंगल सब विघनहर ॥ ४७ ॥

अर्थ—आगैं गोमटसारजी की आदि विषैं नमस्कार कीया है, सो आठ वार कीया है । तिन आठों का नाम कथन है । नेमिनाथ वाईसमां तीर्थकर नैं नमस्कार मेरा होऊ । चौबीस तीर्थकर नैं मेरा नमस्कार होऊ । महावीर स्वामी नैं मेरा नमस्कार है । सब अनंते सिद्धों ने मेरा नमस्कार है । ज्ञानमयी शुद्ध जीवनैं मेरा नमस्कार है । पंचपरमेष्ठीनिनैं मेरा नमस्कार है । ए महासुख दाई है । गोमटसार ग्रंथ नैं मेरा नमस्कार हैं । नेमिचंद्र आचार्य नैं मेरा नमस्कार है । अह आठ ठौर नमस्कार है ।

जिन है, सुद्ध है, सिद्ध है, अकलंक है, वर विशिष्ट है । ए सब विशेषण आठों ठौर मिलाय लेनें और गुन, जे गुन तेही भए रतनमयी ज्वाभूषण, तिनकरि कै दैदीप्यमान हैं । इन आठों ने नमस्कार करिकै बीस प्ररूपणा नैं नेमिचन्द्र आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ति नैं भावनि सौ कही है । इन आठों ठौर नमस्कार महामंगलकारी है, विघनों का हरने वाला है ।

—:षट्त्रिंशति मंगलः—

नमहुँ नाम अरिहंत, थुनहु जिनिबिंब कलिलहर ।  
परमौदारिक दिव्य बिंब, निर्वाण अवनिपर ॥  
कहौं कल्याणककाल, भजहु केवल गुणज्ञायक ।  
यह षट्त्रिंशति निच्छेप, महामंगल वरदायक ॥

मंगल दुभेद मल जाय गल,  
मंगल सुख लहै जीयरा ।  
यह आदि मध्य परजंतलौं,  
मंगल राखौ हीयरा ॥ ४८ ॥

मं कहिए पाप ताहि गालै नाश करै सो  
मंगल कहिए । वा मंग कहिए सुख ताहि देवै सो मंगल  
कहिए—कल्याण । सो छह प्रकार है । तिन मंगलनि का  
अर्थ विशेष रूप त्रिलोक प्रज्ञप्ति के आदि विषै कहा है सो  
तहां देखि लेना, इहाँ नाममात्र कहा है ।

प्रथम अर्हत देव का नाम लेना सो यह महामंगल  
है, ऐसे अर्हतदेवकूँ मेरा नमस्कार । मैं नमस्कार करूँहूँ,  
पूजौं हौं, ध्याऊं हौं, बंदौं हौं । बहुरि जिनेश्वर देव की  
प्रतिमांनि की भक्ति करौहौं । कैसी है प्रतिमा, कलिल जो  
पाप ताकी हरनहारी है, नाश करनहारी है, महामंगल

कारी है। बहुरि अर्हतदेव का परमौदारिक शरीर उज्ज्वल महानिर्मल समवशरन वा गंधकुटी विषै विराजमान सो महामंगलकारी है।

जहां तैं केवली भगवान निर्वाण गए सो पृथ्वी निर्वाण भूमि कैलाश, सम्मेदाचल, चंपापुर, पावापुर, गिरनार गिरि इत्यादि महामंगलकारी हैं। जिनेन्द्र भगवान के पाचौं गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण, ए कल्याणकाल महामंगल कारी हैं। केवलज्ञाननै स्मरण करौं। सो केवल ज्ञान सब लोक अलोक षटद्रव्यनिके समस्त गुण पर्यायनि का जानन हारा है, सो महामंगलकारी है। यह छह प्रकार मंगल है, तिसकी स्थापनां प्रथम कीजे। यह महामंगल की करनहारी है, महावरदाई है, महाविघन की हरनहारी है।

मं कहिए मैल सो दोय प्रकार है, एक अंतरका एक बाहरी का। अैसे दोय प्रकार मैल सब गलि जाय। बहुरि मंगल कहिए कल्याण-सुख, सो जीव पावै महासुखी होइ। यह छह प्रकार मंगल ग्रन्थ की आदि, मध्य अर अंत विषै राखों, छह प्रकारका मंगल हिरदाविषै राखौ जातै निर्विघ्न कारिज होई, विघन कोई पडे नाहीं, ग्रंथ की समाप्ति सुख सो होइ। सो मंगल धारना जानना।



—पाँच प्ररूपणा चौदह मार्गणामें गर्भित हैं तिनका कथन—

सवैया इकतीसा

जीव समास परजापत मन वच स्वास,  
 इंद्रिकायमाहिं आव गतिमें बखानिए ।  
 कायबल जोगमाहिं इंद्रि पाँच ग्यानमांहि,  
 आहार परिग्रह ए लोभमें प्रवानिए ॥  
 क्रोध मांहि भय अरु वेदमांहि मैथुन है,  
 ग्यान ग्यानमांहि दर्शदर्शमांहि जानिए ।  
 पाँचों परूपणा ए चौदह में गर्भित हैं,  
 गुनथान मारगना दोय भेद मानिए ॥ ४६ ॥

अर्थ—जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग ए पाँच प्ररूपणा चौदह मार्गणानि के मध्य गर्भित भई हैं। ते किस भांति गर्भित भई हैं तिनका नाम मात्र कथन है। और इनका विशेष कथन गोमटसार तै जानना। जीवसमास सर्व १४, पर्यापत ६, मनप्राण, वचन प्राण, सासोस्वास, इंद्रिय मार्गणा विषै या सर्वकायमार्गणा विषै गर्भित हैं। आयु गति विषै गर्भित है, गतिमार्गणा विषै आयु आ गई और काय प्राण जोग मार्गणा विषै गर्भित भई और पाँचों इंद्रि प्राण गर्भित हैं। आहारक संज्ञा और परिग्रह संज्ञा ए

दोन्यूँ संज्ञा लोभ कषाय विषै गर्भित भई है सौँ जानना ।  
 भय संज्ञा क्रोध विषै गर्भित भई है । और मैधुनसंज्ञा वेद  
 मार्गणा विषै गर्भित भई है । ज्ञानोपयोग ज्ञानमार्गणा  
 विषै गर्भित भया है । दर्शनोपयोग दर्शनमार्गणा विषै  
 गर्भित भया है । ए पांचों प्ररूपणा चौदह मार्गणानि विषै  
 गर्भित देखि लेनां । इनका विशेष गोमटसारजी विषै बहुत  
 कहा है सो वहां तैं जानि लेना और सामान्य पणै ए भेद  
 दोय हैं एक गुणस्थान, दूजा मार्गणास्थान । ए दोय भेद  
 जानने ।

— बारह प्रसिद्ध पुरुषों के नाम —

छन्दय

बन्दौं पारसनाथ, नमौं बल रामचन्द वर ।  
 कामदेव हनुमन्त, प्रकट रावन मानी नर ।  
 दानेस्वर श्रेयांस, शीलमें सीता नामी ।  
 तप बाहूवलि नाम, भाव भरतेस्वर स्वामी ॥  
 जगमहादेवहै रुद्रपद, कृष्णनाम हरि जानिए ।  
 'द्यानत'कुलकरमेंनाभिनृप, भीमवलीभुजमानिए ५०

अब बारह पुरुष जगतविषै नामी भए प्रसिद्ध  
 भए तिनके नाम—चौबीस तीर्थङ्करनि विषै पार्श्वनाथ स्वामी  
 प्रसिद्ध भए । नौ बलभद्रनिविषै आठमां रामचन्द्र नामी

भयं विख्यात भये और चौबीस कामदेवनि विषैं हनुमान नामी भए विख्यात भए । मानी पुरुषनि विषैं आठवां प्रतिनारायण रावण विख्यात भया, प्रसिद्ध भया । दाता-रनिविषैं हस्तिनागपुर का राजा श्रेयांस विख्यात भया प्रसिद्ध भया । श लत्रत के पालिवे विषैं पतिव्रतानि विषैं मुख्य सीता सती नामी भई, प्रसिद्ध भई । तप विषैं बाहुवलि नामी भए, प्रसिद्ध भए, वर्ष पर्यन्त कायोत्सर्ग एकासन खरै रहै । भावनि की निर्मलता विषैं आदीश्वर के पुत्र भरत-चक्रवर्ति विख्यात भए, जिननै अन्तर्मुहूर्त कालविषैं केवल-ज्ञान उपजाया । ग्यारहवां महादेव नामां रुद्र जगत विषैं विख्यात भया, पार्वती कथ प्रसिद्ध भया । नौ नारायण विषैं कृष्णनामां नवमां नारायण विख्यात भया प्रसिद्ध भया । द्यानतराय कहै हैं अब चौदह कुलकरनि विषैं नाभिराज विख्यात भया, यह चौदहवां कुलकर है । जलके फौरनै विषैं भीमवली भुजबल का धारी विख्यात भया ।

— सम्पूर्ण द्वीप समुद्रों के चन्द्रमाओं की गिनती —

॥ सवैया इकतीसा ॥

जंबूद्वीप दोय लवणांबुधि में च्यारि चंद्र,  
धातखंड वारै कालोदधि वियालीस हैं ।

पुष्कर के भाग दोय ईधर बहत्तरि हैं,  
ऊधै वारै सै चौसठि भाखे जगदीस हैं ।  
पुष्कर जलधिसार दो सत ग्यारै हजार,  
आगें आगें चौगुने बखाने जगदीस हैं ।  
जेते लाख तेते बले दूने दूने अधिके हैं,  
सबमें असंख चौत्यालै वंदित मुनीश हैं॥५१॥

अब सर्व द्वीप समुद्रानि गिनतीनि विषैं  
चन्द्रमां की गिनती नाममात्र इहां है । इनका विशेष  
त्रिलोकसारजी विषैं कहा है । जम्बूद्वीप विषैं दोय चन्द्रमा  
हैं । लवणांबुधि विषैं च्यारि चन्द्रमा हैं, लवणोदधि कै  
बीचि है । धातकी खण्ड विषैं बारह चन्द्रमां हैं । कालो  
दधि विषैं बीयालीस चन्द्रमा है । पुष्कर द्वीप के बीचि  
मानुषोत्तर पर्वत पड्या है तातैं पुष्कर द्वीप के दोय भाग  
भये । तहाँ उरले भाग विषैं बहत्तरि चन्द्रमा हैं । परले भाग  
विषैं वारा सै चौसठि चन्द्रमा हैं । इस भांति जगदीश्वर  
भगवान चौबीस तीर्थङ्करों ने कहा है । पुष्कर समुद्रका  
मान बलयाकार, तहां ग्यारह हजार दो सौ चन्द्रमा हैं ।  
तिसतैं आगै आगै द्वीप समुद्रानि विषैं चौगुने चौगुने  
चन्द्रमा जानने । सो इस भांति जगदीश भगवान नैं कहा  
है । सो श्रद्धान करना । सब असंख्यात द्वीप समुद्रानि कै

## सर्व द्वीप समुद्रनि के चन्द्रमा आदि ज्योतिषीनि के संख्या जानिबे का यंत्र

नाम	चंद्र गु	सूर्य गु	ग्रह गु	नक्षत्र गु	गु	नारा प्रकीर्णक	
अंबू द्वीप	२	१	२	१	१७६	१	१३३६५० कोडा कोडी
लबण समुद्र	२	२	२	१	१७६	२	१३३६५० "
धातुकी खंड	२	६	२	६	१७६	६	१३३६५० "
कालोदधि	२	२१	२	२१	१७६	२१	१३३६५० "
पुष्कर द्वीप	२	३६	२	३६	१७६	३६	१३३६५० "
उधर	२	६३२	२	६३२	१७६	६३२	१३३६५० "
पुष्कर समुद्र	२	५६००	२	५६००	१७६	५६००	१३३६५० "
समस्त जोड	२	६२६८	२	६२६८	१७६	६२६८	१३३६५० "
गुणकर जोड							

बीचि चूडी कै आकार असंख्यात चन्द्रमानिका पटल विराजै  
है ते दूने दूने अधिके हैं । तिन सब असंख्यात चन्द्रमानि  
के विमाननि विषै असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय हैं  
तिनकौं मुनिजन त्रिकाल बंदै हैं, पूजै हैं ध्यावै हैं, स्तवै हैं ।

— अधोलोक के चैत्यालयों की संख्या —

( कवित्त ३१ मात्रा )

चौसठि लाख असुर जिन मन्दिर,  
लाख चौरासी नाग कुमार ।  
हेम कुमार सुलाख बहत्तरि,  
छह विध लाख छिहन्तर धार ॥  
लाख छानवै वातकुमार,  
पताललोक भावन दस सार ।  
सात कोरि सब लाख बहत्तरि,  
चैत्याले बन्दों सुखकार ॥५२॥

अर्थ—अब दश प्रकार भवनवासी देव अधोलोक  
विषै तिनके भवनानि विषै चैत्यालयानि की संख्या मात्र  
कथन ७७२०००००० करिये है । असुरकुमार देवनि के  
भवननि विषै चौसठि लाख जिनमन्दिर हैं । नागकुमार  
देवतानि के चौरासी लाख जिनमन्दिर हैं । हेमकुमार

देवतानि के बहत्तरि लाख जिनमंदिर हैं । और इनके आभै छह प्रकार देव विद्युत्कुमार, अग्निकुमार, मेघकुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार, दिक्कुमार इन विषै प्रत्येक छिहं-तरिलाखर चैत्यालय हैं । और पवनकुमार देवतानि के भवननि विषै छिनवै लाख जिनमन्दिर हैं । या प्रकार पाताललोक विषै दश प्रकार भवनवासी देवता के चैत्यालय हैं । ते सब चैत्यालय सात कोडि अर बहत्तरिलाख भए । ते अकृत्रिम एक सौ आठ जिन प्रतिमानि करि महा रमणीक परम पूज्य हैं । तिनहूँ में त्रिकाल बन्दों हों, पूजों हों, मुमरौ हों, ते महासुखकारी हैं ।

आगें मध्यलोक के चैत्यालयनि का कथन । ते च्यारि सै अठावन अकृत्रिल चैत्यालय हैं ।

— मध्यलोक के चैत्यालय —

छप्पय

पंचमेरुके असी असी वच्चार विराजै ।

गजदंतनपै बीस, तीस कुलपर्वत छाजै ॥

सौ रुत्तर वैतार धार, कुरुभूमि दसोत्तर,

इष्वाकार पहार, चार चव मानुषोत्र पर ॥

नंदीसुर वावनि रुचिकमें, चारचार कुंडलसिखर ।

इम मध्यलोकमें चारिसै, ठावन बन्दों विघनहरा ॥ ३

अटाई द्वीप विषैं पांच मेरु संबन्धी असी जिन मन्दिर हैं। और वक्षार पर्वतोपरि अस्सी चैत्यालय विराजमान हैं। पांचौं मेरु के बीस गजदन्त पर्वत तिन पै बीस चैत्यालय विराजमान हैं। एक मेरु संबन्धी छह कुलाचल, सो पांच मेरु सम्बन्धी तीस कुलाचलनिपै तीस जिनालय विराजमान हैं। एकसौ सत्तरि विजयाद्धर्पर्वतनि परि एक सौ सत्तरि जिन मंदिर हैं।

अटाई द्वीप के मध्य दश उत्कृष्ट भोगभूमि हैं, तिन विषैं दस वृक्ष हैं, तिन परि सास्वते एक एक जिनमंदिर है। इष्वाकार पर्वत पै च्यारि जिन मंदिर हैं। मानुपोत्तर पर्वत परि च्यारि चैत्यालय हैं। नन्दीश्वर द्वीपविषैं बावन चैत्यालय हैं। ते बावन पर्वतनि परि एक दिशाविषैं तेरा हैं। चारों दिशानि के बावन चैत्यालय हैं। रुचक द्वीप विषैं चारि चैत्यालय हैं ते चैत्यालय रुचकगिरि के शिखरपरि हैं। कुण्डलद्वीपविषैं कुण्डलगिरि नामा पर्वत है, ताके शिखरनि परि च्यारि जिन मन्दिर हैं। या प्रकार मध्यलोक विषैं च्यारिसै अठावन जिनमंदिर विराजमान हैं। एक एक चैत्यालय विषैं एक सौ आठ जिन प्रतिमा हैं।

तिनकूं में बंदौहों, कौसी है प्रतिमा वा चैत्यालय विघननि के नाशकरन हारे हैं।



—:उर्ध्वलोक के अकृत्रिम चैत्यालयः—

सवैया इकतीसा

प्रथम बतीस दूजें अट्ठाईस तीजें बारै,  
 चौथें आठ पांचें छठें चार लाख ख्यात हैं ।  
 सातें आठमें पचास नौमें दसमें चालीस,  
 ग्यारें बारें छै हजार चारों सत सात हैं ।  
 अधो एक सत ग्यारै मध्य एक सत सात,  
 ऊरध इक्यानु नव नवोत्तरें जात हैं ।  
 पंचोत्तर चवरासी लाख सत्तानू हजार,  
 तेईस चैत्यालै सब बन्दों अघघात हैं ॥५४॥

अब सौधर्म स्वर्गतें लेकरि सर्वार्थसिद्धि पर्यंत  
 उर्ध्वलोक विषै जिनमंदिर कथनः—प्रथम सौधर्म स्वर्ग  
 विषै बतीस लाख चैत्यालय हैं । दूजा ईशान कुमार स्वर्ग  
 विषै अट्ठाईस लाख चैत्यालय हैं । तीजे सनत्कुमार विषै  
 बारा लाख चैत्यालय हैं । चौथा माहेन्द्र स्वर्ग विषै आठ  
 लाख चैत्यालय हैं । पांचमा, छठा, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्ग  
 विषै च्यारि लाख चैत्यालय विख्यात हैं । सातमाँ आठमाँ  
 लांतवक्कापिष्ट स्वर्ग विषै पचास हजार चैत्यालय  
 विराजमान हैं । नवमाँ दशमाँ शुक्र महाशुक्र स्वर्ग विषै  
 चालीस हजार चैत्यालय विराजमान हैं । ग्यारमाँ बारमाँ

शतारसहस्रार स्वर्ग विषै छह हजार चैत्यालय  
विराजमान हैं ।

### तीन लोक के अकृत्रिम जिन मंदिरनि की संख्या

उर्ध्व लोक	मध्यलोक	अधोलोक
३२००००० सौधर्म	संख्या नाम	संख्या नाम
२०००००० ईशान	८० मेरु	६४००००० असुर कु
१२००००० सनत्कु	८० बत्तार	८४००००० नाग कु
८००००० माहेन्द्र	२० गजदंत	७२००००० हेम कु
४००००० ब्रह्म ब्रह्मोत्तर	३० कुला	७६००००० विद्युत
४००००० लांतव कापिष्ट	१७० विजया	७६००००० अग्नि
४००००० शुक्र महाशुक्र	१० भोगभूमि	६६००००० पवन कु
६०००० सतारसहस्रार	४ इष्वाकार	७६००००० मेघ कु
७००० आनत प्रा आ अ	४ मानुषो	७६००००० उदधि
१११ अधोमै	५२ नंदीश्वर	७६००००० द्वीप कु
१०७ मध्यमै	४ कुडंल	७६००००० दिक्कु
६१ उर्ध्वमै	४ रुचक	० ०
६ नव अनुदिश	० ०	० ०
५ पंचानुत्तर	० ०	० ०
८४६७०२३ उर्ध्व	४५८ मध्य	७७२००००० अधो

तीनों लोक के कुल ८५६६७४८१

तेरमा चौदहमां पंद्रमां सौलमां इन च्यारि स्वर्ग आनत,  
 प्राणत, आरण, अच्युत, इन विषै सात सै चैत्यालय है ।  
 अधोग्रैवेयक विषै एक सौ ग्यारा चैत्यालय विराजमान  
 मध्यम ग्रैवेयक विषै एक सौ सात चैत्यालय विराजमान  
 हैं । उद्ग्रैवेयक विषै इक्यानवै चैत्यालय विराजमान हैं ।  
 तिनके ऊपरि नव अनुदिश विमान तिन विषै नव चैत्यालय  
 विराजमान हैं । तिन ऊपरि पांच पंचोत्तरनि विषै पांचचैत्यालय  
 विराजमान हैं । ए सोला स्वर्गनि के चौरासी लाख छिनवें  
 हजार सातसै, नवाग्रैवेयकनि के ३०६, नव अनुदिश के  
 ६, पंच अनुत्तर के ५, ए सब चौरासी लाख, सित्याणवें  
 हजार तेईस चैत्यालय भए । ते कैसे हैं चैत्यालय, सास्वते  
 हैं उत्कृष्ट, हैं एक एक चैत्यालय विषै एक सौ आठ एक  
 सौ आठ रतनमई जिन प्रतिमा विराजमान हैं । तिन  
 सबनि कौं में बंदों हों, पूजों हों, ध्यावों हों, तातै सब पाप  
 का नाश होइ ।

— सौधर्म इन्द्र की सेना की गणना —

इन्द्रसेन सात हाथी घोरे रथ प्यादे बैल,  
 गंधरव नृत्य सात सात परकार हैं ।  
 आदि चौरासीहजार आगै षट दूने दूने,  
 एक कोरि छै लाख अडसठ हजार हैं ।

एते गज तेते तेते छह भेद सबके ते,  
सात कोरि छियालीस लाख निरधार हैं ।  
सहस छिहत्तर हैं औ एक अवतार न्योग,  
पुन्य कर्म भोग भोगि मोक्ष कौं सिधार हैं । ५५

अब सौधर्म इन्द्र की सेना सात प्रकार है तिनकी गिणती:—एक एक सेना विषैं सात सात कक्ष हैं मव सेना ७४६७६००० हैं। इन्द्रनिकै सेनासात प्रकार ही हैं ते कौन २ प्रकार है । गान विद्या विषैं प्रवीण देवेनि के समूह, नृत्यकारिणी देवीनि का समूह, सो सात प्रकार सेना है सो एक एक सेना विषैं सात सात कक्ष हैं । तहाँ पहली सेना हाथिन की है । सो पहली सेना विषैं हाथी चौरासी हजार हैं आगैं छह ठिकानेनि विषैं हाथी दुगण २ जानने । सातौं कक्षनि के सर्व हाथी एक कोडि छह लाख अड़सठि हजार भये । जितने पहली सेना के हाथी भए तितनी संख्या बाकी छहाँ सेना की जाननी । सात २ कक्ष महित सब सातौं सेना के कितने भए:—सब सातौं सेना के जोड़ दीए सात कोडि छियालीस लाख छिहत्तर हजार भए । सौधर्म इन्द्र का मात्र एक अवतार धारण करिबाको नियोग है । अर्थान् पुण्योदयसे प्राप्त महान वैभव को भोगकरि तहां तै च्युत होय मनुष जन्म पाय मोक्ष सिधारे है ।

एकेन्द्री तैं सैनी पर्यंत जीवनि के इन्द्रियों के विषय की सीमा

छापय

फरस चारिसै धनुष, असैनीलों दुगुना गनि ।  
रसना चौसठि धनुष, घ्रान सौ तेइन्द्री भनि॥  
चख जोजन उनतीस, सतक चौवन परवानो ।  
कान आठसै धनुष, सुनै सेनी सो जानो ॥

नव जोजन घ्रान रसना फरस,  
कान दुवादस जोजना ।

चख सैंतालीस सहस दुसै,  
तेसठि देखै जिन भना ॥५६॥

अब एकेन्द्री आदि संज्ञी पंचेन्द्री पर्यन्त जीवनि के स्पर्शनादि कर्ण पर्यन्त पांच इन्द्रियनि के उत्कृष्ट विषयनि का जुदा जुदा व्यांग का नाम मात्र कथन—

एकेन्द्री जीव के एक स्पर्शन इन्द्रिय है ताका उत्कृष्ट विषय एकेन्द्री के स्पर्श का विषय च्यारि सै धनुष का है । अपने शरीर तैं च्यारिसै धनुष ताईं पृथ्वी के विषै विषयकूँ स्पर्श है । अर स्पर्शन इन्द्रिय का विषयादि आंर इन्द्रियनि का विषय असैनी पंचेन्द्री तक

दृगुणां २ जानना । बे इन्द्री जीविन के स्पर्शन इन्द्रिय का आठसै धनुष का है, अर रसना इन्द्रिय का विषय उत्कृष्ट चौसठि धनुष को है । स्पर्शन विषय धनुष ८००, रसना विषय धनुष ६४ ।

अर तेइन्द्री जीविन कै नाशिका का उत्कृष्ट विषय सौव धनुष का है । तिनही तेइन्द्री जीविन के स्पर्श का विषय सोलासै धनुष का है । रसना का विषय एकसौ अठाइस धनुष का है । स्पर्श, १६००, रसना १२८, घ्राण १०० । चौइन्द्री जीविन कै नेत्र इन्द्रिय का विषय उत्कृष्ट गुणतीस सै चौवन योजन का है । तिनही चौइन्द्री जीविन कै स्पर्श का विषय धनुष ३२००, रसना का विषय दोयसै छप्पन धनुष, अर नाशिका इन्द्रिय का विषय दोयसै धनुष का है । स्पर्श, ३२००, रसना २५६, घ्राण २००, चक्षु योजन २६५४ । असैनी पंचेद्री काननितै उत्कृष्ट आठसै धनुष ताई की सुगँ हैं । या असैनी के स्पर्श, धनुष ६४००, रसना धनुष ५१२, घ्राण विषय धनुष ४००, चक्षु विषय योजन गुणसठि सै आठ, कर्ण इन्द्रिय विषय धनुष आठसै । सैनी पंचेद्री जीव कै उत्कृष्ट नाशिका का विषय नौ योजन का है, नौ योजन ताई की सुगंध की नाशिका तै जाणै । अर जिह्वा इंद्री स्पर्शन इन्द्री कर्णइन्द्री का उत्कृष्ट विषयनि का जानपणां बारा बारा योजन का है ।

अर सैनी जीव नेत्र इंद्रि तै उत्कृष्ट देखै तौ सैता लीस हजार दोय से तरेसठि जोजन ताई देखै, सैनी जीवनि विषै उत्कृष्ट इंद्रियनि का विषय चक्रवर्ती कै, और सामान्य जीवनि कै नांही हो है। स्पर्श योजन १२, रसना १२, घ्राण योजन ६, चक्षु योजन ४७२६३, कर्ण योजन १२ यह विषयनि का निरूपण जिनेंद्र भगवान नैं जिनागम विषै कहा है सो श्रद्धान करना ।

### पांचौं इंद्रियनी के उत्कृष्ट विषयनि का यंत्र

नाम	स्पर्श	रसना	घ्राणा	चक्षु	श्रोत्र
एकेंद्री	घ. ०४००	०	०	०	०
वेइन्द्री	घ. ०५०००	घ. ६४	०	०	०
तेइन्द्री	घ. १६००	घ. १२८	घ. १००	०	०
चौइन्द्री	घ. ३२००	घ. २५६	घ. २००	यो ६६५४	०
असैनी	घ. ६४००	घ. ५१२	घ. ४००	यो. ५६०८	घ. ८००
सैनी पं०	योजन १२	यो ६	यो ६	यो ४७२६३	यो १२

केवली समुद्धात करते हैं तब उनके कौन २ योग होते हैं ?

सवैया इकतीसा

पहलैं समैमै करें दड आठ मै संवरै,  
परदेस आतम औदारिक प्रमानिए ।  
दूसरैं कपाट होय सातमैं संवरै सोय,

संवरेँ प्रतर छठे मिश्र जोग जानिए ।  
 तीसरेँ प्रतर, चौथेँ पूरत सरव लोक,  
 पूरन संवरेँ पांचेँ कारमान मानिए ।  
 आठ समै मांहि जात केवल समुदघात ।  
 निर्जरा असंख्य गुनी देव सो बखानिए ॥५७॥

अब जे केवली भगवान चौदमां गुणस्थान विषेँ केवल समुद्रात करै ते विषेँ क्रिया होय कौन कौन से जोग पाईए तिनका नाम मात्र कथन ।

जिन मुनीश्वरोँ के आयु के छह महीनां बाकी रहे पीछेँ केवलज्ञान उपज्या ते ते नियम थकी समुद्रात करे ही । अर जिन के छह महीना की आयु पहली केवलज्ञान उपज्या ते समुद्रात करै भी अर नांही भी करै, करणे का सर्वथा नियम नांही ।

चौदमां गुणस्थान के अंत आठ समय बाकी रहि जाय तब आयु कर्म की स्थिति समान और तीन कर्मनि की स्थिति होने के लिए आत्मा का प्रदेश शरीर के बाहरि निकसै, तहां पहले समय दंडवत् होय । याका नाम दंड कहिए । सो ए दंडरूप हुए प्रदेश आठमें समय विषेँ संवरेँ है, सिमटै है । तहां पहले समय दंड, आठवें समय



दंड संवरण, तहां औदारिक काययोग जानना । और दूसरे समय विषै कपाट कहिए किवाड रूप प्रदेश फैले, विस्तरै, सो कपाट रूप प्रदेश सातमें समय विषै संवरै, संकोचरूप होइ । और प्रतररूप जे तीसरे समय के प्रदेश, ते छठे समय विषै संवरै, संकोचरूप होइ । दूसरा, सातमां, छठा इन तीनों समयनि विषै औदारिक मिश्रयोग पाईए तीसरे समय विषै प्रतररूप प्रदेश फैले । जैसे दूध की बिलोवनी रई का फूल चौरस है तिस रूप प्रदेश फैले और चौथे समय विषै प्रतररूप आत्म प्रदेश तीन लोक विषै सर्वत्र विस्तरे, सर्व जायगां फैले । सो पांचवे समय विषै लोकपूरन रूप प्रदेश संवरै, संकोचरूप होइ । तीसरे, चौथे पांचमें इन तीनों समयनि विषै कार्माण योग पाईए । या प्रकार आठ समयनि विषै केवलज्ञानी केवलसमुद्घात करे तब तीनों कर्मनि की थिति आयु समान होइ । जो समय केवली समुद्घात विषै आठ समयमें दंडादि यंत्र

करण				संवरण			
दंड	कपाट	प्रतर	लोकपूर्ण	लोकपूर्ण	प्रतर	कपाट	दंड
स १	स २	स ३	स ४	स ५	स ६	स ७	स ८
औदा० काय	औदा० मिश्र	कार्माण योग	कार्माण योग	कार्माण योग	मिश्र योग	औदा० मिश्र	औदा० काय

समय निर्जरा होय थी तातैं तिससमय असंख्यात गुणी  
निर्जरा भई, असंख्यात गुनी निजरा होइ । ऐसे केवलज्ञानी  
देवाधिदेव कहिए सब देवनि के शिरोमणि देव हैं ।

—: मिथ्याती की मुक्ति न हो सम्यक्त्वी की हो :-

एक समैमाहिं एकसमैपरबद्ध बंधै,

एक समै एकसमैपरबद्ध भरै है ।

वर्गना जघन्यमें अभव्य सों अनंतगुनी,

उत्किष्ट सिद्ध कौ अनंतभाग धरै है ॥

जैसें एक गास खाय सात धात होय जाय,

तैसें एक सातकर्मरूप अनुसरै है ।

यों न लहै मोख कोइ जाके उर ग्यान होइ,

एकसमै बहु खोइ सोइ सिव वरै है ॥ ५८ ॥

अब जब ताई मिथ्यात परिणाम वतैं तब ताई  
कर्मनि तैं न छूटै । और जब सम्यक् परिणाम वतैं तब  
कर्मनि तैं छूटै, मुक्त होइ—ऐसा समयप्रबद्ध का कथन ।

समय समय बंधे सो समय प्रबद्ध है । किसी एक  
मिथ्यादृष्टिं एक समय विषै अनंती वर्गणा ग्रही, बांधी ।  
मिथ्यात्व परिणामनि के बल करिकैं जितनी एक पहले

समय विषैँ वर्गना बांधी थी सो वैँ वर्गना दूसरैँ समय विषैँ आधी खिरी । इस भांति द्वयद्धुँ गुणहानि करि समैँ मांहि आधी आधी खिरैँ और मिध्यात के बल करि समय समय विषैँ अनंती बांधैँ इस भांति जानना । सर्व समय प्रबद्ध की वर्गना एक समय विषैँ बांधी सो गिनती की नांही बांधी । सो गिनती मांहि कितनी है ? जघन्यता करिकैँ तौ वर्गनां अभव्य राशि तैँ अनन्तगुनी है । अभव्य जीव जघन्य युक्कानन्त प्रमाण है । तिनतैँ भी अनंतगुनी है । अनंत के अनंत भेद हैं । और वर्गना उत्कृष्टता करि सिद्धनि कैँ अनंतवैँ भाग हैं । इस भांति गोमट्टसारजी विषैँ गिनती कही है और भाषा कर्मकांड विषैँ हेमराजजी कहैँ है । दृष्टांत आदि:—

जैसे कोई एक निरोगी पुरुष सच्चिक अन्न का एक गास खाय जब पचैँ सो ही गास हाड, चाम, मांस, नाडी, मज्जा, शुक्र, सोणित, ए सात धात रूप होय । यह दृष्टांत चौबीस टाणा की टीका विषैँ कहा है । तैँसें पुद्रल वर्गनां जीवनेँ ग्रही तब आयु कर्म विनां सात कर्मरूप समान अंश परनई । यह समय प्रबद्ध का कथन गोमट्टसारजी के अंत विषैँ विशेषरूप कहा है सो देखि लेना । समय समय बंधैँ घनी और भरैँ थोड़ी । याही तैँ जीव मोत्तनेँ पावता नांही । टोटा बहुत नफा थोड़ा । और जा जीव कैँ हृहय विषैँ भेद

विज्ञान होय सो जीव भेद विज्ञान के बल करिकै समय  
समय कर्म थोड़ा बांधै तिसतैं समय समय अनंतगुणां  
क्षपावै, अथवा सो भेद विज्ञानी सम्यग्दृष्टि आत्मा भेद-  
विज्ञान करिकै अनंते भवनि विषै बांधै कर्म एक समय विषै  
क्षपावै है। सो ही सम्यग्दृष्टि जीव मोक्षकूं वरै है पावै है।

— आठ कर्मों के आठ दृष्टान्त —

देवपे परयो है पट रूपकौ न ज्ञान होय,  
जैसे दरवान भूप-देखनौ निवारै है।  
सहत लपेटी असिधारा सुखदुखकाग,  
मदिरा ज्यों जीवनिकों मोहनी बिथारै है।  
काठमें दिया है पांव करै थितिको सुभाव,  
चित्रकार नाना नाम चित्रकौ समारै है।  
चक्री ऊँच नीच घरै भूप दीयौ मनै करै,  
एई आठ कर्म हरै सोई हमें तारै है ॥५६॥

अब आठों कर्मनि के कारिज विषै व्यवहार करि  
आठ दृष्टान्त कथन।

आठों कर्मनि परि जुदा जुदा दृष्टान्त जुदे २ कारिज  
कहै हैं। जैसे देव कहिए प्रतिमा तापरि वस्त्र डारिये तब  
दिखलाई न दे, तैसें ज्ञानावरणी कर्म नै आत्मा का ज्ञान

गुण आच्छादित करि राख्या है । सो ज्ञानगुण के खुले बिना जानने का अभाव है । ज्ञानगुण का आवरण मिटै तब ही पदार्थनि का यथावत् जानना होई । जैसे दरवाजे का दरवान वा चौपदार राजा पास जाने न देए, राजा का दर्शन न होने दे, तैसे दर्शनावरणी कर्म दर्शन गुण को प्रकट न होने दे । दर्शन बिना पदार्थनि का यथावत् देखने का अभाव है । जैसे सहद खांडे की धारा कै लपेटिए, सो सहद के आस्वाद मात्र लोभतै खांडा जीभ परि धरै तो मीठा लागै, सुख लगै, फेरि जीभनै काटि दोय टूक करै, तब महादुख होय । तैसे वेदनीय कर्म जो उटै आवै तब सुख दुख रूप होइ जाय, सुखमांहि आपनै सुखी मानै दुख माह आपनै दुखी मानै । सुख थोरा, दुख बहुत, वह वेदनी है । जैसे मदिरा पिए तै बावला होइ जाय, गहिला होइ जाय, सुग्त कछु रहै नांही, तैसे मोहनी कर्म के उदय जीव मोह विषै मतवाले समान बहकै है, कछू समझै नांही । जैसे चोर का काठ विषै पांव दीजै और गाढी बेडी सांकल पडै तौ कहीं जाय सकै नांही, तैसे आयु कर्म जब आगली आयु बांध ले तब जीवनें इहां तै निकलने दे, विना बांधै निकलने दे नाहीं । पहलै पांव काठ विषै ठोक दे तब निकलने देय, यह नियम है । जैसे चित्रकार जो चनेरो सो नाना भांति का चित्राम करै

तैसैं नाम कर्म के उदय जीव एकेन्द्री आदि नाना प्रकार की गतिनि विषैं भ्रमण करै है, चौरासी लाख जीवा की जोनि विषैं नाना प्रकार के नाम धरावै है । जैसे कुम्भकार नाना प्रकार के छोटे बडे बासन बनावै है, तैसे गोत्रकर्म । ऊंच नीच कुलविषैं जीव का उपजना करै है । जैसे राजा तो देय, अर भंडारी आदि कोई मनै करै तैसे आठमां अन्तराय कर्म के उदै जीवनें कारिज विषैं अन्तराय पडि जाय, कारिज न होय, मतलब न होय । तैसैं आठौं कर्मनि नै मारै घात करै । सो हमारे ताईं संसार समुद्रके पार उतारि कैं मोक्ष के सुख देवै तातैं हमारा नमस्कार है । ऐसे आठ कर्म के जीतने हारे सिद्ध अनन्ते हैं ।

-- चौदह गुणस्थानों में सत्तावन आस्रव --

पचपन अरु पचास तेतालिस,  
छथालिस सैतिस चौविस जान ।

बाइस बाइस सोलह दस अरु  
नव नव सात अंत न बखान ।

चौदैं गुणथानकमें इह विध,  
आस्रवद्वार कहे भगवान ।

मूल चार उत्तर सत्तावन,  
नाम करौ धरि संवरज्ञान ॥६०॥

पांच मिथ्यात, बारह अत्रत, पचीस कषाय, पन्द्रा जोग ए सत्तावन कर्म के आवने की मोरी है, परनाली है । इन सत्तावनों का चौदह गुणस्थाननि परि जुदा जुदा व्यौरा का कथन । इनका नाम आश्रव त्रिभंगी है तिनका नाम मात्र कथन करिये है ।

पहला गुणस्थान विषै पचपन का आश्रव है, अहारक द्विक विना । मासादन विषै पचास का आश्रव है, पाँच मिथ्यात आहारक द्विक विना ।

मिश्र विषै तीयालीस का आश्रव है, चार अनन्ता-नुबन्धी, तीन मिश्र, पांच मिथ्यात, दो आहारक विना ।

अत्रत विषै छीयालीस का आश्रव है, ऊपरके ४३ विषै तीन मिश्र मिले ४६ भये ।

देश.विरत विषै सैंतीस का आश्रव है—ऊपरके ४६ में से कषाय ४, जोग ४, त्रसवध १ ए नव घटे ३७ भये । प्रमत्त विषै चौबीस का आश्रव है—कषाय तेरह, जोग नौ आहारक दो । सातमें विषै २२ का आश्रव है—कषाय १३ जोग नव । आठमें विषै ए ही सातमें के कहे बाईस जानने । नवमें विषै १६ आश्रव है । नव जोग, चार संज्वलन तथा तीन वेद । दसमें विषै १० आश्रव, नव, जोग, एक सूक्ष्मलोभकषाय । ग्यारमें विषै केवल नवयोग का आश्रव । बारमें विषै भी नव जोग । तेरमें विषै जोग ७

चौदह गुणस्थाननि विषै आश्रव सत्तावन का यंत्र

गुणस्थाननि विषै आश्रव सत्तावन का यंत्र		मूल आश्रव ४
गुणस्थ	मि सा मि अ दे प्र अ अ अ अ १ २ ३ ४ ५ ६ सू ३ ली स अ	मि अ क जो
आश्रव	५५ ५० ४३ ४६ ३७ २४ २२ २२ १६ १५ १४ १३ १२ ११ १० ६ ७ ०	५ १२ २५ १५
अनाश्रव	२ ७ १४ ११ २० ३३ ३५ ३५ ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ५० ५५	१ ५ १० १३
व्युत्थिति	५ ४ ० ७ १५ २ ० ६ १ १ १ १ १ १ १ १ ० ४ ७ ०	१ १ १ १



का आश्रव है काय ३ वचन २ मन २ ए सात । चौदहमें गुणस्थान विषै कोई भी आश्रव नाही । चौदहमां धाम अजोगी कहिए । अबंध जानना । चौदह गुणस्थान विषै याँ प्रकार इस भांति ५५ । ५० । ४३ । ४६ । ३७ २४ । २२ । २२ । १६ । १० । ६ । ६।७।० कर्मनि के आवने का द्वार दरवाजे मोरी भगवान अर्हतदेव नैं कहै हैं । इनका विशेष त्रिभंगीसार तैं देखि लेना, सरधान करना । तहाँ मूल आश्रव के भेद च्यारिः—मिथ्यात्व १, अव्रत १, कषाय १, जोग १, ए च्यारि मूल भेद हैं । तिनके उत्तर भेद सत्तावन हैं—मिथ्यात्व ५, अव्रत १२, कषाय २५, जोग १५, ए सत्तावन । सो इन सत्तावन आश्रवनि का सम्यग्ज्ञान केवल करि नाश करौ । ए ही संसार भ्रमण के कारण हैं ।

-: चौदह गुणस्थानों में १२० प्रकृतियों का बन्ध :-

इकसौ सतरै एक एकसौ,

चौहत्तर सतहत्तर मान ।

सतसठ तेसठ उनसठ ठावन,

बाईस सतरै दसमैं थान ॥

ग्यारम बारम तेरम साता,

एक बंध नहिं अंत निदान ।

सब गुणस्थानक बंधें प्रकृति इम,

निहचें आप अबंध पिछानि ॥६१॥

अब बंधप्रकृति एक सौ बीस तिनका चौदह गुण-स्थाननि विषै कथन । बाईस एक सौ बीसनि विषै गर्भित हैं ।

पहला मिथ्यात्व गुणस्थान विषै एक सौ सतरा का बन्ध है । आहारक द्विक, और तीर्थङ्कर इन तीन विना । सासा दन दूजा गुणस्थान विषै एक सौ एक प्रकृति का बन्ध है । तीसरा गुणस्थान मिश्र विषै चौहत्तरि प्रकृतिनि का बन्ध है । चौथा अत्रत गुणस्थान विषै सतहत्तरि प्रकृतिनि का बन्ध है । पाँचमां देशत्रत गुणस्थान विषै सडसठि प्रकृतिनि का बन्ध है । छटा प्रमत्त गुणस्थान विषै त्रेसठि प्रकृतिनि का बन्ध है । अप्रमत्त सातमां गुणस्थान विषै गुणसठि प्रकृतिनि का बन्ध है । आठमां अपूर्वकरण गुण-स्थानविषै अठावन प्रकृति का बन्ध है । नवमा अनिवृत्ति करण विषै बाईस का बन्ध है । दशमा सूक्ष्मसांपराय गुणस्थान विषै सतरा प्रकृतिनि का बन्ध है । ग्यारमां उपशांत कषाय गुणस्थान, बारहमां क्षीणमोह गुणस्थान, तेरहवां सयोग केवली गुणस्थान इन तीनों गुणस्थाननि विषै एक साता प्रकृति जो साता वेदनी ताका बन्ध है । चौदहवां अजोग केवली गुणस्थान विषै बन्ध ही नाही ।

## बंध प्रकृति १२० की गुणस्थान चौदह विधे रचना यंत्र

गुणस्थान	मि	सा	मि	अ	दे	प्र	अ	अ	अ	सू	उ	ली	स	अ
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
बंध	११७	१०१	७४	७७	६७	६३	५६	५८	२२	१७	१	१	१	०
अबंध	३	१६	४६	४३	५३	५७	६१	६२	६८	१०३	११६	११६	११६	१२०
व्युत्पत्ति	१६	२५	०	१०	४	६	१	३६	५	१६	०	०	१	०

यह जानना । या भाँति सर्वगुणस्थाननि विषैँ एक सौ बीस प्रकृति बन्ध की, तिनका यथा संभव व्याख्यान किया, जहाँ जहाँ जेती जेती प्रकृतिनि का बन्ध पाइए सो कथन कीया । अर ज्ञानदृष्टि जो निश्चय नय ताकरि देखिए तब अपनी आत्मा बन्ध रहित अबन्ध पिछानना जानना । बन्ध अबन्ध, व्युद्धित्त इन तीनों का समुदाय कथन तिसका नाम त्रिभंगी कहिए । या भाँति विशेष त्रिभंगी सार तैँ जानना ।

— चौदह गुणस्थानों में १२२ प्रकृतियों का उदय —

इक सौ सतरै इक सौ ग्यारै,

सौ अरु सौ, चौ सत्तासीय ।

इक्यासी ऋहत्तरि बेहत्तरि,

छयासठ अरु साठ उदीय ॥

उनसठ सत्तावन व्यालिस अरु,

बारै प्रकृति उदै है जीव ।

चौदे गुणस्थानक की रचना,

उदयभिन्न तुव सिद्ध सुकीय ॥६२॥

अब उदयप्रकृति एकसौ बाईस तिनका चौदह गुणस्थान विषैँ त्रिभंगी कथन ।

पहला मिथ्यात्व गुणस्थान विषैँ एकसौ सतरा प्रकृ-

तिनि का उदय है । दूजा सासादन गुणस्थान विषैँ एक सौ ग्यारा प्रकृतिनि का उदय है । तीसरैँ गुणस्थान मिश्र विषैँ एक सौ प्रकृतिनि का उदय है । चौथा अत्रत गुणस्थान विषैँ एक सौ च्यारि प्रकृतिनि का उदय है । पांचमां देशव्रत गुणस्थान विषैँ सित्यासी प्रकृतिनि का उदय है । छठा प्रमत्तगुणस्थान विषैँ इक्यासी प्रकृतिनि का उदय है । सातमां अप्रत्त गुणस्थान विषैँ छिहन्तर प्रकृतिनिका उदय है । आठमां अपूर्वकरण गुणस्थान विषैँ बहत्तरि प्रकृतिनि का उदय है । नवमां अनिष्टत्तिकरण गुणस्थान विषैँ छ्यासठि प्रकृतिनि का उदय है । दसमां सूचमसांपराय गुणस्थानविषैँ साठि प्रकृतिनि का उदय है । ग्यारमां उपशांतमोह गुणस्थान विषैँ गुणसठि प्रकृतिनि का उदय है । बारमां क्षीणमोह गुणस्थानविषैँ सत्तावेन प्रकृतिनि का उदय है । तेरमां सयोगकेवली गुणस्थान विषैँ वियालीस प्रकृतिनि का उदय है । चौदहमा अयोग केवली गुणस्थान विषैँ बारा प्रकृतिनि का उदय है । या भांति चौदह गुणस्थाननि की रचना एक सौ बाईस प्रकृतिनि परि उदयरूप जानना । ऐसे उदयरूप कर्मनि तैँ निश्चयनय करि तू भिन्न है, सिद्ध समान है । तेरा ज्ञान स्वभाव है कर्मनि का जड स्वभाव है । तातैँ तू कर्मनि तैँ भिन्न है जुदा है ।

## चौदह गुणस्थाननि विषे १२२ उदय प्रकृति का यंत्र

गुणस्थान	मि १ सा २ मि ३ अ ४ दे ५ प्र ६ अ ७ अ ८ अ ९ सू १० उ ११ ली १२ स १३ अ जो १४
उदय	११७ १११ १०० १०४ ८७ ८१ ७६ ७२ ६६ ६० ५६ ५७ ४२ १२
अनुदय	५ ११ २२ १८ ३५ ४१ ४६ ५० ५६ ६२ ६३ ६५ ८० ११०
व्युच्छिति	५ ६ १ १७ ८ ५ ४ ६ ६ १ २ १६ ३० १२

## चौदह गुणस्थाननि विषे उदीरणा प्रकृतिनि का यंत्र

( देखो आगे का खन्द ६३वाँ )

गुणस्थान	मि १ सा २ मि ३ अ ४ दे ५ प्र ६ अ ७ अ ८ अ ९ सू १० उ ११ ली १२ स १३ अ १४
उदीरणा	११७ १११ १०० १०४ ८७ ८१ ७३ ६६ ६३ ५७ ५६ ५४ ३६ ०
अनुदीरणा	५ ११ २२ १८ ३५ ४१ ४६ ५३ ५६ ६५ ६६ ६८ ८३ १२२
व्युच्छिति	१ ६ १ १७ ८ ४ ४ ६ ६ १ २ १६ ३६ ०

—चौदह गुणस्थानों में १२२ प्रकृतियों की उदीरणा—

इक सौ सतरें इक सौ ग्यारै,  
 सौ सौ चौ सत्तासी जान ।  
 इक्यासी तेहत्तरि उनहत्तरि,  
 तेसठि सत्तावन मान ।  
 छप्पन चौवन उनतालिस,  
 तेरमें अन्त नांही परवान ।  
 यह उदीरणा चौदैं थानक,  
 करै ज्ञानबल सो तू जान ॥६३॥

अब उदीरणा त्रिभंगी का एक सौ बाईस प्रकृतिनि परि कथन । जैसे आम का फलनै तोडि पाल विषै पकावै तैसे सत्तारूप कर्मनै जोरावरी तपतें खिपावै सो उदीरणा कहिए हैं ।

पहला मिथ्यात्व गुणस्थान विषै एक सौ सतरा प्रकृतिनि की उदयरूप उदीरणा है, सविपाक निर्जरा है । दूसरा सासादन गुणस्थान विषै एक सौ ग्यारा प्रकृतिनि की उदीरणा है । तीसरा मिश्रगुणस्थानविषै सौ प्रकृति की उदीरणा है । चौथा अविरत गुणस्थान विषै एक सौ च्यारि प्रकृतिनि की उदीरणा है । पांचवां देशव्रत गुण-

स्थान विषैँ सित्यासी प्रकृतिनि की उदीरणा है । छठा प्रमत्त गुणस्थान विषैँ इक्यासी प्रकृतिनि की उदीरणा है । सातमां अप्रमत्त गुणस्थानविषैँ तेहत्तरि प्रकृतिनि की उदीरणा है । आठमां अपूर्वकरण विषैँ गुणहत्तरि की उदीरणा है । नवमां अनिवृत्तिकरण गुणस्थान विषैँ त्रेसठि की उदीरणा है । दशमां सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान विषैँ सत्तावन प्रकृतिनि की उदीरणा है । ग्यारमां उपशान्त मोहविषैँ छप्पन की उदीरणा है । बारमां क्षीणमोह विषैँ चौवन की उदीरणा है । तेरमां सजोग केवली गुणस्थान विषैँ गुणतालीस प्रकृतिनि की उदीरणा है । अन्त का चौदमा अजोग केवली गुणस्थान विषैँ उदीरणा नाहीं है, यह नियम है । या भांति एक सौ बाईस प्रकृतिनि की उदीरणा चौदह गुणस्थाननि विषैँ करै, परन्तु सो उदीरणा सम्यग्ज्ञान के बल करिकै करै हैं । सो ज्ञानरूप सुज्ञानी सम्यग्ज्ञानी है । विशेष उदीरणा का कथन गोमट्टसारजी के कर्मकाण्ड विषैँ देखि लेना ।

चौदह गुणस्थानों में नाना जीवों की अपेक्षा १४८

प्रकृतियों की सत्ता ।

सवैया इकतीसा

पहलैँ सौ अड़ताल दूजे में सौ पेंताल,  
तीजे मांहि सौ सैंताल चौथे में अठतालसौ ।



पांचौं गुनसौ सैंताल छट्टौं सातौं आठौं नौमें,  
 दशमें ग्यारमें उपसमी है छयालसौ ।  
 आठौं नौमें सौ अडतीस दशमें इकसो दोय,  
 बारमें इकसौ एक आगें पंद्रै टाल सौ ।  
 तेरें चौदमें पिचासी सत्ता नास अविनासी,  
 नमौं लोक घन उरध राजू है सैंतालसौ । ६४।

अब सत्ता त्रिभंगी का कथन । कर्म बंध तैं जब ताईं  
 उदय न आवै तव ताईं सत्तारूप कहिए, सो प्रकृति एक  
 सौ अडतालीस हैं ।

प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान विषैं नाना जीवनि की  
 अपेक्षा एक सौ अडतालीस प्रकृतिनि की सत्ता पाइए है ।  
 दूजा सासादन गुणस्थानविषै एक सौ पैतालीस की सत्ता  
 नाना जीव अपेक्षा पाइए है । तीजा मिश्र गुणस्थान विषैं  
 नाना जीवनि की अपेक्षा एकसौ सैंतालीस प्रकृतिनि की  
 सत्ता पाइए है । चौथा अत्रत गुणस्थान विषैं नाना जीवनि  
 की अपेक्षा एक सौ अठतालीस प्रकृतिनि की सत्ता पाइए  
 है । पांचमा देशत्रत गुणस्थान विषैं नाना जीवनि की  
 अपेक्षा एक सौ सैंतालीस कर्म प्रकृतिनि की सत्ता पाइए  
 है । छठो प्रमत्त गुणस्थान ता विषैं, सातमो अप्रमत्तगुण-  
 स्थान ता विषैं, आठमों अपूर्वकरण गुणस्थान ता विषैं,

नवमों अनिवृत्तिकरण गुणस्थान ता विषै, दशमो सूक्ष्म-सांपराय गुणस्थान ता विषै, ग्यारमों उपशांत मोह गुणस्थान ता विषै, छठा प्रमत्त गुणस्थान से लेकर ग्यारमां उपशांत मोह तक छह गुणस्थान उपशमी के हैं। तिन विषै नाना जीव अपेक्षा एक सौ छीयालीस कर्मनि की प्रकृतिनि की सत्ता पाइए है। आठमा अपूर्वकरण गुणस्थान, नवमा अनिवृत्ति करण गुणस्थान इन विषै चायिक सम्यग्दृष्टि जीवनि कै नाना जीवनि की अपेक्षा करिकें एक सौ अठतीस प्रकृतिनि की सत्ता पाइए है।

दशमा सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थान विषै नाना जीव अपेक्षा क्षपक श्रेणी वाले मुनिराजनि कै एक सौ दोय कर्म प्रकृति सत्ता विषै पाइए। बारमा क्षीणमोह गुणस्थान विषै नाना जीवनि की अपेक्षा एक सौ एक प्रकृति सत्ता विषै पाइए हैं। आगें तेरमा सयोगकेवलीगुणस्थान विषै पिच्चासी कर्म प्रकृतिनि की सत्ता नाना जीव अपेक्षा पाइए है। अरु चौदहमा अयोगकेवली गुणस्थान विषै नाना जीव अपेक्षा उपांत समय तक पिच्चासी की सत्ता है, अंत का समय विषै तेरा प्रकृतिनि की सत्ता पाइए है। इस भांति पिच्चासी प्रकृतिनि की सत्ता का नाश करिकें अविनाशी मोक्ष का सुख अनंत अविनासी पाइए है।

मध्य लोक तें घनाकार ऊंचाई रूप एक सौ सैंतालीस



राजू का घनाकार लोक है, तिस लोक के अंत तनुवात बलय विषै अनंते सिद्ध तिष्ठै हैं, विराजै हैं । तिननै मेरा नमस्कार है । इस भांति सत्ता त्रिभंगी का कथन है, सो जानना । विशेष सत्ता का स्वरूप त्रिभंगीसार में वा गोमट्टसारजी तै जानना ।

—अन्तमुहूर्त के जन्म मरणों की संख्या—

भू जल पावक पौन साधारण पंच भेद,  
सूच्छम वादर दस परतेक ग्यारै हैं ।  
छै हजार बारै बारै जामन मरन धारै,  
वे ते चौ इंद्री असी साठ चालिस धार हैं ।  
चौइस पंचेंद्री सब छ्वासठ सहस तीन,  
सै छत्तीस, सौ सैंतोस तेहत्तर सार हैं ।  
छत्तीस सौ पचासी स्वास अधिक तांजा अंस,  
नमों नाथ मोहि सब दुख सौ उधार हैं ।६६॥

अब अलब्ध पर्याप्ता का कथन । जो लब्धि नहीं सो अलब्धि । जो जीव एक आहार पर्याप्ता भी पूरो न करै सो अलब्ध पर्याप्तक । तिस अलब्ध पर्याप्ता का जुदा जुदा व्यौरा कथन ।

भू कहिए पृथ्वीकाय जीव, जलकायिक जीव, पावक

कहिए अग्निकायक जीव, पवनकायिक जीव, साधारण वनस्पति कायिक जीव, ए सब पंच भेद । इनके भेद दश, ए ही पांच सूक्ष्म अर ए ही पांचौं वादर, औंसे दश भेद भए । सो दश भेद तौ ए पाईए और ग्यारमा भेद प्रत्येक वनस्पति का जानना । ए ग्यारह भेद एकेंद्री के जानने । सो ए ग्यारह स्थानक एकेंद्री जीवनि के । तिनके जुदे जुदे छह हजार वारा छह हजार वारा जामन मरण कषायनि की प्रचुरता ते धारन करै । सो निगोदिया अलब्ध पर्याप्ता अन्तमुहूर्त कालविषै ग्यारा और ठौर जाय कषायनि की प्रचुरता ते वे इंद्री, ते इंद्री, चौ इंद्री, इन विकलत्रय जीवनि के लुद्रभव, अनुक्रम ते वे इंद्री के अस्सी, ते इंद्री के साठि, चौ इंद्री के चालीस जामण मरण धारण करै । सो ए विकलयत्रय के एक सो अस्सी जामण मरण भए । पंचेंद्री जीव के जनम मरण चौबीस । अब इन समस्तनि कूं इकठे करिये तब एकेंद्री से लेय पंचेंद्री तक छयाछठि हजार तीनसें छतीस भए । एकेंद्री के छयाछठि हजार एक सौ बत्तीस, विकलत्रय के एक सौ अस्सी, पंचेंद्री के चौबीस, बालक न होय, वृद्ध न होय, खासी न होय, अन्तरसास न होय, धनवान होय, आलस्य रहित होय, नीरोगी होय, स्थिरता में सुख सूं बैठा होय ताके सैतीस से तेहत्तरि सासोसासनि का काल एक मुहूर्त प्रमाण है ।

अंतर्मुहूर्त काल विषे छयासठि हजार तीनसे छपीस बुद्रभव होइ, ताका यंत्र

नाम

एकेंद्री

विकलत्रय

पंचेंद्री

नाम	एकेंद्री	विकलत्रय	पंचेंद्री
पृथ्वीकाय	४००३	४००३	४००३
वा सू यो	४००३	४००३	४००३
जलकाय	४००३	४००३	४००३
सू वा यो	४००३	४००३	४००३
तेजकाय	४००३	४००३	४००३
सू वा यो	४००३	४००३	४००३
पवनकाय	४००३	४००३	४००३
सू वा यो	४००३	४००३	४००३
साधारण	४००३	४००३	४००३
वेइंद्री	४००३	४००३	४००३
तेइंद्री चौइंद्री	४००३	४००३	४००३
५६	४००३	४००३	४००३
५७	४००३	४००३	४००३
५८	४००३	४००३	४००३
५९	४००३	४००३	४००३
६०	४००३	४००३	४००३
६१	४००३	४००३	४००३

और छतीस से पिच्यासी सासोस्वास अर एक सास का तीसरा भाग इतना काल लगते क्षुद्रभवनि का भया । भावार्थ—बारा जामण मरण विषै एक सास काल लागै है । सो छयाछठि हजार तीनसै छतीस जन्म मरण विषै पूर्वोक्त छतीस सै पिच्यासी सास अर सास का तीसरा भाग अधिक, एता काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण भया । जो एक सास में बारह बार मरै जन्मै, एक भी पर्याप्ति पूरी न करे सो अलब्ध पर्याप्तक जीव कहिए । भो वीतराग देव त्रिलोकनाथ आपको मैं नमस्कार करूं हूँ । जैसे जन्म मरण रहित अविनाशी अवस्था कूं आप प्राप्त भए सो मोहि भी इन जन्म मरण के दुःखनिते उद्धारौ, निजात्मा का अविनाशी पद की प्राप्ति करों ।

— घातिया कर्मों की ४७ प्रकृतियां —

सवैया

मति श्रुत औधि मनपरजै केवलग्यान,  
 पंच आवरन ग्यानावरनी पंचभेद हैं ।  
 चक्खु औ अचक्खु औधि केवल दरस चारि,  
 आवरन चारि निद्रा निद्रानिद्रा खेद है ॥  
 प्रचला प्रचलाप्रचला थानगृद्धि नौ भेद,  
 दर्शनावरनी, मोह अठाईस भेद हैं ।

दान लाभ भोग उपभोग बल अन्तराय,  
पांच सब सैंतालीस घातिया निषेद हैं ॥६६॥

जे सर्वथा आत्मा के गुणनि कूँ घातै ते घातिया कहिए । तिन घातिया कर्मनि की प्रकृति सैंतालीस हैं । तिनका व्यौरा । मूल प्रकृति च्यारि, तहां ज्ञानावरण की पांच, दर्शनावरण की नव, मोहनीय की अठाईस, अन्तराय की ५, ए च्यारि घातियानि की सैंतालीस प्रकृति तिनके भेदनि का व्यौरा ।

मतिज्ञान नैं आवरै सो मतिज्ञानावरणीय । श्रुत ज्ञाननैं आछादन करै सो श्रुतज्ञानावरणीय । अवधि ज्ञान नैं आवरै सो अवधिज्ञानावरणीय । मनपर्यय ज्ञाननैं आछादन करै सो मनपर्ययज्ञानावरणीय । केवलज्ञान जो आत्मा का निजगुण ताहि आछादन करै सो केवल-ज्ञानावरणीय । ए पंच प्रकार आत्मगुण घाती पांच आवरणनितैं ज्ञानावरणीय कर्म पांच भेद है । ज्ञानावरण कर्म की पांच प्रकृति हैं । प्रकृति नाम स्वभाव का है । नेत्रनितैं पदार्थनि की देखने की शक्ति ताहि आवरै सो चक्षुदर्शनावरण । नेत्र इन्द्री विना और च्यार इन्द्रियनि तैं पदार्थनि का दर्शन पूर्वक जानने की शक्ति ताहि आवरै सो अचक्षु दर्शनावरण । अवधि करि देखने कूँ आवरै सो अवधि



दर्शनावरणीय । केवल दर्शन कूँ आवरै सो केवल दर्शनावरणीय । ए च्यारि दर्शन हैं तिनकूँ आच्छादित करै सो च्यारि भेद तौ ए है । आलस्य, खेद का दूर करणें का अर्थि सोबो सो निद्रा । निद्रा परि जागि जागि फिरि फिरि निद्रा को आवो सो निद्रानिद्रा । ए तौ खेद है खेद मेटने कै अर्थि हैं । अर जो मुख तैं लार पडै, निद्रा आवै सो प्रचला । जो चालता निद्रा आवै आँखि खुलै नहीं, लार पडै सो प्रचलाप्रचला कहिए । जो निद्रा विषै अशक्य कार्य करि लेवै, निद्रा दूर भये यदि न रहे सो स्त्यानगृद्धि निद्रा । ए दर्शनावरणीय कर्म की प्रकृतिनि के नव भेद हैं । मोहनीय कर्म के भेद अठारिस हैं । सो जुदे २ अगिला कवित्त में हैं । तहाँ भेद दोय दर्शन चारित्र । तहाँ चारित्र मोह का भेद दोय कषाय, नो कषाय । तहाँ कषाय के भेद च्यारि । फिरि एकैक के च्यारि, नो कषाय के हास्यादिक ६, वेद ३, दर्शनमोह ३ । देने की इच्छा दिया जाता नहीं सो दानांतराय । उद्यम करतैं भी लाभ नांही होय सो लाभांतराय । षट्स व्यंजनादि होते भी भोग्या न जाय सो भोगांतराय । शय्या, आसन, यान, वसन इत्यादि होतैं भां भोगी न जाय सो उपभोगांतराय । बलकारी के खाते तैं शक्ति न बढै, शरीर क्षीण रोगी रहिवो करै सो वीर्यांतराय । ऐसे

अंतराय कर्म के पाँच भेद हैं । ए सब सैंतालीस प्रकृति घातियांनि की, सो इनके घाततैं अनंत चतुष्टय जा देव अर्हत भगवान कै प्रगट भया ताकूँ मेरा बारंबार नमस्कार है ।

—: मोहनीय कर्म की २८ प्रकृतियाँ :—

अनंतानुबंधी औ अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी,  
संज्वलन चारों क्रोध मान माया लोभ हैं ।

हास्य रति अरति सोक भय जुगुप्सा,  
नारी नर षंढ पर्चास चारित को छोभ है ॥

मिथ्यात समै मिथ्यात समै प्रकृति मिथ्यात,  
तीनों दर्सनमोह दर्शन कौ चोभ है ।

अठार्ईस मोहनीय जीवनिकों मोहत हैं,  
नासै जथाख्यात सम्यक् छायाक सोभ है ॥६७॥

अब मोहनीय कर्म की अठार्ईस प्रकृति तिनका मात्र नाम कथन ।

अनन्त मसार कों अनुबंधनै कारण अनंतानुबंधी कषाय, संसार को नाशक जो सम्यग्दर्शन ताहि न होने दे, नरक निगोद को कारण है । और अप्रत्याख्यानी कषाय देश संयम न होने दे, सो तिर्यंच गति में ले जाय

इसका यह कारिज है । प्रत्याख्यानावरण कषाय महाव्रत न होने दे, अप्रमत्त गुणस्थान का परिणाम न होने दे । संज्वलन कषाय यथाख्यात चारित्र न होने दे सो देवगति में ले जाय । ए च्यारि कषाय के जुदे जुदै च्यारि भेद हैं । क्रोध स्वपर हिंसक परिणाम, विनय को घातक मान परिणाम, दगाबाज कपटाई लीया माया परिणाम, परिग्रह में आसक्त रूप लोभपरिणाम । अैसे कषायनि के च्यारि च्यारि मिलि सोला भेद भए । जाके उदै लोक हास्य करे सो हास्य प्रकृति है । परकौ देखि राग करै सो रति प्रकृति कहिए । जाके उदै परतैं द्वेष परिणाम होय सो अरति प्रकृति कहिए । जाके उदै सोक करे सो शोक प्रकृति कहिए । जाके उदै भय आवै सो भय प्रकृति कहिए । जाके उदै ग्लानि करे सो जुगुप्सा प्रकृति कहिए । पुरुष की अभिलाषा तैं स्त्री कहिए । स्त्री की अभिलाषा तैं पुरुष कहिए । दोन्यों की अभिलाषा तैं नपुंसक कहिए । ए पचीस कषाय चारित्र मोह की है । जातैं आत्मा को स्वरूपाचरण जो चरित्र गुण दोय प्रकार सम्यक्त्वाचरण, चारित्राचरण इन गुणनि कूं घातै है, आछादै है, ढांकै है । भूठ विपै साच माननां, औरनि कूं भूठा उपदेश देय बहकाना सो मिथ्यात्व । भूठ वा सांच एक एक रूप वा दोन्या रूप परिणाम होय सो सम्यमिथात्व कहिए । यह पोथी मेरी

है, यह मंदिर मेरा है, यह प्रतिमा मेरी है, तेरी यहाँ पूजा करौ, उहां न करौ, शान्तिनाथ सहाय करेंगे ऐसे परिणाम वरतै सो सम्यक्त्व प्रकृति कहिए । ए तीनों प्रकृति दर्शन मोह की है सो जानना । सो ए तीनों प्रकृति का उदय आत्मा को जो सम्यग्दर्शन गुण ताकूँ घातै है, आछादे है, ढांकै है । सोलह कषाय और नव नोकषाय और तीन मिथ्या व सब अठाईस प्रकृति मोह की जाननी । सो मोह कर्म के उदय करि सब संसारी जीव मोहित होय रहे हैं । मतवाले की नाई मुरति बिसरि जाय है । अर जो तिस मोह कर्म का नाश करै तौ यथाख्यात चारित्र और क्षायिक सम्यक्त्व साक्षान् प्रकट होय है । ऐसे गुण करिकें सोभाग्यमान होय हैं । मोह कर्म का या भांति कथन जानना ।

अघाती कर्मों की १०१ प्रकृतियां और आठ

कर्मों की जघन्य उत्कृष्ट स्थिति कथन ।

साता औ असाता दोय वेदनी नरक पशु,  
नर सुर आव च्यारि ऊँच नीच गोत है ।  
नाम की तिरानू एक सत एक अघातिया,  
आदि तीन अंतराय थिति तीस होत है ।  
नाम गोत बीस मोहनी सत्तरि कोराकोरी,

दधि आउकी सागर तेतीस उदोत है ।  
 वेदनी चौबीस घरी सोलै नाम गोत पांचों,  
 अंतर मुहूरत, विनासैं ग्यान जोत है ॥६८॥

अब अघातिया कर्म च्यारि तिनके नाम—वेदनी की २ आयु की ४, नामकी ६३, गोत्र की २ ए च्यारि कर्म की एक सौ एक प्रकृति अघातिया हैं । तिन प्रकृति के नाम संक्षेप मात्र १०१ तथा आठों कर्मनि की उत्कृष्ट जघन्य स्थिति का काल समुच्चय रूप व्याख्यान कथन कहिए है ।

सुख कौं वेदै सो साता कहिए । अर दुख कौं वेदै सो असाता कहिए । यह वेदनीय कर्म की दोय प्रकृति जाननी । नरक आयु, तिर्यञ्च आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, यह आयु कर्म च्यारि प्रकार जानना । ऊँच कुल विषै उपजै सो ऊँच गोत्र, नीच कुल विषै उपजै सो नीच गोत्र ऐसे गोत्र कर्म की दोय प्रकृति हैं । और नाम कर्म की तिराणवै प्रकृति हैं । ए च्यारों अघातिया कर्मनि की जोडी हुई प्रकृति एक सौ एक है । वेदनी २ आयु की ४ गोत्र २ नाम की ६३ । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, ए तीन कर्म अरु अन्तराय कर्म इन च्यारों कर्मनिका उत्कृष्ट स्थिति बन्ध तीस कोडाकोडी सागर प्रमाण हो है ।

नाम कर्म गोत्र कर्म इनका उत्कृष्ट स्थिति बन्ध बीस कोडा कोडी सागर का हो है । मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बन्ध सत्तरि कोडाकोडी सागर का हो है । आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर का स्थिति बन्ध होता है । वेदनीय कर्म का जघन्य स्थितिवन्ध चौबीस घरी का कहिए । बारह मुहूर्त्त का है । एक मुहूर्त्त की दोय घरी, तातैं चौबीस घरी कही है । नाम गोत्र कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध सोलह घरी का जो आठ मुहूर्त्त ताका है ।

बाकी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अन्तराय, आयु इन पांचौं कर्मनि का जघन्य स्थितिवन्ध अन्नमुहूर्त्त प्रमाण हो है । सो इन आठौं कर्मनि को च्यारि प्रकार बन्ध का श्म्यज्ञान जो केवल ज्ञान ज्योति ताके प्रभाव करि नाश होहै ।

— नामकर्म की ६३ प्रकृतियां —

तन बन्धन संघात वर्ण रस जात पंच,  
संस्थान संहनन षट आठ फास हैं ।  
गति आनुपूरवी है चारि दो विहाय गंध,  
अंग तीनि पैसठि ये त्रस थूल भास हैं ।  
पर्यापति थिर सुभ सुभग प्रतेक जस,  
सुसुर आदेय दो दो निरमान स्वास हैं ।

अपघात परघात अगुरु लघु आतप,  
उदोत तीर्थकर कौं बन्दों अघनास है ॥६६॥

अब नाम कर्म की तिराणवै प्रकृति पहला कवित्त विषैं कही थी तिनका जुदा जुदा इस कवित्त विषैं व्यौरा कहिए है ।

औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस, कार्माण, ए पांच शरीर । औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस, कार्माण ए पांच बन्धन । औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस, कार्माण, ए पांच संघात । कालो, पीलो, हरयो, लाल, सुफेद, ए पांच वर्ण । खाटो, मीठो, कडो, कसायलो, तीखो, ए पाँच रस । एकेंद्री, वेइन्द्री, तेइन्द्री, चौइन्द्री, पंचेन्द्री ए पांच जाति हैं । ऐसे छह के तौ पांच पांच भेद हैं ते सब मिलि तीस भए । समचतुरस्र, न्यग्रोध-परिमंडल, वामन, कुब्जक, स्वातिक, हुण्डक, ए छह । बज्रवृषभ नाराच, वज्रनाराच, नाराच, अर्द्धनाराच, कीलक, स्फाटिक ए ६ । दोन्यौं के इकट्टे किए हुए भेद बारह भए । तातो, सीलो, हलको, भारी, नरम, कठोर, लूखो, चीकणो ए आठ स्पर्श हैं । नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति, देवगति ए च्यारि भेद गति के हैं । नरकगत्यानुपूर्वी तिर्यचगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी ।

देवगत्यानुपूर्वी, ए च्यारि आनुपूर्वी हैं । ए दोन्यौं के जोड़ै आठ भेद भए । प्रशस्तविहायोगति, अप्रशस्त-विहायोगति ए चाल के भेद दोय । सुगन्ध, दुर्गंध, ए दोय गंध, ऐसे चारि भेद हैं । औदारिक अंगोपांग, वैक्रियिक अंगोपांग, आहारक अंगोपांग, ए तीन । ए पैसठि पिंडप्रकृति है । अरु अठईस अपिंड प्रकृति, ते कौनसी-त्रस स्थावर ए दोइ, वादर सूक्ष्म । अब ऐसै ही आठ के दोय दोय भेद हैं । पर्यापत-अपर्याप्त, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, सौभाग्य-दुर्भाग्य, प्रत्येक-साधारण जस-अपजस, सुस्वर-दुस्वर, आदेय-अनादेय, ए दोइ दोइ की बीस प्रकृति हैं । स्थाननिर्माण, प्रमाणनिर्माण, पवन का बाहरि निकलनां, आपतै घात सो अपघात. परतै घात सो परघात, न हलको न भारघो, सूर्यादिक विमाननि का आतप, चंद्रमादिक का विमान का उदोत, दर्शनविशुद्धि आदि षोडशकारण भावना तै तीर्थकर प्रकृतिका बंध हो है । सो तीर्थकर देव भगवान चौबीस जिन पाप के नाश करन हारै तिनकूं में नमस्कार करूं हूं बंदै हौं ।

—भात्र त्रिभंगी कथन चौदह गुण स्थानों में ५३ भाव—

चौतिस बत्तिस तेतिस छत्तिस,

इकतिस इकतिस इकतिस मान ।



अट्टाइस अट्टाइस वाइस,  
वाइस वीस वार में थान ।

चौदें तेरें अंतिम थानक,  
पंचभाव सिद्धालै जान ।

सम्यक्ज्ञान दरस बल जीवित,  
निहचै सो तू आप पिछान ॥ ७० ॥

उपशम भाव भेद २, क्षायिकभावं भेद ६, मिश्रभाव भेद १८, औदयिक भाव भेद २१, पारिणामिक भाव, भेद तीन, ए मूलभाव ५ उत्तर भेद ५३ तिनका चौदह गुणस्थाननि विषैं जुदा जुदा व्यौरा का कथन ।

पहला मिथ्यात गुणस्थान विषैं चौतीस भाव हैं । दूसरा सासादन गुणस्थान विषैं बत्तीस भाव हैं । तीसरा मिश्रगुणस्थान विषैं तेतीस भाव हैं । चौथा अत्रतगुणस्थान विषैं छत्तीस भाव हैं । पांचमा देशवृत गुणस्थान विषैं इकतीस भाव हैं । छठा प्रमत्त गुणस्थान विषैं इकतीस भाव हैं । सातमा अप्रमत्त गुणस्थान विषैं इकतीस भाव हैं । आठमा अपूर्वकरण गुणस्थान विषैं अठार्हस भाव हैं । नवमा अनिवृत्ति करण गुणस्थान विषैं अठार्हस भाव हैं । दशमां सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान विषैं बाईस भाव हैं ।

ग्यारमां उपशांत मोह गुणस्थान विषै इक्कीस भाव हैं ।  
 बारमां क्षीणमोह गुणस्थान विषै बीस भाव हैं । सयोग-  
 केवली तेरमां गुणस्थान विषै चौदह भाव हैं ।

### चौदह गुणस्थान विषै त्रेपन भाव त्रिभंगी यंत्र

गुणस्थान	मि	सा	मि	अ	दे	प्र	अ	अ	अ	सू	उ	क्ली	स	अयोगी
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
भाव	३४	३२	३३	३६	३१	३१	३१	२८	२८	२२	२१	२०	१४	१३
अभाव	१६	२१	२०	१७	२२	२२	२२	२५	२५	३१	३२	३३	३६	४०
व्युच्छित्ति	२	३	०	६	२	०	३	०	३	२	२	१३	१	८

### पांचौं त्रिभंगी का सामान्य यंत्र

गुणस्थान	मि	सा	मि	अ	दे	प्र	अ	अ	अ	सू	उ	क्ली	स	अयोगी
आश्रव	५५	५०	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५०	५५	५५	५५	०
बंध	११७	१०१	७७	७७	७७	७७	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	०
उदय	११७	१११	१००	१०५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५
उदीरणा	११७	१११	१००	१०५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	०
सत्ता	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५
भाव	३०	३२	३३	३६	३१	३१	३१	२८	२८	२२	२१	२०	१४	१३

अंतका अजोग केवली गुणस्थान विषैं तेरह भाव हैं ।  
 और सिद्धालय विषैं सिद्ध परमेष्ठीनि कै पांच भाव  
 जानने । ते पांचौं भाव कौन ? तिनकेनाम—द्वायिक सम्य-  
 क्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्तवीर्य, जीवित पारि-  
 णामिक का । निश्चयकरि सिद्धालय विषैं सिद्धनि के  
 पांच भाव हैं । जैसे सिद्ध विराजै है तैसें तू निश्चयनय  
 करि आपकौ जानि पिछानि । आत्मा ज्ञानमयी है ।

—: जम्बूद्वीप के पूर्व पश्चिम का वर्णन :—

जम्बूद्वीप एक लाख मेरु दस ही हजार,  
 भद्रसाल वन दो सहस चवालीस के ।  
 बाकी छयालीस आधौं आध दोन्यौं ही विदेह,  
 देवारण्य वन उनतीस सै बाईस के ।  
 तीनों नदी पौनें चारि सत चारों ही वच्चार,  
 दो हजार आठों ही विदेह वच ईस के ।  
 सत्तरै सहस सात सत तीनि जोजनके,  
 नमों चारि तीर्थकर स्वामी जगदीस के ॥७१॥

जंबूद्वीप पूर्व पश्चिम दिशा तक एक लाख प्रमाण  
 योजन लम्बा है, ताका जुदा जुदा व्यौरा कहिए है ।

जंबूद्वीप एक लाख योजन प्रमाण लंबा है। ताके विभाग बटवारा इस भांति हैं। जमीन पै सुमेरुगिरि पर्वत दश हजार योजन का मोटा चौड़ा है, दीर्घ है। अर पूर्व पश्चिम के दोन्यौं भद्रशालवन प्रत्येक बाईस २हजार योजन के लम्बे हैं। तिन दोऊ भद्रशालनि की लम्बाई मिली हुई चवालीस हजार योजन की भई। अर मेरु की लंबाई दशहजार योजन की मिले मेरु भद्रशालनि विषे मेरु सहित चौवन हजार योजन की लंबाई भई। बाकी लाख योजन विषे चौवन हजार मेरु भद्रशालनिमें रुके पीछे छीया-लीस हजार योजन रहे। ते आधे तेईस हजार तौ पूर्वदिशा विषे अर आधा तेईस हजार ही योजन पश्चिम दिशा विषे रहे। तहां आठ विदेह दक्षिण की अरु आठ विदेह उत्तर की। ए पूर्वदिशा की आठ विदेह तिनकी पूर्व पश्चिम लंबाई जुड़ी हुई। अर देवारण्य वन तौ पूर्व दिशा विषे लंबो अर भूतारण्य वन पश्चिमदिशा विषे लम्बो सो दोऊ वननि की लम्बाई समान है।

ते प्रत्येक जुदे जुदे दोन्यौं वन गुणतीस सै बाईस योजन के लंबे हैं। तिनकी जुड़ी हुई लंबाई पांच हजार आठसै चवालीस योजन की लंबाई भई। पूर्वदिशा देवा-रण्य २६२२, पश्चिम दिशा भूतारण्य २६२२ जोड़ ५२४४ योजन। और तीनों विभंगा नदी पूर्वदिशा संबंधी

पौष्ठा च्यारि सै योजन लंबी, पश्चिमदिशा की तीनों विभंगा नदी ३७५ योजन, जोड साडा सातसै । अर पूर्व-दिशा के च्यारौं वच्चार गिरि पर्वतन की जुडी हुई लंबाई दोय हजार योजन की । पश्चिम का च्यारौं वच्चार भी लम्बा दोय हजार योजन और आठौं विदेह पूर्व दिशा के अर आठौं ही विदेह पश्चिम दिशा की इनकी लम्बाई जुडी २ जिनेन्द्र भगवानके वचनते (इतनीजाननी)। सतरा हजार सातसै तीन योजन के लम्बे पूर्व विदेह । अर इतने ही लम्बे पश्चिम के विदेह । जौड़ पैंतीस हजार च्यारि सै छह योजन । सर्व जोड मेरु १००००, भद्रशाल ४४०००, विदेह ३५४०६, वच्चार गिरि ४०००, विभंगा ७५०, देवारण्य भूतारण्य ५८४४ = जोड एक लाख योजन को भया ।

सो जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र विषैं विद्यमान वर्चमान च्यारि तीर्थकर देव श्रीमंधरजी, युग्मंधरजी, दोय तो पूर्वके बाहुजी सुबाहुजी ए दोय पश्चिम के तिनकूँ में नमस्कार करूहं । कैसे हैं तीर्थङ्करदेव, तीन जगत के ईश जे इन्द्र धरणेन्द्र चक्रवर्ती तिनके स्वामी हैं । तीन लोक के सब ही जीव जिन तीर्थङ्करनि के चरणारविन्दनिकूँ सेवैं हैं ।

— जम्बूद्वीप के दक्षिण उत्तर का वर्णन —

जंबूद्वीप दक्षिण उत्तर लाख योजन को,  
भाग एक सौ नव्वे एक भरत भाइए ।  
दोय हिमवान सोल च्यारि हेमवन्त खेत,  
महा हिमवान आठ सोलै हरि गाइए ।  
बत्तीस निषध ए तिरेसठि उधै त्रेसठ,  
बीचि में विदेह भाग चौसठि बताइए ।  
भाग पांच सै छवीस कला छह उन्नीस की,  
अठत्तरि चैत्यालय सदा सीस नाइए ॥७२॥

जम्बूद्वीप दक्षिण उत्तर लाख योजन का है तिसका  
जुदा २ व्यौरा का सामान्य कथन, विशेष सिद्धान्तसारतैं  
जानना ।

जंबूद्वीप दक्षिण उत्तर लाख योजन का चौड़ा है  
तिसका व्यौरा इस भांति है । तिस लाख योजन के एक  
सौ निवै भाग करिये वा टूक करिए वा खंड करिए ।  
सो तिन विषै एक खंड प्रमाण दक्षिण उत्तर चौड़ा  
भरत क्षेत्र, अर्थात् पांच सै छवीस योजन छह कला का  
जानना, ५२६<sup>१</sup>/<sub>१२</sub> । इहां एक योजन के उगणीस वट में,  
एक वट की एक कला है । इहाँ एक योजन की उगणीस

कला है । हिमवान पर्वत दोय भाग का चौड़ा है । सो एक हजार वावन योजन बारा कला को चौड़ो जाननो । १०५२ $\frac{३}{४}$  । और च्यारि भाग प्रमाण हैमवतक्षेत्र चौड़ा है तहां जघन्य भोगभूमि है । सो दोय हजार एक सौ पांच योजन पांच कलाका जानना २१०५ $\frac{३}{४}$  । महाहिमवानपर्वत ८ भाग का चौड़ा है । सो च्यारिहजारदोयसैदश योजन दश कला का जानना ४२१० $\frac{६}{८}$  । सोला भाग प्रमाण हरिक्षेत्र चौड़ा है । तहां मध्यम भोगभूमि है सो आठ हजारच्यारि सै इक्कीस योजन एक कला का जानना ८४२१ $\frac{३}{४}$  । बत्तीसभाग प्रमाण निषिद्धाचल पर्वत चौड़ो है । सो सोला हजार आठसै बीयालीस योजन, दोय कला का जानना १६८४२ $\frac{३}{४}$  । इस भांति त्रेसठि भाग विदेहतें दक्षिण की ओरके जानने । सब इकट्ठे योजन ३३१५७ $\frac{३}{४}$  । इस ही भांति त्रेसठि भाग उत्तर के जानने तिनके एकठे कीए योजन ३३१५७ $\frac{३}{४}$  । निषिद्ध अर नीलगिरि के बीच विदेहक्षेत्र है सो चौंसठि भाग चौड़ा है । सो तेतीस हजार छसै चौरासी योजन च्यारि कला का है । ३३६८४ $\frac{३}{४}$  ।

पांचसै छब्बीस योजन छह कला का भरतक्षेत्र सो तौ पहला एक भाग का । तहांतें विदेह तक क्षेत्र तें तौ क्षेत्र चौगुणा चौड़ा, पर्वततें पर्वत चौगुणा चौड़ा है । अर एक एक योजन के उगणीस भाग कीजे तिनमें एक भाग का

नाम एक कला । छह भाग की छह कला । ऐसे जंबूद्वीपकै बीचि वीतराग देव के अठहत्तरि चैताले सास्वते हैं । तहां मेरुके १६, गजदंत ४, कुलाचल ६, वच्चार १६, विजयाद्ध ३४, जंबू साल्मली वृक्ष के २ ए ७८ तिननै मेरा नमस्कार होऊ तिन चैत्यालयानि कूँ सदाकाल मस्तक नमाइए नमस्कार करिए ।

जंबू द्वीप दक्षिण उत्तर लाख जोजन चोडाई का व्योरा को जंत्र

भारत	हिमवान	हैमवत	महा हिमवान	हरि	निषिद्ध	विदेह	नील	रस्यक	रुक्मी	हैराण्य	शिखरी	ऐरावत	जोड
१	२	४	५	१६	३२	६४	३२	१६	५	४	२	१	१६०
५२६१०	१०५२०	२१०५५	४२१००	८४२१०	१६८४२	३३६८४	१६८४२	८४२१०	४२१००	२१०५५	१०५२०	५२६१०	१०००००

—: अधोलोक के श्रेणीवद्ध बिलों की संख्या :—

सात नर्क भूमि उनचास पाथडे निवास,  
इन्द्रक भी उनचास बीच मांहि बिले हैं ।

पहिलो सीमंत चारि दिशा सेनी उनचास,  
चारि विदिशा में अठताली भेद निले हैं ॥



आठ दिस सेनीवद्ध तीनसै अठासी भए,  
 आठ आठ आगै घटे अंत च्यारि मिले हैं ।  
 सब छानवैं सै च्यारि जोजन अर्सख धारि,  
 दया धरैं धर्म करैं तिन्हें दुख गिले हैं ॥७३॥

अधोलोग विषैं नारकीनि के विले श्रेणीवद्ध और इन्द्रक तिनकी गिनती की संख्या का कथन । सो वे विलें आंधे कूवे के आकार हैं । और नरक का कथन विशेषरूप त्रिलोकसारजी तें देखि लेना । इहां इसी गिनती माफिक कथन है ।

नरक की भूमि सात है पहली रत्नप्रभा, दूजी शर्करा-प्रभा, तीजी वालुकाप्रभा, चौथी पंकप्रभा, पांचमी धूमप्रभा, छठी तमप्रभा, सातमी महातमप्रभा, ए सात हैं । इन सातों नरकनि के गुणचास पटल हैं । पहलै १३, दूजै ११, तीजै ९, चौथे ७, पांचवै ५, छठै ३, सातवै १, इस भांति गुणचास पटल हैं । तिन गुणचास पाथडेनि के बीचि एक गोल विला है तिनका नाम इन्द्रक विला है । ते इन्द्रक विलाभी गुणचास ही जानने । तहां प्रथम नरक का तेरा पाथडानि विषैं पहले सीमंतक नामा इन्द्रक विलो है, सो पैतालीस लाख योजन चौरो हैं । ता सीमन्तक इन्द्रक की च्यारों दिशा विषैं श्रेणीवद्ध विमान प्रत्येक २

गुणचास २ हैं ते च्यारों दिशानि के एक सौ छिनवे हैं । और ताही सीमन्तक विला की च्यारों विदिशानि विषैं श्रेणीवद्ध प्रत्येक २ गुणचास २ हैं । ते च्यारों दिशानि के एक सौ छिनवै है । और ताही सीमन्तक विला की च्यारों विदिशानि विषैं श्रेणीवद्ध प्रत्येक प्रत्येक गुणचास गुणचास हैं । ते एक २ घाटि अडतालीस २ हैं । ते सर्व एक सौ बाणवै हैं । सो च्यारि दिशा के १६६ अर च्यारों विदिशा के १६२ सब मिलि प्रथम सीमन्तक पटल के श्रेणीवद्ध तीनसँ अख्यासी है । ते चौकोर हैं, असंख्यात अमंख्यात जोजन के लंबे चौड़े हैं अर इनके परस्पर असंख्यात जोजन का अन्तर है । पंक्तिरूप है । तातै इनका नाम श्रेणीवद्ध है ।

आगै एक एक पटल विषैं आठ २ श्रेणीवद्ध विले घटे ते अठतालीस ठौर घाटि अन्त का सातवां नरक विषैं अंत को एक ही अवस्थान नामा पटल है । तामें दिशा के च्यार श्रेणीवद्ध विले रहे, विदिशा विषैं नाही । तहां इन्द्रक सहित केवल पांच ही विले हैं । इन्द्रक विलो लाख योजन को है । श्रेणीवद्ध ४ असंख्यात जोजन के हैं । ते गुणचासों इन्द्रक के मिले हुए श्रेणीवद्ध छिनवै सँ च्यारि, ते सब ही श्रेणीवद्ध विले असंख्यात जोजन के लंबे चौड़े हैं ।

भावार्थ—इन्द्रक बिले तौ संख्यात जोजन के लम्बे हैं, गोल है। श्रेणीवद्ध असंख्यात जोजन के हैं चौकोर हैं। प्रकीर्ण संख्यात के भी असंख्यात के भी गोल चौकोर आदि अनेक सस्थान के हैं। यह सिद्धांत का वाक्य है।

जे जीव इन बिलानि कूँ महादुःख के भरे जानि चित्त विषै दया भाव करै हैं अर जिनेंद्र भगवान को भाख्यो दया प्रधान धर्म ताको सेवन करै हैं, ते ही नरकनि के दुःखनि का नाश करै हैं।

—: उर्ध्वलोक के श्रेणीवद्ध विमान :—

ऊरध तिरेसठि पटल कहे आगममें,  
त्रेसठ ही इंद्रक विमान वीचि जानिए ।  
पहिलौ जुगल नाके पहिले को रिजु नाम,  
जाकी चारि दिशा सैणि वासठि प्रमानिए ॥  
चारों दोसै अडतालीस आगें घटे चारि चारि,  
अंत रहे चारि उँचे चारि ठीक ठानिये ।  
सैनी बंध ठंतर सै सोलै जोजन असंख,  
सिद्ध बारै जोजन पै ध्यान माहि आनिये ॥७४॥

अब उर्ध्वलोक के सौधर्म स्वर्ग आदिदे सर्वार्थसिद्धि पर्यंत त्रेसठि पटल, तिनके श्रेणीवद्ध विमाननि का जोड़

रूप विधान कहै है । सौधर्मद्विक ३१, सनतकुमारद्विक ७, ब्रह्मब्रह्मोत्तर ४, लांतव २ शुक्र १, सतार १, आनत ४, ग्रैवेपक ६, अनुदिश १ अनुत्तर १, ऐसे त्रेसठि पटल का कथन ।

उद्बर्लोक के त्रेसठि पटल जिनागम विषै कहे हैं सो तिन त्रेसठि पटलानि कै बीचि त्रेसठि ही इन्द्रक विमान जानने । एक एक पटल कै बीचि एक एक इन्द्रक है । ऐसे त्रेसठि प्रथम जुगलविषै इकतीस पटल । तहाँ पहला को नाम ऋजु विमान है, सो पैतालीस लाख योजन को लंबो चौडो ढाई द्वीप समान है । सो मेरुगिरि का शिखर परि एक बालकै अंतर विराजै है । ता रिजु विमान की च्यारों दिशा विषै श्रेणी विमान प्रत्येक बासठि बासठि हैं । सो च्यारों दिशा के जोड़ दिए दोय सै अड़तालीस श्रेणीबद्ध विमान भए । आगै ऊपरि ऊपरि एक एक पटल विषै च्यारि च्यारि श्रेणीबद्ध विमान घटे हैं, एक एक दिशा विषै एक एक विमान घट्यो, तब ४ दिशा का मिलि च्यारि घटे । अंत त्रेसठिवो सर्वार्थसिद्धिनामा पटल ता विषै च्यारि श्रेणीबद्ध रहे । अर उपांत बासठिवो आदित्य नामा पटल ता विषै भी च्यारि ही श्रेणीबद्ध विमान रहे । बासठवां पटलतै अंत का त्रेसठिवां पटल में श्रेणीबद्ध

न घटे, ज्योंके त्यों च्यारि ही रहे । बीचि में इन्द्रक सर्वार्थ-  
सिद्धि एक लाख योजन को लंबो जम्बूद्वीप समान है ।

सब त्रेसठि पटलनि के श्रेणीवद्ध सात हजार आठसैं  
सोला जोड़ दीए भए । ते सब असंख्यात जोजन के लंबे  
चौड़े चौकोर हैं । जोड़ देने का विधान ऐसा:—जो आदि  
तौ २४८ अर अन्त वासठिवां पटल के ४, इन दोन्यौकौ  
जोड़े दोयसै बावन, आधा कीये १२६, ताकौ वासठि  
गुणां कीए ७८१२, त्रेसठिवां का च्यारि मिलाए, जोड़  
७८१६ श्रेणीवद्ध जानने । अरु अन्त का सर्वार्थसिद्धि  
पटलतैं ऊपरि बारह योजन गए सिद्दालय है । तहां अनंते  
सिद्ध परमैष्ठी विराजै हैं । तिनका ध्यान करिये, चित्त  
विषैं स्मरण करिये ।

—त्रेसठ इंद्रक विमान का वर्णन—

पैंतालीस लाख को है इंद्रक रिजू विमान,

सर्वार्थसिद्धि अंत एक लाख का कहा ।

चवालीस घटे हैं त्रेसठि में वासठि ठौर,

ऊंचे ऊंचे एक एक केता घटती लहा ॥

सत्तर हजार नौसै सतसठि योजन है,

तेइस अधिक भाग इकतीस का गहा ।

तेसठ इंद्रक नाम तेसठ ही जिनधाम,  
त्रंदों मन वच काय तिनकी सोभा महा ॥७५॥

अब त्रेसठि इंद्रक विमाननि की चौडाई का नाम  
जुदा २ व्यौरा का कथन ऊपरि ऊपरि जानना ।

मेरु की चूलिका तैं बाल के आंतरैं सौधर्म इंद्र की  
पहली सभा ऋजु विमान है । सो ४५०००००० योजन  
को है । अटाई द्वीप समान पैतालीम लाख योजन को  
चौरो गोल ऋजु विमान है । अर अंतको त्रेसठियों  
इंद्रक विमान सर्वार्थसिद्धि है सो जंबू द्वीप समान एक  
लाख योजन प्रमाण लंबो है । सो त्रेसठवां इंद्रक विषैं  
चवालीस लाख घटे एक लाख योजन की चौडाई रही ।  
तौ वामठि ठोरा ऋजु विमान विना कितना कितना घट्या,  
वामठि ठौर जिसका विधान ऐसा जो—अंत का १०००००  
आदि ४५०००००० में घटाये ४४०००००० भए । तिनके  
हाणि के ठिकाणे वासठि ताका भाग दिए जो प्रमाण  
आवैं सो ही ऊपरि ऊपरि घटती घटती इंद्रकों की चौडाई  
है । सो एक एक प्रति सत्तरि हजार नोसैं सड़सठि योजन  
अर एक योजन के इकतीस वट कीजे तामें तेईस वट लीजै  
इतना ७०६६७<sup>३३</sup> घटती का प्रमाण जानना ।

इन त्रेसठि इंद्रक विमाननि कै बीचि सास्वते त्रेसठि

ही जिनमंदिर हैं। तिननै मन वचन काय करि नमस्कार करौं हैं। तिनकी सोभा महा रमणीक है, मुख तैं कहीं न जाइ है।

—लवणोदधि के १००८ बडवानल का कथन—

सवया ३१

लवणोदधि बीच चारि दिसामांहि चारि कूप,  
कहै हैं मृदंग जेम तिनिकौ प्रमान है।  
पेट और ऊँचे एक एक लाख जोजन के,  
नीचें औ मुख ताकौ दस हजार मान है ॥  
चारि विदिसा में चारि पेट और ऊँचे दस,  
हजार एक नीचे औ मुख कौ बखान है।  
अन्तर दिसा हजार पेट ऊँचे हैं हजार,  
नीचें और मुख सौकै धन्य जैनग्यान है ॥७६॥

लवणोदधि समुद्र दीय लाख योजन का चौड़ा है और हजार योजन का ऊँडा है। ता लवणोदधि के बीचि एक हजार और आठ बडवानल हैं, तिनका नाम मात्र कथन।

लवण समुद्र के बीचि च्यारि दिशा विषैं च्यारि बडवानल है, सो उत्कृष्ट हैं। तिनका आकार मृदंग





समान है। बीच में पेट की चौड़ाई रूप और तलें तँ उपरि तक ऊँचाई रूप एक एक लाख योजन के हैं। मध्य चौड़ाई १००००० ऊँचाई १०००००। और तलें नीचें उपरि मुख में दस दस हजार योजन के चौड़े हैं, तलें १०००० मुख १०००००। और लवणोदधि के बीच च्यारि विदिशानि विषै च्यारि बड़वानल हैं। तिनका पेट और ऊँचाई तौ दश हजार योजन की है; पेट योजन १०००० ऊँचाई १००००० योजन। अर तलें को मुख अर उपरि को मुख इनकी चौड़ाई एक एक हजार योजन की है, तलें मुख १००० उपरि मुख १०००। और आठों दिशानि के बीच आठ अंतर दिशा, तिन विषै एक हजार हैं। एक एक के एक सौ पचीस तब आठों के सब १०००। तिनका पेट और ऊँचाई एक हजार योजन की है, पेट योजन १०००, ऊँचाई योजन १०००। अर तिनके नीचें का और उपरि का मुख सौ सौ योजन का चौड़ा है, तलें १०० उपरि १००। जिनेन्द्र भगवान का ज्ञान विषै कही है सो ज्ञान धन्य है।

—: प्रकृतियों का बंध और उदय :—

देवगति आउ अनुपूरवी प्रकृति तीन,  
वैक्रियक अंग आहारक अंग चारि हैं।

अजस ए आठों ऊँचें बंधें नीचें उदै देहिं,  
 संजुलन लोभ विना पंदरै निहार हैं ॥  
 हास रति भै गिलांन नर वेद नर आउ,  
 सूक्ष्म अपर्जापत साधारण धार हैं ।  
 आतप मिथ्यात ए छबीस बंध उदै साथ,  
 नीचें बंध ऊँचें उदै छीयासी विचार हैं ॥७७॥

आठ प्रकृति ऊपरि के गुणस्थाननि विषैं बंधें नीचें उदय आवैं । और छबीस प्रकृति जिस गुणस्थान विषैं बंधें तहाँ ही उदय आवैं । और बाकी की रही प्रकृति छियासी सौ नीचें के गुणस्थान विषैं बंधें ऊपरि के गुणस्थान विषैं उदय आवैं । तिनका सबनिका जुदा जुदा व्यौरा इस कवित्त विषैं कहै हैं ।

देवगति, देवायु, देवगत्यानुपूर्वी ए तीन प्रकृति जाननी । वैक्रियक शरीर १, वैक्रियिक अंगोपांग १ ए दोय; आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग ए दोय, मिलि करि च्यारि भई । अजस प्रकृति । ए आठों प्रकृति ऊपरि के गुणस्थाननि विषैं बंधें हैं, नीचें के गुणस्थाननि विषैं उदय आवैं हैं ।

संज्वलन लोभ विनां पंद्रा तौ कषायः—अनंतानुबंधी

४, अप्रत्याख्यानी ४, प्रत्याख्यानी ४, संज्वलन ३, क्रोध १ मान १ माया १ ए तीन सब मिलि पंद्रा भई । हास्यादिक मैं चारः—हास्य, रतिनोकषाय. भय-नोकषाय, जुगुप्सा । पुरुषवेद, मनुष्यत्रायु, सूक्ष्म, अपर्याप्त प्रकृति, साधारण प्रकृति, आताप प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति, ए छब्बीस प्रकृति जिस जिस गुणस्थान विषै बंधै तिस तिस गुणस्थान विषै ही उदय आवै ।

बाकी रही छीयासी प्रकृति, तिनमें ज्ञानावरण ५, दर्शनावरण ६, वेदनीय २, गोत्र २, अंतराय ५, मोहनी चारित्र मोह की है ताकी ५, आयु २, नामकर्म की ५६, तिनका व्यौरा-गति ३, आनुपूर्वी ३, जाति ५, शरीर ३ अंग १ उदारिक, वर्णादिक ४, संस्थान ६, संहनन ६, निर्माण १, अगुरुलघु १, अपघात १, परघात १, स्वास १, उद्योत १, चाल २, वादर १, पर्याप्त १, प्रत्येक १ जस १, स्थिर २, शुभ २, सौभाग्य २, त्रस २, तीर्थकर १, आदर २, सुस्वर २ । इन छीयासी प्रकृतिनिका बंध नीचै के गुणस्थाननि में होय अरु उदय ऊँचै के गुणस्थाननि में होय ।

ज्ञानावरण ५, अन्तराय ५, दर्शनावरण ४, इन चौदह प्रकृतियों का बंध दशमां गुणस्थान पर्यंत है उदय बारमां का अंत समय पर्यंत है ।

यशकीर्ति और ऊँच गोत्र इनको बंध दशमां लौं ( तक ) है, उदय चौदमां का अंत पर्यंत है ।

साता वेदनी को बंध तेरमां पर्यंत है, उदय चौदमां लौं है । असाता वेदनी को बंध छठा पर्यंत है, उदय चौदहमां पर्यंत है ।

नीच गोत्र को बंध पहला में ही है उदय पांचमां लौं है । नपुंसकवेद को बंध पहलै में ही है, उदय नवमां का वेद भाग ( चौथा ) लौं है ।

स्त्री वेद का बंध दूजा लौं है उदय नवमां का वेद भाग लौं है ।

संज्वलन लोभ को बंध नवमां पर्यंत है, उदय दशम पर्यंत है ।

अरति, शोक, इनको बंध छठा पर्यंत है, उदय आठमां लौं है ।

निद्रा, प्रचला, इनको बंध आठमां अपूर्वकरण का प्रथमभाग पर्यंत है, उदय चीणकषाय का उपांत समय पर्यंत है । निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्थानगृद्धि इनका बन्ध दूजा लौं है, उदय छठा पर्यंत है ।

नारकायु को बन्ध पहलैमें ही है, उदय चौथा पर्यंत है । तिर्यग्गायु को बन्ध दूजा पर्यंत है, उदय पांचमां पर्यंत है । मनुष्यायु को बन्ध चौथा पर्यंत उदय चौदमां पर्यंत है ।

नरकगति, तथा आनुपूर्वी, इनको बन्ध पहलै में ही है अर उदय चौथा लौं हैं । तिर्यग्गति, तथा आनुपूर्वी इनको बन्ध दूजा लौं, उदय आनुपूर्वी को चौथा लौं है, अर गति को उदय पंचम लौ है ।

मनुष्यगति को बन्ध चौथा लौं है उदय चौदमां गुणस्थान पर्यंत है ।

विकल चार ( एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय ) को बन्ध पहलै में है, उदय दूजा लौं है ।

औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, इनको बन्ध चौथा लौं, उदय चौदहमां का उपांत समय पर्यंत है ।

पंचेंद्री को बन्ध अपूर्वकरण का छठा भाग पर्यंत है उदय चौदमां लौ है ।

तैजस, कार्माण को बन्ध आठमां का छठा भाग लौं है, उदय चौदमां का उपांत समय पर्यंत है ।

स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इन चार को बंध आठमां का छठा भाग लौं है, उदय तेरमां का उपांत समय पर्यंत है ।

हुण्डक को बंध पहलै में ही है । कुब्जक, वामन, स्वातिक, न्यग्रोध परिमंडल, इन चारका बंध दूजा लौं अर समचतुरस्र को आठमां का छठा भाग पर्यंत है । अर संस्थान ( छहोंका ) उदय तेरमां लौ है ।

वज्रवृषभनाराच का बंध चौथा लौं, वज्रनाराच, नाराच, अर्द्धनाराच, कीलित, इनका दूजा लौं, असंप्राप्त सृपाटिका को पहले ही में बंध है। अर अंत का तीन संहनन को उदय सातमां लौं है। नाराच अर वज्रनाराच को ग्यारमा लौं है। वज्रवृषभनाराच को तेरमां लौं है।

निर्माण को बन्ध आठमां का छठा भाग लौं है, उदय तेरमां लौं है।

अप्रशस्तगति को बन्ध दूजा लौं है। प्रशस्त को आठमां का छठा भाग लौं है। अर दोऊं का उदय तेरहवें सयोग पर्यन्त है।

उद्योत को बंध दूजा लौं, उदय पंचम लौं है।

अगुरुलघु, उपघात, परघात, उख्वास इन चार को बंध आठमां का छठा भाग लौं है, उदय तेरहमां लौं है।

धावर को बन्ध पहलैं ही में है, उदय दूजा लौं है।

त्रस, वादर, पर्याप्त इनको बन्ध अपूर्वकरण का छठा भाग लौं है, अर उदय चौदमां लौं है।

प्रत्येक शरीर को बंध आठमां का छठा भाग लौं है, उदय तेरमां लौं है।

अस्थिर, अशुभ, इन दो को बन्ध छठा गुणस्थान पर्यंत है, उदय तेरमां लौं है।

स्थिर, शुभ, इनको बंध आठमां का छठा भाग लौं,  
उदय तेरमां लौ है ।

दुर्भग, दुस्वर, अनादर, इन ३ को बन्ध दूजा लौं,  
उदय तेरमां लौ है । सौभाग्य, आदर, इनका बन्ध  
आठमां का छठा भाग लौ, है, उदय चौदमां लौ है ।  
सुस्वर को बन्ध, आठमां का छठा भाग लौं उदय तेरमां  
लौ है । तीर्थकर प्रकृति को बंध चौथा तैं लेह आठमां का  
छठा भाग पर्यंत है, उदय चौदमां पर्यंत है ।

—: पंच परावर्तन का स्वरूप :—

भाव परावर्तन अनंत भाग भव काल,  
भव परावर्तन अनंत भाग काल है ।  
काल परावर्तन अनंत भाग खेत कह्यो,  
खेत को अनंत भाग पुग्गल विशाल है ॥  
ताको आधो नाम अर्द्ध पुग्गल परावर्तन,  
फिरनौ रह्यो है योही ज्ञानी ज्ञान भाल है ।  
ताही समैं सम्यक् उपजवे को जोग भयो,  
और कहा समकित लरकों का ख्याल है ॥७८॥

द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, ए पांच परावर्तन संसार  
त्रिषै मिथ्यादृष्टि जीव करै है । पांचौं परावर्तन अनंत कीये

परंतु तिनका अल्पबहुत्वपना का कथन, अनंत मांदि है जातें अनंत के अनंत भेद हैं । कषायाध्यवसाय स्थान, अनुभागबन्धाध्यवसाय स्थान, जोग स्थान, स्थिति स्थान, ऐसों परिणामनि की प्रचुरता बहुलता ताका नाम भव परावर्तन है । सो तिस भव परावर्तन तें अनंतवै भाग भव परावर्तन और काल परावर्तन जानने ।

च्यारौ गति का जामन-मरण, जघन्य तै उत्कृष्ट तक करै । नरकगति जघन्य दस हजार वर्ष, उत्कृष्ट तेतीस सागर । तिर्यञ्च मनुष्य दोऊ गति का जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट तीन पल्य । देवगति जघन्य दश हजार वर्ष, उत्कृष्ट नवम ग्रैवेयक में इकतीस सागर, सो भावकै अनंतवै भाग याका काल है । एक भाव में अनंत भव परावर्तन होय जाय हैं । अर भव परावर्तन कै अनंतवै भाग काल परावर्तन का काल है । सो बीस कोड़ा कोड़ी सागर का कल्पकाल, ताके उत्सर्पणी, अवसर्पणी दोय भेद । तहां उत्सर्पणी का प्रथम समय ते लेय अवसर्पणी का अंतका समय ताई बीस कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय तिनकू अनुक्रमतै जन्म-मरणतै पूरख करै, ताका नाम काल परावर्तन है । ते कालपरावर्तन एक भवपरावर्तन में अनन्ते होय हैं । तातै कालपरावर्तन को काल भवकै अनन्तवै भाग । अर काल परावर्तनकै अनंतवै भाग क्षेत्र



परावर्तन है। सो दोय प्रकारः—स्वक्षेत्र परावर्तन, परक्षेत्र परावर्तन। तहां सूक्ष्म निगोदिये अलब्ध पर्याप्तो ताकी जघन्य अवगाहना घनांगुल कै असंख्यातवै भाग तासू लेय करि हजार जोजन लंबो, पांचसै चौडौ अढाईसै ऊँचो, मच्छ ताकी अवगाहनां तक एक एक प्रदेश बधती अवगाहनां अनुक्रमतै पूर्ण करै सो स्वक्षेत्र परावर्तन। दूजो परक्षेत्र परावर्तन, जो मेरु को जड़ तलें मध्यमें आठ प्रदेश है तिन आठ प्रदेशनिको अपने शरीर के आठ मध्य प्रदेश मानि जघन्य अवगाहना धारण करि, जितने आत्मप्रदेश हैं उतनी बार जन्म-मरण करे। पीछे एक एक प्रदेश सरकि २ क्रमशः तीन लोक के असंख्यात प्रदेशनि में जामन-मरण कर पूर्ण करै सो परक्षेत्र परावर्तन। सो दोन्या को इकठो क्षेत्र परावर्तन एक है। सो एक काल परावर्तन में अनंत क्षेत्र परावर्तन हो है। तातैं काल कै अनंतवै भाग क्षेत्र परावर्तन को काल है।

और क्षेत्र परावर्तन कै अनंतवै भाग पुद्गल परावर्तन का काल है। ताके दोय भेद हैं नोकर्म पुद्गल परावर्तन, कर्मपुद्गल परावर्तन, ए दोय। तहां नो कर्म की पुद्गल परामाणु अग्रहीत अनन्त ग्रहण करै, तब एक बार मिश्र परामाणु ग्रहण करै, व्हुरि अनन्त अग्रहीत ग्रहण भए दूजीबार मिश्र ग्रहण करै। ऐसैं एक २ करतैं मिश्र अनन्ता

होय जाय तब पलटि अनंत वार अग्रहीत ग्रहण करि पीछें एक बार ग्रहीत ग्रहण करै । पूर्व रीति करि अनंत मिश्र भए, दूजा पलटि अनंत अग्रहीत ग्रहण करि दूजीबारग्रहीत ग्रहण करै । ऐसैं पूर्वोक्त विधि तैं एक २ ग्रहीत का ग्रहण करतैं जब ग्रहीत परमाणु भी अनंता हो जाय तहाँ अग्रहीत मिश्र ग्रहीत इन तीनों के ग्रहण विषैं जेता काल व्यतीत होय सो पाव पुद्गल परावर्तन का काल है । दूजा मिश्र आदि विषैं अग्रहीत मध्य में, ग्रहीत अन्त में, तीजा मिश्र आदि में, ग्रहीत मध्य में, अग्रहीत अन्त में, चौथा ग्रहीत आदि विषैं, मिश्र मध्य में, अग्रहीत अन्त में, ऐसैं पाव पुद्गल की नाई और तीनांका काल पूर्वोक्त रीति तैं पूर्ण करै सो जब चौथा भी संपूर्ण हो जाय तब च्यारनि में जेता काल व्यतीत होय सो इकठा किया एक पुद्गल परावर्तन का काल जानना । ऐसैं ही कर्म पुद्गल परावर्तन का स्वरूप जानना । सो पुद्गल परावर्तन को काल क्षेत्र परावर्तन का काल कै अनंतवै भाग है । एक क्षेत्रपरावर्तन में अनन्त पुद्गल परावर्तन हो है । तातैं पुद्गल परावर्तन का काल क्षेत्रपरावर्तनका कालकै अनन्तवै भाग कहा । सो तिस पुद्गल परावर्तन का आधा दोय भाग का नाम आध पुद्गल परावर्तन है । सो अर्द्ध पुद्गल परावर्तन काल नाम आगम विषैं काल लब्धि कहा है तिसका उदाहरण । जैसे कोई

मिथ्यादृष्टी जीव संसार विषैँ अनंत वार अनंत परावर्तन कीए । जब उसके अर्द्धपुद्गल परावर्तन प्रयाण संसार का भ्रमण बाकी रह्या सो ज्ञानी जीवनिनेँ ज्ञान विषैँ इस भांति देख्या जान्यां जो याकैँ अब काल लब्धि है । जब सम्यक् उपजायवे को जोग होय और जो अर्द्धपुद्गल परावर्तन तैँ संसार एक समय भी अधिक रहा होय तौ भी सम्यक्त्व न उपजैँ, यह नियम है । तिस तैँ अर्द्धपुद्गल परावर्तन का नाम काल लब्धि कहा है । जो जीव सम्यक्त्व पाइकैँ छोडि दे तौ भी संसार विषैँ बहुत भ्रमैँ तौ अर्द्धपुद्गल परावर्तन ताइँ भ्रमण करैँ, अधिक भ्रमण न होय, यह नियम है जातैँ दोय सम्यक्त्व, अर देश संयम, अनंतानुबन्धी को विसंयोजन, असंख्यात वार करैँ है छोडैँ है बहुरि सम्यक्त्व पाय मोक्ष जाय ।

इस भांति जीव सम्यक्त्व पावैँ हैँ और कहा सम्यक्त्व लडकौं का बालकौं का खयाल है । सम्यक्त्व का पावना महादुर्लभ है । जो जीव सम्यक्त्व पावैँ सो जीव अंतर्मुहूर्त्त तैँ लेकरि अर्द्धपुद्गल परावर्तन ताइँ भावैँ (भले ही) कभी मोक्ष जाऊ, कोई बाधा नांही । इस भांति सम्यक्त्व का स्वरूप है । कोई लडकौंका सा खयाल सम्यक्त्व हैँ नांही । इन पाचौँ परावर्तननि का कथन बहुत विशेष गोमडुसार ग्रन्थ का भव्य मार्गणा अधिकार विषैँ देखि लेनां । उहाँ

बहुत विशेष स्वरूप कहा है। इहाँ भी सामान्य कथन किया।

—: पुनः पंचपरावर्तन :—

भाव परावर्तन अनन्त जो करें है जीव,  
 एक भाव तैं अनन्त भौके परावर्त हैं।  
 एक भौ सेती अनन्त काल परावर्त करै,  
 काल तैं अनन्त खेत परावर्त कर्त हैं।  
 एक खेत तैं अनन्त पुद्गल परावर्तन,  
 पंच फेरी विषैं आप मिथ्या वस पत हैं।  
 सातको विनाश जिन्है सम्यक् प्रकास तेई,  
 दर्व खेत कालभव भाव तैं निकर्त हैं ॥७६॥

बहुरि दूजा परावर्तन का स्वरूप कहे है।

इस संसार विषैं मिथ्यात्व के बसि होय करि मिथ्या दृष्टि संज्ञी जीवनेँ अनन्ते भाव परावर्तन कीए, अनन्त काल संसार विषैं भ्रमण किया सो जिनेंद्र भगवान का ज्ञान कै गम्य है। जितने काल विषैं एक भाव परावर्तन पूरो करै तितने काल विषैं अनन्ते भव परावर्तन होय हैं, यह जानना। और जितने काल विषैं एक भव परावर्तन पूरो करै तितने काल विषैं अनन्ते काल परावर्तन करै, इस भांति

अनंतों के अनंत भेद जानने । और जितने काल विषै एक काल परावर्तन पूर्ण होय तितने कालविषै अनन्ते क्षेत्र परावर्तन होय जाय हैं । और जितने काल विषै एक क्षेत्र परावर्तन पूरा करै तितने काल विषै अनन्ते पुद्गल परावर्तन हो है । इस भांति पंच परावर्तन विषै मिथ्यात्व कै वसि हुआ जीव अनन्तबार जनम्या अर अनन्त बार मूवा, अनन्त काल भ्रम्यो । च्यारि अनन्तानुबंधो और तीन मिथ्यात्व इन सात प्रकृतिनि का नाश करै तिसतै चायिक सम्यक्त्व होय, तब सो ही जीव इन पांचों परावर्तननि तै रहित होय संसार तै छूटै । तब अविनाशी सुख को ठिकाणों मोक्ष-स्थान पावै । जहाँ तै फिर संसार विषै आवना नाहीं । उक्तं च गाथा ।

अगहिदमिस्सं गहिदं मिस्समगहिदं तहेव गहिदं च ।  
 मिस्सं गहिदमगहिदं गहिदं मिस्सं अगहिदं च ॥  
 सर्वं प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबंधयोग्यानि ।  
 स्थानान्यनुभूतानि भ्रमतो भुवि भाव संसारे ॥

पुद्गल परावर्तन का यन्त्र

---

००+	००+	००१	००+	००+	००१
++०	++०	++१	++०	++०	++१
++१	++१	++०	++१	++१	++०
११+	११+	११०	११+	११+	११०

पुद्गल परावर्त्तन सामान्य

०	+	१	प्र०
+	०	१	द्वि०
+	१	०	तृ०
१	+	०	च०

पांचों परावर्त्तन काल

भाव	ख	ख	ख	ख	ख
भव	ख	ख	ख	ख	
काल	ख	ख	ख		
क्षेत्र	ख	ख			
पुद्गल	ख				

पांचों की संख्या

द्रव्य	ख	ख	ख	ख	ख
क्षेत्र	ख	ख	ख	ख	
काल	ख	ख	ख		
भव	ख	ख			
भाव	ख				

—: पांच लब्धि कथन :—

थावर तैं सैनी होय एही खय उपशम है,  
दान पूजा उद्यत विसोही उपयोग है ।

गुरु उपदेश तत्त्व ज्ञान सो ही देसना है,  
 अंत कोड़ा कोड़ी कर्म की थिति प्रायोग है ।  
 जग में अनंत बार चारि लब्धि पाई इनि,  
 करण लब्धि बिना समकित को न जोग है ।  
 अधो अपूर्व अनिवृत्तिकरण तीन करें,  
 मिथ्या मांहि पीछें चौथा सम्यक् नियोग है ॥८०॥

अब क्षयोपशम, विशुद्धि, देशनां, प्रायोग्यता, करण,  
 इन पांच लब्धिनि का नाम मात्र कथन करिए है ।

अनादि मिथ्यादृष्टि वा सादि-मिथ्यादृष्टि जीव अनादि-  
 कालका एकेंद्रीविषै भ्रम्या सो काल पाय कर्मों का क्षयो-  
 पशम हुवा, कषायनि का रस मंद पड़े तव थावर तें निकसि  
 सैनी पंचेन्द्री जीव भया, तिसका नाम क्षयोपशम लब्धि  
 कहिए । क्षय उपशम तें निकल्या इस वास्तै इसका नाम  
 क्षयोपशमलब्धि कहा है ।

बहुरि यही जीव काल पायकै शुभ कर्म के उदयतें  
 दान, पूजा, संजम, जप, तप, व्रत, शील इन आदि शुभ  
 परिणामनि रूप परिणमें तिसका नाम विशुद्धि लब्धि  
 कहिए ।

बहुरि काल पाय पुण्य कर्म के उदयतें सतगुरु का  
 उपदेश भी पाया; छः द्रव्य, नवपदार्थ, पंचास्तिकाय, सात-

तत्त्व, तीनकाल इनका उपदेश पाय तत्त्वका जानपनां भया तिसका नाम देशनालब्धि कहिए ।

बहुरि काल पाय महाव्रत भी धरै । सो महाव्रत धरिकै मास मास के उपवास भी कीये, बहुत तपस्या करिकै शरीर विषै क्षीण परधा, तिसके बल करिकै कर्मनि की धिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण राखी । कोडि कै ऊपरि अर कोड़ा कोड़ी कै मांही ताका नाम अंतः कोडा कोड़ी है । इस लब्धि विषै चौतीस बंधापसरण हो है । तिनका विशेष कथन लब्धिसार ग्रन्थ विषै जानना । सो या लब्धि का नाम प्रायोग्य-लब्धि है ।

क्षोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्यता, ए च्यारि लब्धि जीवनै संसार विषै अनंतीवार पाई परन्तु काज कछु सरा नांही । इस जीवनै मिथ्यात परिणामनि करि च्यारौ लब्धि पाई, तातैं जैसी पाई तैसी न पाई, यह जानना । बहुरि ए च्यारि लब्धि जीव अनंतीवार पावौ परन्तु पांचमी करणलब्धि विना जीवकै सम्यक्त्व का लाभ न होय, यह नियम है । जब करणलब्धि आवै तब सम्यक्त्व पावै यह नियम जानना । करणलब्धि का अर्थ मिथ्यात के तीन भेद करै । सो पहला अधःकरण, दूजा अपूर्वकरण, तीजा अनिवृत्तिकरण । सो अनिवृत्तिकरण का अंत समय विषै सम्यक्त्व होय तिसका नाम करण-



लब्धि कहिए । यह कथन गोम्मटसारजी, लब्धिसारजी आदि विषै देखि लेना । जहां ऊपरले समयनि के परिणामनि सै नीचले समयनि के परिणाम मिलै, संख्यादि करि समान होय, तातैं अधःकरण यह सार्थक है । इस अधःकरण विषै केवल परिणामनि की ही समय समय अनंतगुणी विशुद्धता हो है, और स्थिति कांड घातादि कार्य नांही हो है । अर दूसरी अपूर्वकरण ताविषै अपूर्व अपूर्व परिणाम हो है । कोई ही समय का परिणामनि सै कोई ही समयनि का परिणाम न मिलै । तातैं याका नाम अपूर्वकरण साँचा है । या विषै गुणश्रेणी, गुणसंक्रमण, स्थितिकांडघात, अनुभागकांडघात ए च्यारि कार्य हो है । और अनिवृत्तिकरण विषै एक समय में तिष्ठते जीव तिनका परिणाम सबनि का समान हो है, घाटि बाधि पलटणि नांहीं । तातैं तीजा करण का नाम साँचा अनिवृत्तिकरण है । इहां करण नाम परिणामनि का है । पीछै अंत समय अनिवृत्तिकरण के अंत विषै सम्यक्त्व होय यह नियम है ।

—: आठवां नन्दीश्वर द्वीप का कथन:—

एक सौ तरेसठि किरोर चवरासी लाख,  
जोजन का चौड़ा दीप बावन पहार हैं ।

दिसा च्यारि अंजन जोजन चौरासी हजार,  
 सोलै दधिमुख जोजन दस हजार हैं ॥  
 रतिकर हैं बत्तीस जोजन हजार एक,  
 लंबे चौरे ऊँचे सब ढोल के अकार हैं ।  
 सब परि जिनभौन बावन विराजत हैं,  
 वर्ष तीन बार देव करै जै जैकार हैं ॥ ८१ ॥

आठमां नंदीश्वर द्वीप एक सौ त्रैसठि कोडि चौरासी लाख जोजन का चौड़ा है । सो प्रमाण जोजन करि है । सो नंदीश्वर द्वीप महा सोभायमान महारमणीक है, सासता है । ता नन्दीश्वर द्वीप विषैं बावन पर्वत हैं । तिन परि एक एक पर्वत परि एक एक जिनमंदिर हैं ते बावन हैं । तिस नंदीश्वर द्वीप की च्यारों दिशानि विषैं च्यारि अंजन गिरि पर्वत हैं । एक एक दिशा विषैं एक एक हैं । ते अंजनगिरि चौरासी हजार जोजन के भूमितैं ऊँचे हैं अर चौरासी हजार योजन के ही सर्वत्र आदि मध्य अंत विषैं चौड़े हैं । हजार योजन की भूमि विषैं जड़ है । गोल ढोल के अकार हैं । अर सोला दधिमुख पर्वत हैं । एक दिशा विषैं च्यारि हैं । च्यारों के सोलह । ते दश हजार योजन के ऊँचे, इतने ही चौड़े, हजार योजन की जड़ है । बत्तीस रतिकर पर्वत हैं । भावार्थ—च्यारों दिशानि विषैं

## आठमा नदीश्वर द्वीप तक चौडाई का अर सूची का ग्रंथ

वलय व्यास वा सूची		व्यास शून्यता	
नाम द्वीप समुद्र	व	१०००००	१०००००
वर्ष द्वीप	व	१०००००	१०००००
लवण समुद्र	व सू	१०००००	१०००००
धातकी लव	व सू	१०००००	१०००००
कालोद्वीप	व सू	१०००००	१०००००
पुष्कर द्वीप	व सू	१०००००	१०००००
पुष्कर समुद्र	व सू	१०००००	१०००००
वाक्यो द्वीप	व सू	१०००००	१०००००
वाक्यो समुद्र	व सू	१०००००	१०००००
वीर वर द्वीप	व सू	१०००००	१०००००
वीर समुद्र	व सू	१०००००	१०००००
वन वर द्वीप	व सू	१०००००	१०००००
वन समुद्र	व सू	१०००००	१०००००
वीर वर द्वीप	व सू	१०००००	१०००००
वीर समुद्र	व सू	१०००००	१०००००
नदीश्वर द्वीप	व सू	१०००००	१०००००

लाख लाख जोजन लंबी चौड़ी चौकोर, हजार जोजन ऊँडी सोला बावड़ी हैं । तिनके वारले दो दो कोण समीप एक एक पर्वत है । ते पर्वत बत्तीस हजार हजार योजन के लंबे चौड़े ऊँचे हैं । अढाई सै योजन की भूमि विषै जड़ है । सब बावन पर्वत ढोलकै आकार हैं ।

तिस सर्व बावन पर्वतानि परि सौ योजन लंबे, पचास योजन चौड़े, पिचहत्तरि योजन ऊँचे ऐसे उत्कृष्ट सास्वते बावन जिनमंदिर हैं । अरु एक एक चैत्यालय विषै एक सौ आठ रतनमयी पांच सै धनुष की जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा विराजमान हैं । सब प्रतिमा पांच हजार छह सै सोला है । तहां एक एक वर्ष विषै तीन तीन बार काती, फागुण, असाढ़ कै विषै शुक्लपक्ष में आठ सौ लै पूर्ण-मासी पर्यंत आठ दिन तक राति दिन के चौसठि पहर निरंतर पूजा स्तुति जै जै कारादि महामहोच्छ्रव करै है, नृत्य गान वादित्रादि अनेक उच्छ्रव करै है ।

—: मेरु पर्वत का वर्णन :—

मेरु लाख एक जड़ ऊँचा निन्यानौ हजार,  
चूलिका चालीस बास अंतर विमान है ।  
नीचै भद्रशाल वन दिसा चारि जिन भौन,  
पांचसै पै नंदन चैतालै च्यारि वान है ।

साढ़े बासठि हजार सौमनस वन चारि,  
 चैताले ऊँचे सहस छत्तिस बखान है ।  
 तहां वन पांडुक चैतालै च्यारि सब सोलै,  
 मन वच काय सेती बंदों पाप हानि है ॥८२॥

अब मेरु पर्वत का कथन करिए है—मेरु ऊँचा निन्या-  
 णवें हजार योजन का है । जड़ हजार योजन की है ।  
 ऐसे मेरु लाख योजन का है । जड़ त लेड़ अंत ताड़ मेरु  
 गिरि पर्वत लाख योजन का ऊँचा है । तिसका व्यौराः—  
 चित्रा भूमि विषै मेरु की जड़ एक हजार योजन की है ।  
 और तिस जड़तै ऊपर भद्रशाल वनतै लेकै पांडुक वन  
 ताड़ निन्याणवें हजार योजन ऊँचा जानना । और तिस  
 पांडुक वनकै वीचि चालीस योजन ऊँची, बारह, आठ,  
 च्यारि—आदि, मध्य, अंत विषै चौड़ी चूड़ाकार इन्द्रनील  
 मणिमई चूलिका जाननी । तिस चूलिका ऊपरि एक बाल  
 कै आंतरै सौधर्म इन्द्र की पहली सभा का पैतालीस  
 लाख योजन का चौड़ा ऋजु विमान जानना । तिस मेरु  
 की जड़ा नीचें चित्रा पृथ्वी परि भद्रशाल वन विराजै है ।  
 ते अनादिकाल के साम्बते हैं । तिन च्यारों भद्रशाल  
 वननि विषै सासते उत्कृष्ट रचना सहित अर्हतदेव के च्यारि  
 च्यारि चैत्यालय विराजमान हैं, अत्यंत सोभायमान है ।

तिस भद्रशाल वनतैं पांचसै योजन ऊँचा जायकै दूजो नंदनवन है । तिस नंदनवन की च्यारौं दिशानि विषैं च्यारि चैत्यालय हैं । ते अति सोभायमान सास्वते हैं, उत्कृष्ट हैं । अरु नंदनवन की चौड़ाई पांचसै योजन की है । तिस नंदनवनतैं साढे वासठि हजार योजन जाइकै पांचसै योजन का चौडा सौमनस वन विराजै है । ता सौमनस वन विषैं च्यारि दिशा मांहि च्यारि चैत्यालय अत्यन्त सौभायमान हैं । ते मध्य चैत्यालय जानने । और तिस सौमनस वन तैं छत्तीस हजार योजन ऊँचा जाय करि पांडुक वन विराजै है, सो सास्वता है । तहां जिनेन्द्र भगवान का जन्माभिषेक हो है । तिस पाण्डुक वन की च्यारौं दिशानि विषैं च्यारि जघन्य जिन मंदिर हैं ते अत्यन्त सोभायमान हैं । ता पाण्डुकवन की चौड़ाई च्यारि सौ चौराणवै योजन की है । इस भांति सुदर्शन मेरु संबंधी सोला चैत्यालय हैं, सास्वते हैं । देव विद्याधरनि करि सदा काल पूजवे योग्य हैं । तिन चैत्यालयों कै ताई में मन, वचन, काय करि भाव सहित उछाह सहित बन्दना करौंहौं, पूजौंहौं, ध्यावों हौं, जातैं तिन चैत्यालयनि की बन्दना तैं पाप की हानि होय, सर्व विघन टले । यह जानना ।

— मेरु पर्वत का पूर्व पश्चिम विस्तार —

मेरु गोल जड तलैं दस हजार निठवै को,

भूपै हजार दस नन्दन पै लहा है ।  
 नौ हजार नौसै चौवन भाग कहे नहीं, ❀  
 सौमनस वियालिस सै बहत्तरि रहा है ।  
 पांडुक हजार एक बीचि बारह चूलिका है,  
 चारि सै चौरानू वन पांडुक सरदहा है ।  
 सौमनस नन्दन है पाँचसै के भद्रशाल,  
 बाईस हजार पूर्व पच्छिम में कहा है ॥८३॥

बहुरि मेरु की चौड़ाई तथा वनानि की चौड़ाई का नाम मात्र कथन—

मेरु पर्वत गोल गिरदाकार, तहां जड तलै दशहजार निव्वै योजन का चौडा है । सो या चौड़ाई चित्रा पृथ्वी कै तलै जानना । तिस जड तलैसै हजार योजन ऊंचा आये भूमि पै भद्रशाल की जडां दश हजार योजन को चौडो है । तिस तैं ऊपरि पांचसै योजन नन्दन वन है ।

❀ 'नहीं' की जगह 'तहां' पाठ भेद है । जहां नहीं है वहां अर्थ होगा कि भाग नहीं कहे अर्थान् पूर्णाङ्क के पश्चान् कुछ भाग और हैं जो यहां नहीं बताये गये हैं—और जगहसे देख लेना । जहां पाठ 'तहां' है उसका अर्थ होगा पूर्णाङ्क के पश्चान् कुछ भाग वहां और हैं सो और जगह से देख लेना ।

तहां चौडाई दोय प्रकार है—एक वन सहित, एक वन रहित । तहां वन सहित तौ निन्याणवै सैं चौवन योजन अर छह छह योजन को ग्यारवों भाग, इतनों चौडो । अर वन बिना चौडाई आठ हजार नौ सैं चौवन योजन, छ को ग्यारवों भाग प्रमाण है । तहां तैं ए हजार का दश योजन तक इकसार चौडाई इकसार है । अर ऊपरि साढा इक्यावन हजार योजन विषैं क्रम तैं हानि है ।

बहुरि नन्दन वन स्रं साढा बासठि हजार योजन ऊंचा गया सौमनस नामां तीसरो वन है तहां वन सहित पर्वत चौडो बीयालीस सैं बहत्तरि योजन आठ योजन का ग्यारा भाग प्रमाण चौडो है । अर वन बिना पर्वत चौडो बत्तीस सैं बहत्तर योजन, आठ को ग्यारवां भाग प्रमाण चौडो है । ता सौमनस वन तैं छत्तीस हजार योजन की ऊंचाई विषैं ग्यारा हजार योजन तक तौ इकसार समान चौडो है अर पच्चीस हजार योजनविषैं क्रम तैं हाणि भई है । तहं पाण्डुक वन है सो वन सहित पर्वत हजार योजन को चौडो है । इस भांति मेरू की चौडाई जड तैं अन्त सिखर तक जाननी ।

ता एक हजार योजन की, चौडाई कै बीचि बारह योजन आदि विषैं मोटी, आठ मध्य विषैं, च्यारि शिखर विषैं चोडी, चालीस योजन ऊंची चूलिका है । तब तहां



पांडुक वन च्यारि सै चौराणवै योजन को चौडो है । ता वन विषै च्यारि शिला है । पांडुक, पांडुकंत्रला, रक्ता, रक्त-कंत्रला, आधा चन्द्रमा के आकार, सौ सौ योजन लम्बी. पचास पचास योजन चौडी, आठ योजन मोटी । तिन परि भरत ऐरावत पूर्व पश्चिम विदेह के तीर्थङ्करनि का जन्माभिषेक हो है । मेरूका व्याख्यान बहुत है सो त्रिलोकसार सिद्धान्त विषै विशेष करि कहा है, तहां देखि लेना । इहां तौ रचना मात्र कही है । बहुरि सौमनस वन अर नन्दन वन पांचसै पांचसै योजन के चौडे हैं । इक तरफ कटनी परै है । अर भद्रशाल वन पूर्व पश्चिम दिशा विषै बाईस हजार, बाईस हजार योजन का लम्बा है, दक्षिण उत्तर भद्रशाल वन पांचसै पांचसै योजन का लम्बा है इनकी विशेष रचना त्रिलोकसार विषै कही है तहां देखि लेना ।

— चौदह गुणस्थानों में मरकर जीव कहां जाता है —

द्वय

मिश्र खीन संजोग, तीन में मरन न पावै,  
सात आठ नव दसम, ग्यार मरि चौथै आवै ।  
प्रथम चहुँगति जाय दुतिय विन नरक तीनगति  
चौथे पूरव आव वंधतै चहुँगति प्रापति ॥

पंचम तें ग्यारम सात गुन,  
मरै सुरग में औतरै ।

बन्दौं इक चौदस थान तजि,  
अजर अमर सिव पद वरै ॥८४॥

अब चौदह गुणस्थाननि कूं तजि जीव कहां कहां जाइ यह कथन । और कहां कहां न जाय, अर चौदह गुणस्थाननि के परिणामनि सैं किस किस गति विषैं उपजै यह नाम मात्र कथन च्यारौं गतिनि का करिए है ।

मिश्र तीसरो गुणस्थान, क्षीणकषाय बारमो गुणस्थान, सयोगकेवली तेरमो गुणस्थान, सो इन तीन गुणस्थाननि विषैं जीव मरण नांही पावै है । यह नियम है । सो श्रद्धान करि आगम विषैं कहा है । सातमां अप्रमत्त गुणस्थान तैं, आठमां अपूर्वकरण गुणस्थान तैं, नवमां अनिवृत्तिकरण गुणस्थानतैं, दशमां सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान तैं, ग्यारमा उपशान्त मोह गुणस्थान तैं ए पांच गुणस्थान उपशम के, तहां तैं मरण करै तौ चौथे गुणस्थान आवै, अन्त समय अब्रतरूप चौथा का कार्माणिकसै । प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान का मूवा जीव च्यारौं ही गति विषैं जाइ, कोऊ भी बाधा नांही । परन्तु देवगति विषैं प्रैवेयक ताईं जाय, आगै न जाय यह नियम है । दूसरा सासादन

गुणस्थान विषै मरण करि जीव नरक गति बिना बाकी तिर्यच, मिनख, देव इन तीनों गति विषै जाइ । सासादन का मूवा जीव नरकगति विषै न जाय यह नियम है । और जिस जीवनै पहलै मिथ्यात्व के परिणामनि तै नरक, तिर्यच, मनुष्य, देव आयु का बन्ध कीया होय अर पीछे सम्यक्त्व परिणामनि तै चौथा गुणस्थान होवै तो मरि च्यारौ ही गति विषै जाइ । इतना विशेष जरक विषै तीजा तक जाइ, अर चायिक हाला पहिलै ही जाइ । मिनख, तिरजंचा होय तो भोगभूमि विषै जाइ । देव गति में स्वर्ग ही जाय । आयु बन्ध पहली नहीं बंध्या केवल चौथे ही आयु बांधि मरै तो देवगति में जाय । पांचमां देश-व्रत विषै मरण करै वा पांचमां गुणस्थान तै ग्यारमां गुणस्थान ताई पांचमां देशव्रत, छठो प्रमत्त, सातमों अप्रमत्त, आठमो अपूर्वकरण, नवमों अनिवृत्तिकरण, दशमो सूक्ष्म सांपराय, ग्यारमो उपशान्त मोह इन सातों गुणस्थाननि विषै मरण करै सो जीव अवश्य एक देवगति विषै जाइ और गति में न जाय, यह नियम है । अर देवगति विषै भी कल्पवासी देव, भवनत्रिक नांही होय यह नियम है । और चौदमो अयोगकेवली गुणस्थान है तिसके अन्त समय विषै सत्ता पिच्यासी प्रकृति का नाश करिकै पंडित २ मरण छं देहका सम्बन्ध छूटै सो एक

समय विषैँ सासतो षद जहां जरा नांही, बहुरि जहां मरण  
नांही ऐसा मोक्ष षद अनन्त सुख का निवास, तहां प्राप्त  
होय । तिन सिद्ध परमेष्ठीनि कूँ मेरा वारम्बार  
नमस्कार है ।

— नवमें गुणस्थान में ३६ प्रकृतियों का त्रय —

सवैया इकतीमा

प्रत्याख्यानी च्यारि औ अप्रत्याख्यानी च्यारिभेद  
संजुलन तीन नव नोकषाय जानिये ।  
एकेन्द्री विकलत्रय थावर आतप उदोत,  
सूक्ष्म और साधारन जीवनिकों मानिये ।  
निद्रानिद्रा प्रचलाप्रचला अरु स्त्यानगृद्धि,  
नींद तीनौ महाखोटी कबहूँ न ठानिये ।  
नर्क पशुगति आनुपूर्वी प्रकृति च्यारि,  
नवमें गुणस्थानक में ए छत्तीस भानिए ॥८५॥

नवमां अनिवृत्तिकरण गुणस्थान विषैँ छत्तीस प्रकृ-  
तिनि का नाश करै है तिनके नाम ।

प्रत्याख्यानावरणी कषाय च्यारि, और अप्रत्याख्याना  
वरणी कषाय च्यारि, और संज्वलन कषाय, क्रोध, मान,  
माया ए लोभ विना तीन, हास्य, रति, शोक, मय,

जुगुप्सा, ए ६, स्त्री वेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ए तीन वेद, जोड़ै नोकषाय नव, च्यारि जाति तिनके भेद ४ एकेन्द्री, वेइन्द्री—ते इन्द्री—चौइन्द्री ए विकलत्रय तीन, स्थावर, आतप, उद्योत, सूक्ष्म, साधारण, ए जीवविपाकी नौ इन विषै जीवका नाम आया । बडी निद्रा तीन, बहुत घूमै सो निद्रा निद्रा, हाथ पांव चालै सो प्रचला प्रचला, अर जिसके उदय बहुत बल होय सो स्त्यानगृद्धिनिद्रा ए तीन निद्रा महाखोटी हैं, महादुखदायी हैं भो कबहुँ चित्त विषै नाही आनिये । नरकगति, तिर्यचगति, नरक-गत्यानुपूर्वी, तिरजंचगत्यानुपूर्वी, ए च्यारि प्रकृति । नवमां गुणस्थान विषै चपक श्रेणी वाला जीव इन छत्तीस प्रकृ-तिनि का सत्ता तैं नाश करै सो सत्ता त्रिभंगी विषै देखि लेना, विशेष गोमट्टसार जी तैं देखि लेना ।

— जिनवाणी की संख्या —

सोलै सै चौतीस करोर लाख तिरासिय,  
अठत्तरसै अठासी अच्छर ए लेखिए ।  
इक्यावन कोर आठ लाख सहस चौरासी,  
छहसै साढै इकईस ए सिलोक पेखिए ।  
ताकौ पद एक जोरि एक सौ बारै किरोर,  
तेरासी लाख सहस अट्ठावन देखिए ।

पंच पद एते सत्र द्वादशांग जिनवाणी,  
बंदों मन लाय भेद ज्ञान को विशेषिए ॥८६॥

सर्वज्ञ देव की दिव्यध्वनि सो जिनवाणी सो वाणी  
च्यारि ज्ञान के धारक गणधर देवनें द्वादशाङ्गरूप रचना  
गूथी तिस द्वादशाङ्ग वाणी के पदनि की संख्या  
११२८३५८०५ तिनका नाम मात्र कथन करै है--

जिनवाणी के एक पद का अक्षर सोलासै चौतीस  
कोडि तियाती लाख सात हजार आठ सै अठ्यासी, एक  
पद के अक्षर जानने । तिन अक्षरानि के श्लोक करिए  
तौ बत्तीस अक्षर को एक श्लोक होय, तौ एक पद का  
कितनी श्लोक भये । ते इक्यावन कोडि आठ लाख  
चौरासी हजार छह सौ साठे इक्कीस श्लोक भये । इतने  
श्लोक जानने । इतने श्लोकनि का एक पद भया तौ  
द्वादशांग वाणी का पद एक सौ बारा किरोर तीयासी लाख  
अठावन हजार पांच पद है । इस भांति सब जानने ।  
ऐसी भगवान देव की द्वादशाङ्ग वाणी ताहि मन, वचन,  
काय, करि भाव सहित मैं बन्दौ हौं, पूजौ हौं, ध्यावौ हौं,  
स्मरौ हौं । तिसतै भेद विज्ञान होय है, ग्यानकी दृष्टि  
होय है । यह कथन गोमडुसारजी की ज्ञानमार्गशाविषै  
देखि लेना ।

— चौदह गुणस्थानों में कर्मों का आश्रव —  
 पहलै पांचों मिथ्यात दूजै अनन्तानुबन्धी,  
 ग्यारह अविरत प्रत्याख्यानी पांचें गहै ।  
 वैक्रियक औ अप्रत्याख्यानी त्रसवध चौथे,  
 आहारक छट्टौ षट् हास्य आठ लौं लहे ।  
 तीन वेद तीन संजलन नवें लोभ दसैं,  
 असत उभै वचन मन बारहैं कहैं ।  
 सत अनुभय वच मन ओदारिक तेरैं,  
 मिश्र कार्मान च्यारि गुणस्थानै सरदहै ॥८७॥

पांच मिथ्यात्व, वारा अत्रत, पचीस कषाय, . पंद्रा  
 जोग ए शतावन आश्रवद्वार चौदा गुणस्थान विषै कहांर  
 घटा तिनका कथन—

पहला गुणस्थान विषै पांच मिथ्यात्व—एकान्त,  
 विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान, ए अन्त विषै घटै है ।  
 दूसरै सासादन गुणस्थान अनन्तानुबन्धी विषै च्यारि घटै  
 क्रोध, मान, माया, लोभ । पांचमें गुणस्थान ग्यारा प्रकृति  
 घटै—अत्रत ११—पांच इन्द्री छठा मन इनकी  
 स्वछंदता ए ६, पांच थावर की विराधना ए ५, ऐसे ११  
 (घटे), अर प्रत्याख्यान ४ क्रोध, मान, माया, लोभ,

ए ४ ( भी घटे ) सो मिलि १५ ( घटे ) । वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, अप्रत्याख्यान ४:-क्रोध, मान, माया, लोभ ए ४ त्रस को घात ए ७ इनकी व्युत्थिति चौथे गुणस्थान में हो है । छठा प्रमत्तगुणस्थान विषै आहारक, आहारक मिश्र इन दोय की व्युत्थिति हो है । आठमें अपूर्वकरण गुणस्थान विषै हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन छह नोकषायनि की व्युत्थिति हो है । नवमें अनिष्टि करण गुणस्थान विषै नपुंसक, स्त्री, पुरुष वेद ३, अर संजुलन ३ क्रोध, मान, माया, इन छह आश्रवनि की व्युत्थिति हो है । दशमां सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानविषै एक सूक्ष्म लोभ की व्युत्थिति हो है । बारमां क्षीण कषाय-गुणस्थान विषै असत्य मन, उभय मन, असत्य वचन, उभय वचन, इन ४ आश्रव की व्युत्थिति हो है । तेरमां सयोग केवली गुणस्थान विषै सात योग-सत्य मन, सत्य वचन अनुभय मन, अनुभय वचन, औदारिक, औदारिकमिश्र, कार्माण इन सात की व्युत्थिति हो है । अर मिश्र जोग और कार्माण जोग ए च्यारि गुणस्थान विषै जानने-अर्थात् पहलै, दूसरै, चौथै, तेरमै गुणस्थान में, अहारक की अपेक्षा मिश्र विषै छठा प्रमत्त भी श्रद्धान करणा । कार्माण अपेक्षा च्यारि गुणस्थान हैं ।



— चौदह गुणस्थानों में चारों आयु का बन्ध और उदय -  
 नरक आउ पहले बंधे उदय चौथे लों,  
 पसू आउ दूजे बन्ध उदै पांच में कही ।  
 नर आउ चौथे लग बंध उदै चौदहलों,  
 सुर आउ सातौ वंध उदै चार में लही ।  
 नर पशु जीव नर्क पशु नर आउ बन्ध,  
 चौथे तें आगें चढिवैकौ न सकति गही ।  
 चारों आउ तीजे गुनथानक में बंधै नांहि ।  
 आउ नास भए सिद्ध तिनकों वंदों सही ॥८८

अब चौदह गुणस्थाननि विषै च्यारि आयु कहां २  
 बंधै और कहां २ उदय आवै सो कथन—

नरक आयु को बन्ध तौ एक पहला मिथ्यात  
 गुणस्थान विषै ही होहै, और गुणस्थानन विषै नाही, यह  
 नियम है । और नरक आयु को उदय मिथ्यात १,  
 सासादन २, मिश्र ३, अविरत ४ इन च्यारि गुणस्थान  
 तक है, आगें नाहीं । तिर्यच आयुका बन्ध तौ मिथ्यात्ब,  
 सासादन, इन दोय गुणस्थाननिविषै है, आगें बन्ध नाहीं ।  
 और तिर्यच आयु को उदय मिथ्यात, सासादन, मिश्र,  
 असंजम, देश संयम, इन पांच गुणस्थाननि विषै है, आगें

नाही । मिनख आयुका बन्ध मिथ्यात्व तें लेइ चौथा अविरत गुण स्थान तक बन्ध है । अर मिनख आयुको उदय मिथ्यात्व गुणस्थान तें लेइ चौदमां अजोगी तक है । और देव आयु को बंध मिथ्यात्वतें लेइ सातमां अप्रमत्त तक है । अर देव आयु को उदय मिथ्यात्वादि अविरत तक च्यारि गुणस्थाननि विषै ही है, आगै नांही । तिन मनुष्यनै तथा तिर्यचनिनै सरल परिणामनि करि तथा वक्र परिणामनि करि नरक आयु बांधी तथा तिर्यच आयु बांधी तथा मनुष्य आयु बांधी ऐसे आयु बंध कैसे गुणस्थान परिपाटी चढै तौ चौथे गुणस्थानतें आगै न चढै, यह नियम है । और देव आयु बंध कैसे ? ग्यारमां गुणस्थान ताई चढै, कोई बाधा नाहीं, यह नियम जानना । और तीसरा मिश्रगुणस्थान विषै नरक आयु, तिर्यच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु इन च्यारौं आयु का बंध नांही, अर मरण भी नांहीं, यह नियम वाक्य सिद्धांत का जानना ।

इन च्यारि आयु कर्म का नाश करि सिद्ध परमेष्ठी भए हैं तिन अनंते सिद्धनिनै मन, वचन, काय करि भाव सहित बंदौं हौं, पूजौं हौं, ध्यावौं हौं, स्मरण करौं हौं ।

आठ थानक निगोद नांही, च्यारि थानक सासादन जीव न जाय, तीर्थकर सत्ता जहां न पाइय, सूक्ष्म और

कार्माण शरीर रंग, मनःपर्यय विपुलमति परमावधि सर्वा-  
वधि मोक्ष जाय सो कथनः—

भूमि नीर आगि पौन केवल आहारक,  
नरक स्वर्ग आठ में निगोद नांही गाईए ।  
सूक्ष्म नरक तेज वायमें न सासादन,  
भौनत्रिक पशू में न तीर्थकर पाइए ॥  
सब ही सूक्ष्म अंग कहे हैं कपोतरंग,  
कारमान देह को सुपेद रंग भाइए ।  
विपुल मनपर्यय परमावधि सर्वावधि,  
ठीक लहै मोक्ष तातें इन्हें सीस नाइए ॥८६॥

पृथिवीकायिक जीवनि के शरीर विषैं, जलकायिक  
जीवनिके शरीर विषैं, अगनिकायिक जीवनि के शरीर विषैं,  
पवनकायिक जीवनि के शरीर विषैं, केवली भगवान के  
शरीर विषैं, और प्रमत्तगुणस्थानवर्ति मुनिराज, आहारक  
ऋद्धि के धारक तिनके प्रगट भयो जो आहारक शरीर ता  
विषैं, नारकीनि के शरीर विषैं, देवनि के शरीर विषैं ए  
आठ स्थाननि विषैं निगोदिया जीव नांही पाइए । यह  
जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है ।

पृथ्वी, जल, नित्य इतर निगोद, सूक्ष्म जीवनि विषैं,

नारकी सातों पृथिवी के तिन विषैँ, अग्निकायिक सूक्ष्म वादरनि विषैँ, पवनकायिक सूक्ष्म वादर जीवनि विषैँ, सासादनगुणस्थान विषैँ, मरण करि सासादन गुणस्थान लीया नाही जाय ।

भवनवासी, व्यन्तरदेव, ज्योतिषीदेव इन भवनत्रिक विषैँ अर भोगभूमिया वा कर्मभूमिया तिर्यंचनि विषैँ, तीर्थङ्कर की सत्ता सहित जीव नाहीं जाय । तातैँ भवनत्रिक देव, तिर्यंचनि विषैँ तीर्थङ्कर की सत्ता नाहीं पाईए ।

सब ही छह प्रकार के सूक्ष्म जीवनि का शरीर का वर्ण जिनेन्द्र देवनैँ कापीत वर्ण कहा है । कबूतर का शरीर को जैसे वर्ण तैसा रंग सूक्ष्म जीवनि का शरीर को है । विग्रहगति विषैँ जो कार्माण शरीर ताका श्वेतवर्ण जिनेन्द्र भगवान नैँ कहा है ।

विपुलमति, मनः पर्ययज्ञान के धारक मुनिराज, अर परमावधि ज्ञान के धारक मुनिराज, सर्वावधि ज्ञानके धारी मुनिराज, निश्चय थीकी मोक्षपद जो आमीक पद ताहि पाबैँ है । यह नियामक बचन है । ता करण तैँ ए तीनों सर्वावधि, परमावधि, विपुलमति ज्ञान के धारक तद्भव मोक्षगामी मुनिराजनि कूँ सीस नमाऊँ हूँ । मस्तक नमाय मैँ नमस्कार करूँ हूँ ।

— सात नरकों और सोलह स्वर्गों का आवागमन —

सातों तैं निकसि पशु, छठे नर व्रत नांहिं,

पांचै महाव्रत चौथेसेती मोक्षसार है ।

तीजे दूजे पहिलै तैं आय जिनराय होय,

भौनत्रिक स्वर्ग दोय एकेन्द्री धार है ।

द्वादश में स्वर्ग ताईं पंचेन्द्री पशु होय

ऊपर को आयो एक नरको औतार है ।

दक्खेन्द्र सुधर्मराणी लोकपाल लौकान्तिक

सर्वार्थसिद्धि मोक्ष लहै, नमोकार है ॥६०॥

अब सातों नरकनि का आया तथा सोलह स्वर्गनि का आया तथा अहमिन्द्रनि का आया जीव कहां २ उपजें यह ऋथन—

सातवां नरक तैं निकसि कै जीव महाक्रूर पंचेन्द्री तिरजंब होय, और नाहीं होय, यह नियम है । और छठा नरक तैं निकस्यो जीव मिनख तौ होय परन्तु महाव्रत नांही धारि सकै यह नियम है । पांचमां नरक का निकस्या महाव्रत तौ धारन करै परन्तु कर्मक्षय करि मोक्ष नाहीं जाय यह नियम है । चौथा नरककौ निकस्यौ जीव महाव्रत धारन करि कर्मनि का नाश करि मोक्ष

जाय, परन्तु त्रिलोक लोभकारी तीर्थङ्करदेव नाहीं होय, यह नियम है । और तीसरा नरक का आया, दूसरा नरक का आया, पहला नरक का आया इन तीन नरक का आया जीव तीर्थङ्कर देव होय, यामें कोई बाधा नाहीं । इस भांति नरकनि का आया जीव का उपजने का व्याख्यान किया । भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी ए भवन-त्रिक अर सौधर्म ईशान स्वर्ग इन पांचों ठौर का आया जीव एकेन्द्री होय, परन्तु अग्निकायक, वायुकायिक न न होय और पृथ्वी कायक, जलकायक, वनस्पतिकायक, हो सो भी वादर होय सूक्ष्म न होय यह नियम है । सौधर्म ईशान को आयो एकेन्द्री होय तातें ऊपरका आया एकेन्द्री नाहीं होय यह नियम है । और वारमां सहस्रार स्वर्ग ताई का आया पंचेद्री तिर्यच होय अर वारमां तें ऊपरि का आया जीव तिर्यच न होय यह नियम है । और सहस्रार स्वर्ग के ऊपरि च्यारि स्वर्ग, नव श्रैवेयक, नव अनुदिश, पांच अनुत्तर इनका आया जीव मनुष्य होय, मिनख गति बिना और गति त्रिषै नाहीं उपजै, यह नियम है । स्वर्गनि के आठ युगल हैं । तिन त्रिषै वारा इन्द्र हैं । छह इन्द्र दक्षिण के छह इन्द्र उत्तर के । सो दक्षिण के तौ छहौं इन्द्र ए. अर सौधर्म स्वर्ग का इन्द्र की राखी सची जो तीर्थङ्कर कौं गर्भगृह में स्र ह्याइ इन्द्रकू

सौपै, सौधर्म को च्यारो लोकपाल सोम यम वरुण कुबेर  
 ए, पांचमां स्वर्ग के अन्त विषै बसने वाले सारस्वतादि  
 लौकान्तिक देव ए, अर सर्वार्थसिद्धि विमान के सब अह-  
 मिन्द्र देव ए, इन पांचौं ठिकाणों के आये जीव ऊँ ही भव  
 सँ मोक्ष जाय यह नियम है । ए सब एक भवतारी हैं, ताँ  
 इन सबनि नै मेरा नमस्कार है ।

— सोलह कषायों के दृष्टान्त और उनके फल —  
 पाहन की रेखा, थंभ पाथर कौ, बांसबिडा,  
 क्रुमिरंग सम, चारों नरक मांहि ले धरें ।  
 हललीक हाडथंभ मेषसींग गाडीमल,  
 क्रोध मान माया लोभ तिरजंच में परें ।  
 रथलीक काठथंभ गोमूत देहमैल से,  
 कषाय भरे जीव मानुष में अवतरें ।  
 जलरेखा वेतदंड खुरपा हलदरंग,  
 'द्यानत' ए चारि भव सुर्ग रिद्धि कौं करै ॥६१॥

अब सोला कषायनि का दृष्टान्त तथा तिनका फल  
 यह कथन नाम मात्र कहै है ।

अनन्तानुबन्धी क्रोध पाषाण की लीक समान जानना ।  
 अनन्तानुबन्धी मान पाषाण का स्तम्भ समान जानना ।

अनन्तानुबन्धी माया बांसका विडा समान है वा हिरण्य सींग समान जाननी और अनन्तानुबन्धी लोभ कृमि जीव के रंग समान जानना । ए च्यारौं अनन्तानुबन्धी क्रोध मान, माया, लोभ, नरक गति विषै ले जाय हैं, यह नियम है । ए कषाय अनन्त संसार के बंधन नै कारण है ।

अप्रत्याख्यानी क्रोध हल की लीक समान जानना सो छह महीना रहै । अप्रत्याख्यानी मान हाड का थम्भ समान है । अप्रत्याख्यानी माया मींटा का सींग समान है । अप्रत्याख्यानी लोभ गाडी की धुरा का मैल समान है । ए च्यारौं अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ तिर्यंच गति विषै ले जाय है ।

प्रत्याख्यानी क्रोध गाडी की लीक समान है । प्रत्याख्यानी मान काठ का थंभा समान है । प्रत्याख्यानी माया गाय का मूत्र समान है । प्रत्याख्यानी लोभ शरीर का मैल समान है । ए च्यारौं कषाय पन्द्रा दिन रहै । प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ जीव कौं मनुष्यगति विषै ले जाय ।

संज्वलन क्रोध जल की लीक समान है । संज्वलन मान वेद की लकड़ी समान है । संज्वलन माया खुरपा समान है । संज्वलन लोभ हलद का रंग समान है ।



द्यानतराय कहै है ए च्यारि संज्वलन की क्रोध, मान, माया लोभ देवगति विषै ले जाय ।

— चौदह गुणस्थानों में चौतीस भावों की व्युच्छित्ति —  
 पहिलें मिथ्यात अभव्य दूसरै विभंग तीन,  
 लेस्या तीन अव्रत नरक देव चारमें ।  
 पशु पांचें लेस्या दोय सातें लोभ दसैं लग,  
 क्रोध मान माया तीन वेद नौ विचार में ।  
 मृत तेरैं नर भव्य जीवत असिद्ध चौदैं,  
 पंचलब्धि अज्ञान चख अचख बारमें ।  
 चौतीसों भाव कहे चौदह गुणस्थानक में,  
 वे उनीस वारहमें में हों अविचार में ॥६२॥

अब चौतीस भाव चौदह गुणस्थाननि विषै कहां २ घटै तिनका जुदा २ कथन —

पहले गुणस्थान के अन्तविषै मिथ्यात्व और अभव्य ए दोय भाव घटे । दूसरा सासादन गुणस्थान विषै तीन विभंग ज्ञान घटे । कृष्ण, नील, कापोत, तीन लेस्या, अर अव्रत और नरक गति, देवगति, इन छह भावनि की अव्रत गुणस्थान के अन्त व्युच्छित्ति हो है । पांचमें गुणस्थान एक तिर्यंचगति की व्युच्छित्ति होहै । सातमें गुणस्थान

के अन्तर्विषे पीत लेस्या, पद्मलेस्या, दौय लेस्या घटी ।  
दशमां सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान विषे एक सूक्ष्म लोभ  
घट्या और नवमे अनिष्टिकरण गुणस्थान विषे क्रोध,  
मान, माया, ए तीन कषाय और स्त्री, पुरुष, नपुंसक ए  
तीन वेद ए छह भाव नवमां का अन्त विषे घटे । तेरमां  
गुणस्थान के अन्त एक शुक्ल लेस्या घटी । और चौदमां  
गुणस्थान विषे मनुष्यगति, भव्यत्व, जीवित्त, असिद्धत्व,  
ए चार भाव चौदमां गुणस्थान विषे घटे । क्षयोपशम की  
लब्धि पांच और अज्ञान और चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, ए  
आठ भाव बरमे गुणस्थान के अन्त घटे । ए चौतीस  
भावनि की इस भांति व्युत्थिति गुणस्थानक विषे  
कही । और बाकी उगणीस भाव बारह गुणस्थान विषे  
जानने । और निश्चय नय करि में एक परिष्काम भाव  
करि संयुक्त हौं, इन सब विकारनि तैं रहित हैं ।

— बारह गुणस्थानों में उन्नीस भाव —

उपसम चोथे ग्यारें वेदक है चोथे सातें,  
चायक है चोथे चौदें, देशब्रत पांच में ।  
ज्ञान तीन तीजें बारें, मनपजें छट्टे बारें,  
चारित सराग छट्टे दसैं कह्यो सांच में ।  
औधि तीजें बारें, उपसम चारित ग्यारें ही,

ज्ञायिक चारित वारै चौदैं कर्म वाच में ।  
 पंचलब्धि ज्ञायिक दरस ज्ञान तेरें चौदैं,  
 नमों भाव उनवीस छूटैं नर्क आंच में ॥६३॥

अब उगणीस भाव वारमां गुणस्थान कै विषैं किस  
 किस भांति हैं तिनका नाम मात्र कथन—

उपशम सम्यक्त्व चौथा गुणस्थान तैं लेकैं ग्यारमां  
 गुणस्थान ताईं पाईए । और वेदक सम्यक्त्व चौथा गुण-  
 स्थानतैं लेकैं सातमां गुणस्थान ताईं पाईए । अर ज्ञायिक  
 सम्यक्त्व चौथा गुणस्थान स्रं लेइ चौदमां गुणस्थान ताईं  
 पाईए, तथा सिद्धनि विषैं भी पाईए । और देशत्रत भाव  
 पाँचवां गुणस्थान विषैं ही होय और पाँचवां ताईं पाईए,  
 आगैं नाहीं पाईए । और तीन सुज्ञान चौथा गुणस्थान तैं  
 वारवां गुणस्थान ताईं पाईए । और इननैं तीसरे तैं लेकैं  
 कहा सो हमारी समझि में न आया, किस भांति  
 कहा । मिश्रज्ञान की अपेक्षा कहा होयगा । और मनः  
 पर्ययज्ञान छठा गुणस्थान तैं लेकैं वारमां गुणस्थान ताईं  
 पाईए सो महाव्रती मुनीश्वरनि कै पाईए यह जानना ।  
 और सरागचारित्र छठा गुणस्थान तैं लेकैं दशमां गुण-  
 स्थान ताईं पाईए । दशमां आगैं वीतराग भाव है, सराग  
 भाव नाहीं । अवधि दर्शन चौथा तैं लेइ वारवां तक पाईए ।

मिश्र ज्ञान की अपेक्षा तीजा तैं कह्ला है । उपशम चारित्र  
 ग्यारमां गुणस्थान विषैं होहै, सो उपशम चारित्र ग्यारमो  
 गुणस्थान विषैं ही पाईए । ज्ञायिक चारित्र बारमां गुण-  
 स्थान तैं लेकैं चौदमां गुणस्थान विषैं कर्म का अन्त ताईं  
 जानना । ज्ञायिक की पांचलब्धि और केवल दर्शन, केवल  
 ज्ञान ए सात भाव तेरवां गुणस्थान विषैं चौदमां गुणस्थान  
 विषैं जानने । इस भांति उगणीस भाव जानने । सो तिनके  
 चंदिबे तैं स्मरण तैं नरकनि की आयु तैं रहित होय मोक्ष  
 कूं प्राप्त होय ।

चौदह गुणस्थान विषैं आश्रव भाव आयु उगणीसभाव यंत्र

गुणस्थान	मि	सा	मि	अ	दे०	प्र	अ	अ	अ	सू	उ	ज्ञी	स	अ
आश्रव	५	४	०	७	१५	२	०	६	६	१	०	४	७	००व्युच्छित्ति
भाव	२	३	०	६	१	०	२	०	६	०	०	८	१	४ व्यु०
आयु	बंध	४	३	०	४	१	१	१	०	०	०	०	०	० व्यु०
आयु	उदय	४	४	४	४	२	१	१	१	१	१	१	१	० व्यु०
उगणीस	भाव	०	०	४	७	८	६	६	८	८	८	८	६	६ पाइए
		०	०	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	
		०	०	०	१	०	१	०	०	१	२	५	०	५

— चारों गतियों में आश्रव द्वार —

सवैया इकतीसा

वैक्रियक दाय बिना नर पचपन द्वार,  
 आहारक दाय बिना त्रेपन तिर्यंच हैं ।

औदारिक दोग दोग आहारक षड्वेद,  
 पांच विना देवनि के बावन कौ संच है ।  
 आहारक दोग दोग औदारिक नरनारी,  
 छहौं विना इक्यावन नर्क में प्रपंच है ।  
 चारों गति मांहि ऐसे आश्रव सरूप जानि,  
 नमों सिद्ध भगवान जहां नाहि रंच हे ॥६४॥

अब च्यार गति विषै मत्तावन आश्रवद्वार केते २

यह कथन—

वैक्रियक, वैक्रियकमिश्र इन दोग योग विना  
 मनुष्य गति विषै सामान्य आश्रव द्वार पचावन है, यह  
 जानना । और तिर्यंच गति विषै वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र  
 तौ दोग तौ मनुष्य में नाही थे अर आहारक, आहारक  
 मिश्र इन दोग विना त्रेपन आश्रव द्वार हैं । और मत्तावन  
 आश्रवनि विषै औदारिक, औदारिक मिश्र, आहारक,  
 आहारक मिश्र, नपुंसक वेद इन पांच विना देवनि के  
 बावन आश्रव द्वार जानना ।

आहारक, आहारकमिश्र, औदारिक, औदारिक मिश्र  
 स्त्री वेद, पुरुष वेद इन छहौं विना नारकी जीवनि के सामान्य  
 इक्यावन आश्रवद्वार जानने । इस भांति च्यारौं गति विषै  
 आश्रवद्वार जानने । मैं सिद्ध भगवान अनन्ता है तिननै

नमस्कार करौंहीं जहाँ सिद्धनि विषैं रंचमात्र भी आश्रव  
नाहीं ।

चारों गति विषैं सामान्य आश्रव यन्त्र

गुणस्थान	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ
मनुष्य	५३	४८	४२	४४	३७	२४	२२	२२	१६	१०	६	६	७	०	०
तिर्यच	५३	४८	४२	४४	३७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
देव	५२	४७	४१	४१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
नारकी	५१	४६	४०	४२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

— चारों गतियों में त्रेपन भाव व्यौरा —

सासतौ स्वभाव पंचभाव सिद्ध वंदत हों,  
तीनों गति विना नरकै पचास दीस हैं ।  
ज्ञायक के आठ समकित विना पनपर्जै,  
चारित दोय ग्यारै विन पशु उन्तालीस है ।  
सुभ लेस्या तीन नरनारिवेद देशव्रत,  
एते छहों भाव विना नारक तेतीस हैं ।  
हीन तीन लेस्या षण्डवेद चारि भाव नाहिं,  
सुभ लेस्या नरनारि सुरकै चौंतीस हैं ॥६५॥

अब च्यारों गति विषैं त्रेपनि भावनि का व्यौरा—

केवलदर्शन, केवलज्ञान, ज्ञायिक सम्यक्त्व, असन्त



-- छहों लेस्या वालोंके मिथ्यात्व गुणस्थान में कौनर  
कर्मों का बन्ध होता है --

विकलत्रे सूक्ष्म साधारन अपर्याप्त,  
नरकगति आनुपूर्वी नरक आव हैं ।  
मिथ्यामांहि लेस्या तीन बांधै इकसो सतरै,  
नव दिना पीत कै ऋटोतरसौ भाव हैं ।  
एकेद्री थावर औ आतप इन तीन विना,  
पद्म एकसौ पांच बन्ध को उपाव हैं ।  
पशुगति आउ आनुपूर्वी उदोत विना,  
सुकल एकसौ एक वंधै पुन चाव हैं ॥६६॥

छह लेस्या वाले जीव मिथ्या गुणस्थान विषै कर्म  
बांधै तिनकां ब्यौरा --

वे इन्द्री, ते इन्द्री, चौ इन्द्री, ए विकलत्रय तीन, काहू  
तै रुकै नाहीं सो सूक्ष्म, अनंतनि का समुदाय सो साधा-  
रन, अन्तरालवर्ती सो अपर्याप्त, नरकगति, नरकगत्या-  
नुपूर्वी, नरक आयु, ( इन ११७ का ) मिथ्यात्व गुणस्थान  
विषै कृष्ण, नील, कापोत लेस्या वाला जीव एक सौ सत्तरा  
प्रकृति का बन्ध करै । उपरि कहै नौ, विकलत्रय ३ नरक  
के ३ सूक्ष्म १ साधारन १ अपर्याप्त इन नौ भाव प्रकृति



विना एक सौ आठ प्रकृतिका पीतलेस्या वाला जीव (मिथ्या-तविषै) बन्धकरै है । एकेंद्री, स्थावर, और आतप इन तीन विना पञ्चलेस्या वाला जीव मिथ्यात त्रिषै एक सौ पांच प्रकृतिका बन्ध करै है । तिर्यचगति, तिर्यच आयु, तिर्यच गत्यानुपूर्वी, उद्योत इन च्यारि प्रकृति विना मिथ्यात्व गुणस्थान त्रिषै शुक्ल लेस्या वाला जीव एक सौ एक प्रकृति का बंध करै है ।

छहों लेस्यावालेनिकै बंध प्रकृतिनिका यंत्र

गु०	मि	सा	मि	अ	दे	प्र	अ	अ	अ	सू	उ	क्षी	म	अ
कृष्ण	११७	१०१	७४	२७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
नील	१	७	१०१	७४	७७	०	०	०	०	०	०	०	०	०
कापोत	११७	१०१	७४	७७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
पीत	१०८	१०१	७४	७७	६७	६३	५६	०	०	०	०	०	०	०
पद्म	१-५	१०१	७४	७७	६७	६३	५६	०	०	०	०	०	०	०
शुक्ल	१०१	६७	७४	७७	६७	६३	५६	५८	२२	१७	१	१	१	०

—: चौरासी लाख योनियां :—

सात लाख पृथ्वीकाय सात लाख अपकाय,  
 सात लाख तेजकाय सात लाख वात है ।  
 सात लाख नित्य औ इतर सात साधारण,  
 दस लाख प्रत्येक एकेंद्री गात है ।

वे ते चव इन्द्री दो दो मानुष चोदौ लाख,  
 नर्क स्वर्ग पशु चार चार लाख जात है ।  
 चौरासी लाख जाति मो ऊपरि क्षमा करौ,  
 हमहूँ नैं क्षमाकरी बैर विधे घात है ॥ ६७ ॥

अब चौरासी लाख जाति का जुदा २ व्यौरा का नाम मात्र कथन—

पृथ्वी काय जीवनि की सात लाख जाति है । जल-कायिक जीवनि की जाति सात लाख है । अग्निकायिक जीवनि सात लाख जाति है । पवनकायिक जीवनि की जाति सात लाख है । नित्यनिगोदियानि की जाति सात लाख है । और इतर निगोदियानि की जाति सात लाख है साधारण की, ऐसैं नित्य इतरतैं चौदह लाख जाति है । प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवनि की दश लाख जाति है । ऐसे ऐकेन्द्री जीवनि की बावन लाख जाति है । वे इन्द्री जीव दोय लाख, ते इन्द्री जीव दोय लाख, चौइन्द्री जीव दोय लाख जाति है । ऐसे विकलत्रय की छह लाख जाति भई । मनुष्यनि की चौदह लाख जाति है । नारकी जीवनि की च्यारि लाख जाति है । देवनि की च्यारि लाख जाति है । पंचेन्द्री तिर्यचनिकी च्यारि लाख जाति है । ऐसैं पंचेन्द्री

## चौरासी लाख योनि जाति जीवनि की का यंत्र

एकेन्द्री	विकलत्रय	पंचेन्द्री
पुष्पी काय ७०००००		गरीकी ४०००००
अल काय ७०००००		विद्युय ४०००००
प्रेय काय ७०००००		वैद्य ४०००००
वायु काय ७०००००		मनुष्य ४४०००००
		शुद्ध २५००००००
		शुद्ध २४००००००
		शुद्ध २३००००००
		शुद्ध २२००००००
		शुद्ध २१००००००
		शुद्ध २०००००००
		शुद्ध १९००००००
		शुद्ध १८००००००
		शुद्ध १७००००००
		शुद्ध १६००००००
		शुद्ध १५००००००
		शुद्ध १४००००००
		शुद्ध १३००००००
		शुद्ध १२००००००
		शुद्ध ११००००००
		शुद्ध १०००००००
		शुद्ध ९०००००००
		शुद्ध ८०००००००
		शुद्ध ७०००००००
		शुद्ध ६०००००००
		शुद्ध ५०००००००
		शुद्ध ४०००००००
		शुद्ध ३०००००००
		शुद्ध २०००००००
		शुद्ध १०००००००
		शुद्ध ००००००००

जीवनि की छब्बीस लाख जाति है । सबनि का जोड़  
चौरासी लाख जाति का भया ।

सो चौरासी लाख जाति म्हारै उपरि क्षमा करौ ।  
अरु हमनै भी चौरासी लाख जाति परि क्षमा करी है ।  
और बैर भाव का करना महादुखदाई है, भव भव मैं घात  
का कारण है ।

जिन त्रेसठ कर्म प्रकृतियों के नाश होनेपर केवलज्ञान  
— होता है उनका व्यौरा

नर्क पशूगति आनुपूर्वी प्रकृति चारि,  
पंचेंद्रिय विना चारि आतप उदोत हैं ।  
साधारन सूक्ष्म और थावर प्रकृति तेरै,  
नर आव विना तीन मिलि सोलै होत है ।  
सैंतालीस घातियां की त्रेसठि प्रकृति सर्व  
नाश भए तीर्थङ्कर जानमयी जोत हैं ।  
देवनि के देव अरहन्त हैं परम पूज्य,  
तिनही को बिम्ब पूजि होहिं उंच गोत हैं॥६८

अब त्रेसठि प्रकृतिनि का नाश भये केवलज्ञान उपजै  
है तिनके नाममात्र कथन—

नरकगति, तिर्यचगति, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यचगत्या-  
नुपूर्वी ए च्यारि प्रकृति, पंचेन्द्री विना एकेन्द्री, वेइन्द्री,  
ते इन्द्री, चौ इन्द्री, ए च्यारि जाति, आतप, उद्योत,  
साधारन, सूक्ष्म और स्थावर ए तेरा प्रकृति १३ नाम  
जाननी कर्म की। मिनख आयु विना तीन आयु। ए  
सब मिलि करि सोला प्रकृति अघातियांनि की भई।  
सैंतालीस प्रकृति घातियां की ज्ञानावरण ५, दर्शनावरण ६,  
मोहनी २८, अन्तराय ५ ए सैंतालीस घातियां की। अर  
अघातिया की १६ मिलि त्रेसठि प्रकृति भई। इन त्रेसठि  
प्रकृतिनी का नास भए प्रकृति बन्ध, स्थितिवन्ध, अनुभाग  
बन्ध, प्रदेश बन्ध सर्व नाश भए तीर्थकर देव कै तीर्थङ्कर  
प्रकृति का उदय होय है। केवलज्ञान दर्शन, ज्योतिर्भई  
निजस्वभाव प्रकट होत है। तिन अर्हन्त देवाधिदेव तिनका  
प्रतिबिम्ब के नमस्कार कीये, पूजन कीये, उच्च गोत्र का बंध  
हो है। जो जीव जिनेन्द्रदेवजी की प्रतिमानै पूजै है सो  
उच्चकुल विधै उपजै है।

— चारों गतियों में बन्ध योग्य प्रकृतियों कथन —

श्रौदारिक दोय आहारक दोय नर्क देव,  
गति आउ आनुपूर्वी दसों बखानी है।  
विकलत्रै सूक्ष्म साधारन अयर्जापत,

सोलैं विन सत चार देव कैं प्रवानी हैं ।  
 एकेन्द्री थावर आतप तीन प्रकृति विना,  
 नरक एक सत एक बंध जोगानी है ।  
 तीर्थङ्कर आहारक विना पशु सौ सतरै,  
 नरकै बीसां सौ सत्रनाशै शिवथ जानी है ॥६६॥

अब च्यारों गति विषैं एक सौ बीस प्रकृतिनि का  
 बन्ध का जुदा जुदा व्यौरा का कथन —

औदारिक, औदारिक अंगोपांग, आहारक, अहारक  
 अंगोपांग, नरकगति, देवगति ए २, नरक आयु देव आयु  
 ए २, नरक गत्यानुपूर्वी देवगत्यानुपूर्वी ए २, ए दश  
 प्रकृति भई । वे इन्द्री, ते इन्द्री, चौ इन्द्री, ए ३, सूक्ष्म,  
 साधारण, अपर्याप्त, इन सौलैं विना बाकी एक सौ  
 च्यारि प्रकृति देवगति विषैं सामान्य बन्ध जोग्य है । एकेन्द्री,  
 स्थावर, आतप, इन तीन प्रकृति विना नरकगति विषैं  
 नारकीनि कैं सामान्य एक सौ एक प्रकृति का बन्ध होहै ।  
 देवगति की १०४ विषैं तीन प्रकृति घटाएँ तब एक सौ  
 एक नरकगति विषैं बन्ध जोग्य जाननी । एक सौ बीस  
 प्रकृतिनि विषैं तीर्थङ्कर, अहारक, अहारक अंगोपांग, इन  
 तीन विना तिर्यचनि कैं सामान्य एक सौ सत्तरा का बंध  
 है । मनुष्य गति विषैं सर्व एक सौ बीस प्रकृतिनि का

बन्ध हो है । इन सब एक सौ बीस का बन्ध का नाश करै तब मोक्ष पदकूँ प्राप्त होय यह जानना ।

चारौं गति विषैँ सामान्य बंध प्रकृति १२०

गुण०	मि	सा	मि	अ	दे	प्र	अ	अ	अ	सू	उ	ली	म	अ
मनुष्य	११७	१०१	६६	७२	६०	६३	५६	५८	२२	१७	११	१	१	०
देव	१०४	६६	७०	७२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
नारकी	१०३	६६	७०	७२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
तिर्यक्	११७	१०१	६६	७२	६७	०	०	०	०	०	०	०	०	०

— समस्त जीवों की उत्कृष्ट आयुका व्यौरा —

मृदु भूमि वारै खर भू वाईस जल सात,  
 वात तीनि तरू काय की दस हजार है ।  
 पंछी की बहत्तरि सहस्र वियालीस सांप,  
 आगि दिन तीनि त्रेइन्द्री वरष वार है ।  
 तेइन्द्री दिन उनचास चौइन्द्री छह मास,  
 सरी सूप पूर्वाङ्ग नव आयु धार है ।  
 मच्छ कोरि पूरव मनुष्य पशु तीन पत्य,  
 सागर तेतीस देव नारकी की सार है ॥१००॥

एकेन्द्रियादि पंचेन्द्रिय पर्यन्त सब जीवनि का उत्कृष्ट आयु का जुदा २ कथन —





## एकेंद्रियादि पंचेद्री जीवनि का उत्कृष्ट आयु चारों गति अपेक्षा यन्त्र

एकेंद्री स्थावर	विकल	पंचेद्री जीव	
कठिन पृथ्वी	१२ वर्ष	जलवर	५ कोटि पूर्व
कौसल पृथ्वी	४८ दिन	कमर्षिस नम.	७००००
जलकाय	१२ वर्ष	शान्ति नम.	३ पर्य
अग्निकाय	४८ दिन	शान्ति नम.	३ पर्य
पवन काय	१२ वर्ष	शान्ति नम.	३ पर्य
वनस्पति काय	४८ दिन	शान्ति नम.	३ पर्य
	१२ वर्ष	सर्पिण्डि कम. शल.	४२००० वर्ष
	४८ दिन	मरुत्यादि	१ कोटि पूर्व
	१२ वर्ष	सरोसिण्ड कम. शल.	नव पूर्वोत्त
		कमर्षिस	५ कोटि पूर्व
		शान्ति	३ पर्य नील
		मनुष्य	५ सागर एक
		श्वेत	१ पर्य एक
		श्यामिणी	१ पर्य एक
		कल्पवृक्षी	३३ सागर
		नारकी जीवनि	३३ सागर
		की उत्कृष्ट	आदि सातवां नक्षत्री जाननी

आयु तेतीस सागर की है । और मध्य जघन्य के भेद कहे नहीं ते आगम तैं देखि लेनां ।

— नक्षत्रों के तारे और अकृत्रिम चैत्यालय —

षट् पांच तीन एक षट् तीन षट् च्यारि,  
 दो दो पांच एक एक चौ षट् तीनों गहै ।  
 नव चौ चौ तीन तीन पांच एक सौ ग्यारह,  
 दोय दो बतीस पांच तीन तारे ए लहै ।  
 कृतिकादि ठाईस के सब दोसै इकताली,  
 एक एक के ग्यारह सै ग्यारै सरदहै ।  
 दोय लाख सतसठि हजार नवसै वानूँ,  
 सब चैतालै प्रतिबिंब बांनी में कहै ॥१०१॥

कृतिका आदि अठाईस नक्षत्रनि के विमान तिनकी जुदी २ संख्या । तिन विषै एक २ जिन मन्दिर तिनकी संख्यापूर्वक बन्दना करै है —

कृतिका के छह तारे, रोहिणी के पांच तारे, मृगशिर के तीन तारे, आर्द्राकी एक तारो, पुनर्वसु के छह तारे, पुष्य के तीन तारे, अश्लेषा के छह तारे, मघा के च्यारि तारे, पूर्वाफाल्गुनी दोय, उत्तराफाल्गुनी दोय, इस्त के

पांच तारे, चित्रा को एक तारो, स्वाति को एक तारो, विशाखा का च्यार तारा, अनुराधा का छह तारा ज्येष्ठा का तीन तारा, मूल के नव, पूर्वाषाढ के ४, उत्तराषाढके ४, अभिजित के ३, श्रवण के ३, धनिष्ठा के पांच, शतभिसाका १११ तिनका सब तारा १२३३२१ । पूर्वा भाद्रपद पदा दोय, उत्तराभाद्रपदा दोय, रेवती बत्तीस, अश्विनी पांच, भरिणी तीन, सब उत्तर भेद कौं तारे दोय लाख सडसठि हजार नवसै बाणवै तारै भए । कृतिका आदि अठाईस नक्षत्रों के सब भेद दोय सै इकतालीस भए । बहुरि दोय सै इकतालीस के एक २ विषै ग्यारासै ग्यारा श्रद्धान करना । इन सबनि में सास्वते जिनेन्द्र भगवान के चैतार्ले हैं तिन विषै जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाजी हैं । इस भांति जिनेन्द्र भगवान की दिव्यध्वनि विषै कहा है ।

अठाईस नक्षत्रनिके विमानविषै एक एक में एक एक  
जिन मन्दिर तिन जुदा २ का व्योरा का यन्त्र

नक्षत्र नाम	संख्या	उत्तरभेद (तारे)
१ कृतिका	६	६६६६
२ रोहिणी	५	५५५५
३ मृगशिर	६	३३३३
४ आर्द्रा	१	११११
५ पुनर्वसु	६	६६६६

षट् शतक

[ २४२ ]

६ पुष्य	३		३३२३
७ अश्लेषा	६		६६६६
८ मघा	४		४४४४
९ पूर्वाफाल्गुनी	२		२२२२
१० उत्तराफाल्गुनी	२		२२२२
११ हस्त	५		५५५५
१२ चित्रा	१		११११
१३ स्वाति	१		११११
१४ विशाखा	४		४४४४
१५ अनुराधा	६		६६६६
१६ ज्येष्ठा	३		३३३३
१७ मूल	६		६६६६
१८ पूर्वाषाढ	४		४४४४
१९ उत्तराषाढ	४		४४४४
२० अभिजित	३		३३३३
२१ श्रवण	३		३३३३
२२ शतभिशाखा	११		११३३३३१
२३ पूर्वाभाद्रपद	२		२२२२
२४ उत्तराभाद्रपद			२२२२
२५ धनिष्ठा	५		५५५५
२६ रेवती	३२		३५५५२
२७ अश्विनी	५		५५५५
२८ भरणी	३		३३३३
जोड़ २८	२४१	+	२६७७५१
=			२६७६६२

— जिनवाणी के सात भंग —

द्रव्यक्षेत्र काल भाव अपने चतुष्टय अस्ति,  
 परके चतुष्टयसँ न नासति दरव हैं ।  
 आपसँ है परसँ न एक समँ अस्तिनास्ति  
 ज्यों के त्यों न कहे जांहि अस्ति अवतव्व है ।  
 अस्ति कहँ नास्ति का अभाव अस्ति अवततव्व  
 नास कहे अस्ति नांहि नाश अबतव्व है ।  
 एकठे कहे न जांहि अस्ति नास्ति अवतव्व,  
 स्याद्वाद सेती सात भंग सधँ सब है ॥१०२॥

स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्तिनास्ति, स्यादवक्कव्य,  
 स्यादस्ति अवक्कव्य, स्यान्नास्ति अवक्कव्य, स्यादस्तिनास्ति  
 अवक्कव्य ऐसे भगवान की वानी के सात भंग हैं तिनका  
 अर्थ कहिए है ।

अपनी पर्यायनि कौं प्राप्त होय सो द्रव्य । अपनी  
 सत्ता विषै तिष्ठै सो क्षेत्र । आप रूप धरनमें सो काल ।  
 अपनी शक्ति सो भाव । द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसे अपने  
 चतुष्टय करिकै द्रव्य अस्ति है, आपसा है, यह स्यादस्ति  
 कहिए । जो द्रव्य है सो द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसे अपने  
 अपने चतुष्टय सब लीए है तातँ पर द्रव्य के चतुष्टय की

अपेक्षा द्रव्य नास्ति है, पर सा नांही, यह स्यान्नास्ति कहिए । अपने चतुष्टय करि द्रव्य अस्ति है, परके चतुष्टय करि द्रव्य नास्ति है । तातैं एकही वार एक ही काल द्रव्य अस्ति नास्ति है आपसैं है, परतैं नाहीं । तातैं यह अस्ति नास्ति कहिए । द्रव्य का स्वरूप एकान्त करि ज्यों का त्यों है, सर्व न कहा जाय, जो अस्ति कहे तो नास्ति का अभाव आवै, नास्ति कहे अस्ति का अभाव होय, अर अस्ति नास्ति एकैं काल कहा जायता नांही । तातैं द्रव्य स्यादवक्त्रव्य ऐसा कहिए । जो सर्वथा द्रव्य अस्ति कहिए तो नास्तिका अभाव होयगा, द्रव्य अस्ति रूप है, पर कहा जाय नाहीं । यह अस्ति अवक्त्रव्य कहिए । और जो द्रव्यनैं सर्वथा नास्ति कहिए तो अस्ति ताका अभाव होय द्रव्य नास्ति रूप है, पररूप कहा जाता नांही, तातैं यह स्यान्नास्ति अवक्त्रव्य है । अस्ति के कहने विषैं नास्ति का अभाव और नास्ति के कहने विषैं अस्ति का अभाव होय क्योंकि वचनक्रमवर्ती हैं, तातैं अस्ति नास्ति दोन्यों एकठे एकैं काल कहे न जाय । द्रव्य अस्ति नास्ति एकैं काल है परन्तु कहा जाता नाहीं, तातैं स्यादस्तिनास्ति अवक्त्रव्य कहिए । स्यात् पद का कथंचित् अर्थ जानना । सब परि स्यात् पद सहित । इस भांति एक द्रव्य स्याद्वाद सेती सप्त भंग रूप सधै है । इस सप्तभंग भभिंत

जिनवानी का विशेष कथन दृष्टान्त सहित भाषा वचनिका कर्मकाण्ड विषेँ देखि लेना, पंडित हेमराजजी ने विशेष कहा है ।

### सप्त भंग जिनवाणी का जंत्र

स्यादस्ति १	प्रथम
स्यान्नास्ति २	द्वितीय
स्यादस्तिनास्ति	तृतीय
स्यादवक्तव्य	चतुर्थ
स्यादस्ति अवक्तव्य	पंचम
स्यादस्तिनास्ति अवक्तव्य	षष्ठम
स्यादस्तिनास्ति वक्तव्य	सातम

स्यात् शब्द का कर्त्तव्य अर्थ है ।

—: सर्वज्ञ के ज्ञान की महिमा :—

जीव है अनंत एक जीव के अनंत गुण,  
 एक गुण के असंख परदेश मानिए ।  
 एक परदेश में अनंत कर्म वर्गणा है ।  
 एक वर्गना में अनंत परमाणु ठानिए ।  
 अनु में अनंत गुण एक गुण में अनंत,  
 परजाय एक के अनंत भेद जानिए ।

तिन तैं हुए अनंत तातैं हों हिंगे अनंत,  
सब जानै समै मांहि देव सो बखानिए ॥१०३

अब सर्वज्ञदेव का ज्ञान की महिमा दिखाइए है—

सब ही जीव अपनी २ सत्ता लिए अनन्ते हैं। जीव राशि की संख्या का प्रमाण द्विरूप वर्गधारा विषै कहा है तहां जानना। और एक जीव के अनन्त गुण हैं ते जीव राशि तैं भी अनन्तगुणे हैं, तो भी आलाप करि अनन्त ही कहे जाय हैं। जो जीव है सो असंख्यात प्रदेशी है और निश्चय करि जीव और गुण इनकै भेद नाहीं, अभेद है। तातैं एक २ असंख्यात २ प्रदेशी जानने, श्रद्धान करने। और जीव के एक २ प्रदेश ऊपरि अनन्त २ कर्मवर्गणा है संसारी जीव के प्रदेशनि विषै एकावगाही होइ करि परस्पर तिष्ठै है। एक एक कर्मवर्गणा विषै अनन्तानन्त पुद्गल परमाणु हैं क्योंकि अनन्ता परमाणु मिले बिना कर्मरूप वर्गणा होय नाहीं है। बहुरि पुद्गल की एक २ परमाणुविषै अनन्ते २ गुण हैं। बहुरि एक २ गुण अनन्त २ परजाय रूप परिणमैं हैं। यह कथन इस भांति जानना। और एक २ पराजय के अनन्त २ भेद जानिये। द्रव्य के भी अनन्त भेद हैं। सो वर्तमान काल विषै अनन्त प्रकार रूप परिणवै है। और तिन वर्तमान



परिणतिनि तैँ अतीतकाल अनन्तगुन परनया अनंतधा रूप हूँ कैं । और अतीतकाल की परिणति तैँ अनागतकाल विषेँ अनन्त गुन परणयो अनन्त प्रकार रूप करिकैं । और केई प्राणी ए सब अतीत अनागत वर्तमान परजाय परिणति तिननैँ एक समय विषेँ साक्षात् देखैं और जानैं जाकी ज्ञान आरसी विषेँ सब भलकैँ सो सर्वज्ञदेव कहिए । यह कथन बानारसोदासजी की वचनिका विषेँ देखि लेना विचारना ।

अब ग्रन्थ की पूर्णता अथवा कविता का करण का अनुग्रह भाव कथन--

-- कवि का अन्तिम कथन --

( छाप्य )

चरचा मुख सों भनैँ सुनैँ नहिँ प्राणी कानन,  
केई सुनि घर जाय, नाहिँ भाखैँ फिरि आनन,  
तिनको लखि उपमार सार यह शतक बनाई,  
पढ़त सुनत हूँ बुद्धि सुद्ध जिनवानी गाई ।

इसमें अनेक सिद्धान्त का

मथन कथन 'द्यानत' कहा,

## सब मांहि जीव को नाम है

जीव भाव हम सरदहा ॥१०४॥

जो पुरुष सज्जन हैं उपकारी हैं सर्वशास्त्र के ज्ञाता हैं ते पुरुष चर्चा शास्त्र न्याय मुख सौं करै और दयाल होय सूत्र मा फक वचनिका रूप बुद्धि बल करि चर्चा करै हैं । या भांति वचनिका रूप सूत्र माफिक गुरु चर्चा करै, सभा विषै सुनावै परन्तु और हू प्राणी कान देकै सुनै नांही, सुननै विषै मन लगावै नांही, और केई प्राणी चर्चा सुन करि अपने घर विषै जाय घरके धन्धे विषै फंसिकरि विसरि जाय हैं । घर विषै चरचा कौं अपनै मुखसै नांही भाषै है, फिरि २ सुनि विसरि जाय, यादि राखै नांही । तिनपरि अनुग्रह करि कै दयाल होइ कै उपकार करनै कै अर्थि सार कहिए महामनोज्ञ गंभीर अर्थ सौं भरे यह शतक कहिए सौव कवित्त धानतराय जैनी आगरावाले नै बनाये, छन्द बांधे । तिनकी पंजिका हरजीमल पानीयपथीनै करी । तिस सौव कवित्त बन्ध चर्चा शतक के सुनवै तै पढिवै तै एक सौ कवित्त मन लाइ कै पढै सुनै तिनकी महान तीक्ष्ण बुद्धि होय । इन सौव कवित्तनि विषै एक शुद्ध जिनेश्वर देव की वानी है तिनके पढिवे तै सुनिवे तै महा निर्मल बुद्धि होय । इस चर्चा शतक विषै अनेक

सिद्धान्त शास्त्रनि का कथन मथन करिकै विचारि कै  
 दानतरायजी नैं भली भांति तज्वसार काढ्या है, बालबुद्धी  
 मन्दबुद्धी जीवनि के सिद्धान्तनि विषै प्रवेश होने कै अर्थि  
 कक्षा है । दानतरायजी कहै हैं इन सब कविनि विषै एक  
 जोव द्रव्यका नाम ही सारभूत है । तातैं जीव पदार्थ ही  
 का हमनैं श्रद्धान किया है । जो भले प्रकार एक जीव  
 द्रव्य का स्वरूप प्रमाण नय निक्षेपनि करि जाणि लिया  
 मो सब ही जायगां सकल सिद्धान्त द्वादशांग जीव द्रव्य  
 के जानणे वास्तै है ।







# वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल नं० 280.8 द्यानत

लेखक श्री व्याजतराय. नाव

शीर्षक यन्त्र शास्त्र

खण्ड 8283 क्रम संख्या